

प्रकाशक  
वन्यकुमार जैन  
हिन्दी-ग्रन्थागार  
पी-१५, कलाकार स्ट्रीट  
वडावाजार  
कलकत्ता

मूल्य : संयुक्त भागोंका ४॥।) साँडे चार रुपया

# रवीदू-लालित्य

भाग ६-१०

अनुवादक

धन्यकुमार जैन

हिन्दी-ग्रन्थागार  
पी-१५, कलाकार स्ट्रीट  
कलकत्ता - ৭



# उल्लभान

‘नौकाडूवो’

9

रमेश अबकी बार कानूनको परीक्षामें पास हो जायगा, इसमें किसीको भी सन्देह न था। विश्वविद्यालयकी सरस्वती चुरुसे ही अपने स्वर्ण-कमलकी पखड़ियाँ झड़ाकर रमेशको मेड्ल देती आई हैं, और स्कालरशिपसे भी वह कभी वचित नहीं रहा।

परीक्षा देनेके बाद अब उसके घर जानेको बात है। लेकिन अभी तक इक्के बगैरह सजाने-करनेवाले उसमें कोई उत्साह ही टेखनेमें नहीं आता। उसके पेताने जल्दी चूर आनेके लिए उसे चिट्ठी दी है। रमेशने जवाबमें लिख देया है कि परीक्षा-फल निकलते हो वह घरके लिए रवाना हो जायगा।

अनन्दा बाबूका लड़का योगेन्द्र उमका सहपाठी है। उसके बगलवाले मकानमें ही वह रहता है। अनन्दा बाबू ब्राह्मसमाजी हैं। उनकी लड़की हेमनलिनी अबकी बार एफ०ए०की परीक्षा दी है। रमेश अनन्दा बाबूके घर अड़सर चाय पीने, और न पीनेके लिए भी, जाया करता है।

हेमनलिनी नहानेके बाद छतपर जाकर बाल सुखाती हुई अपना सेवक याद किया करती थी। रमेश भी उसो समय अपने मकानकी छतपर निरालेमें बैठ कितावके पन्ने उलटा करता था। पढ़नेके लिए ऐसी निराली जगह उसे मुआफिक पढ़नी होगी, इसमें शक नहीं, लेकिन जरा गहराईके सोचकर देखा जाय तो समझतेमें देर न लगेगी कि इसमें अड़चनें भी बैठती थीं।

अब तक व्याहके बारेमें किसी भी तरफसे कोई बात नहीं उठी। अनन्दा की तरफसे बात न छिड़नेका एक सबव था। एक लड़का विलायत गया वरिस्टर होनेके लिए, उसकी तरफ अनन्दा बाबूका भीतर-ही-भीतर जरा ग़लव था।

उस दिन चायको टेबिलपर जोरकी एक बहस छिड़ गई। अक्षय ज्यादा कुछ पास नहीं कर सका है, मगर सिर्फ इसीलिए उस वेचारेको चाय पोने और दूसरी तरहको प्यास बुझानेका शौक कुछ कम हो सो बत नहीं। लिहाजा हेमनलिनीकी चायकी टेबिलपर वह भी कभी-कभी शरीक हो जाया करता था। उसने बहस छेड़ी थी कि मर्दकी अक्ल तलवारके माफिक है, वगैर सान दिये भी वह अपने बजनसे बहुत काम निकाल सकती है, और औरतोंकी अक्ल कलमतराश छुरी जैसी होती है, चाहे जितनी भी सान क्यों न दी जाय, उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, वगैरह-वगैरह। हेमनलिनी अक्षयको इस बकवासको सुनी-अनसुनी करनेको तैयार थी। मगर औरतोंकी अक्लको छोटी सावित करनेके लिए उसका भाई योगेन्द्र भी जब सबूत पेश करने लगा, तो रमेशसे फिर रहा न गया। वह गत्तम् हो उठा; और जोरसे उसने औरतोंकी तारीफके पुल बांधना शुरू कर दिया।

इस तरह रमेश औरतोंकी भक्तिमे गरक होकर जोश-ही-जोशमें और-और दिनोंसे दो प्याले ज्यादा चाय पी गया; इतनेमें नौकरने आकर उसके हाथमें एक छोटी-सी चिढ़ी थमा दी। लिफाफेपर उसके पिता के दस्तखतोंमें उसका नाम लिखा हुआ था। चिढ़ी पढ़कर बहसके बीच ही में वह जल्दीसे उठे खड़ा हुआ। सर्वोने पूछा—“बात क्या है?” रमेशने कहा—“बापूजी देह से यहाँ चले आये हैं।” हेमनलिनीने योगेन्द्रसे कहा—“भाई साहब, रमेश बाबूके बापूजीको यहीं क्यों न बुला लाओ, यहाँ चाय-नाश्ता सब तैयार है।”

रमेशने कहा—“नहीं, आज रहने दीजिये, मैं जाता हूँ।”

अक्षयने खुश होकर मन-ही-मन कह लिया—“यहाँ खाने-पीनेमें ऐतराज हो सकता है।”

रमेशके पिता ब्रजमोहन बाबूने रमेशसे कहा—“कल सुबहकी रक्षाके तुम्हें देश चलना है।”

रमेशने सिर खुजाते हुए पूछा—“कोई खास काम है क्या?”

ब्रजमोहनने कहा—“ऐसा कोई खास काम नहीं।”

तो फिर इतनी तागीद क्यों, इतना सुननेके लिए रमेश अपने

मुहकी और देखता रहा, पर पिताने उसके इस चुप्पी-शुदा सवालका कोई जवाब देना जहरी नहीं समझा ।

ब्रजमोहन बाबू खामके बक्त जब अपने कलकत्तेके इष्ट-मित्रोंसे मिलनेके लिए जान्दा चले गये, तब रमेश उनके लिए एक चिट्ठी लिखने बेठ गया । 'पूज्य बापूजीको सेवामे' तक लिखा, किर आगे उसकी कलम ही न चली । फिर/भी, मन-ही-मन वह कह उठा, 'मैं हेमनलिनीके बारेमें जिस बिन-कहे सत्यमें वेव चुका हूँ, बापूजीसे उसका छिगाना किसी भी हालतमें ठीक न होगा ।' उसने बहुत-सी चिट्ठियाँ बहुत तरहसे लिखीं और फाड़-फाड़ ढालीं ।

ब्रजमोहन बाबू खा-पोकर आरामसे सो गये । रमेश छतपर जाकर रुद्धोसके मकानकी ओर देखता हुआ निशाचरकी तरह इवरसे उधर घूमने लगा ।

रातके नौ बजे अद्यथ अनन्दा बाबूके घरसे चला गया, करीब साढ़े-नौ बजे उनके मकानका बाहरबाला दरवाजा बन्द हो गया, दस बजेके कर्गेव उनकी घेठक को बत्ती तुम्ह गई और लगभग साढ़े दस बजे उम घरके सब-कोई स्तो-मा गये ।

दूसरे दिन, सबेरेकी गाड़ीसे रमेशको रवाना हो जाना पड़ा । ब्रजमोहन बाबूसी सावधानीकी बजहसे गाड़ी फेल करानेका कोई भी मौका रमेशके हाथ न लेर्हा ।

## २

देख जाकर रमेशको पता चला कि उसके व्याहके लिए लड़की और दिन दोनों ही तय हो चुके हैं । उसके पिता ब्रजमोहनके बचपनके मित्र ईर्शानचन्द्र जय नकालत करते थे तब ब्रजमोहनकी हालत अच्छी नहीं थी, उन्होंको मददरो उनकी तरकी हुई थी । वही ईर्शानचन्द्र जय असमयमें मर गये, तब देखा गया कि उनके पास पल्ले कुछ नहीं था, उल्टा कर्जा छोड़ गये हैं । उनकी विधवा स्त्री एक नन्हीं-सी बच्चोंके साथ गरीबामें झूंचो हुई हैं । वही लड़की आज व्याह-खायक हो गई है ; ब्रजमोहनने उसीके साथ रमेशका व्याह करना तय किया है । रमेशके हितुओंमेंसे किसी-किसीने उज्ज उठते हुए कहा—“सुना है कि अड़की उतनी अच्छी नहीं ॥” ब्रजमोहनने कहा—“ये सब बत्तें मैं अच्छी नहीं समझता । अदमी कोई फूल या तितली नहीं कि अच्छा दीखनेजा

सबाल ही सबसे पहले उठाया जाय ! लड़कोंको मा जैसो सतो-साध भी अगर वैसी ही हुई तो रमेशको अपना भाग्य सराहना चाहिए ।

‘‘गुभ विवाह’’को अफवाहोंसे रमेशका मुँह सूखकर इतना-सा र उदास होकर इधर-उधर घूमने लगा । इससे छुटकारा पानेके लिए उत्तरकीवें सोचीं, पर कोई भी उसे ऐसी नहीं मालूम हुई जो ठिक सके । आखिरकार बड़ी मुश्किलसे मिथक दूर करके उसने कह ही ढाला —“बापूजी, यह ब्याह करना मेरे लिए नामुमकिन जगह बचन दे चुका हूँ ।”

ब्रजमोहन—“कहता क्या है ! विलकुल तिलक-विलक सब

रमेश—“नहीं, ठीक तिलक तो नहीं हुआ, लेकिन—”

ब्रजमोहन—“लड़कीवालोंसे बातचीत सब तय हो चुकी है ?”

रमेश—“नहीं, बातचीत पक्की जिसे कहते हैं सो तो नहीं—”

ब्रजमोहन—“नहीं हुई तो ? तब फिर, इन्हें दिनोंसे ज तो और भी कुछ दिन चुपकी साधे रहनेसे काम चलें जायगा ।”

रमेश जरा चुप रहकर बोला—“लेकिन, और किसी लड़के मेरे लिए बड़ी बैइन्साफीकी बात होगी ।”

ब्रजमोहनने कहा—“न करना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा है ।”

रमेशसे और-कुछ कहते न बना । वह सोचने लगा, इस सब-कुछ रद भी हो जा सकता है ।

रमेशके ब्याहका जो दिन सुधा था, उसके बाद सासहालग नहीं था, वह सोचने लगा, दैवयोगसे किसी कदर अग्न हो गया तो कमसे कम साल-भरकी मियाद तो बढ़ ही जायगी ।

बारात नावसे जायगा, सो भी नजदीक नहीं, दूर दो-तीन नदियोंमें होकर जाना पड़ता है, जिसमें तोन-चार दिन ब्रजमोहन बाबू दैवके लिए काफी गुजाइश छोड़कर हफ्ते-भर सुहृत देखके रवाना हो गये ।

बराबर हवा सुआफिक रही। सिमूलघाट पहुँचनेमें पूरे तीन दिन भी न लगे। व्याहको अभी चांर दिन बाकी हैं।

ब्रजमोहन वावूकी दो-चार दिन पहले आनेको ही तबीयत थी। सिमूलघाट में उनको समधिन बड़ी गरीबी हालतमें रहती हैं। ब्रजमोहन वावू बहुत दिनोंसे चाहते थे कि उनको अपने गाँवमें लाकर आरामसे रखें, और मित्रका फज अदा करें। पर कोई खास अपनेपनका ताल्लुक न होनेसे अचानक वे इस बातको उनके आगे पेश न कर सके। अबको बार इस व्याहके मौकेपर उन्होंने समधिनको इस बातपर राजी कर लिया है। उनकी गृहस्थीमें सिवा एक लड़कीके और कोई न था, अपनी लड़कीके पास रहकर बिना-माके दामादकी माकी जगह लेनेमें वे कुछ उत्तर न कर सकीं। उन्होंने कहा—“कोई कुछ भी कहे, जहाँ मेरी लड़की और दामाद हैं वहीं मेरा गाँव है।”

व्याहके कुछ दिन पहले आकर ब्रजमोहन वावू अपनी समधिनकी घर-गृहस्थी उठा ले जाना चाहते थे। आखिर यही तथ्र हुआ कि व्याहके बाद एक साथ सब चले चलेंगे। इसीलिए वे घरसे कहे रिश्तेदारिनोंको गाँव लेते आये हैं।

व्याहके बज्जे रमेशने ठोक तौरसे मन्त्र नहीं पढ़ा, शुभर्द्धिके बज भी वह आँख मीचे रहा, सुहाग-रातमें वह साली-सरहजोंकी हँसी-मजाको सिर छुकाये यों ही बरदाद्दत करता रहा, रातको पलगके एक किनारेसे उलटे करबट सोया, और तदका होते ही चुपकेसे बाहर चला आया।

व्याहके बाद, औरतें एक नावपर, बड़े-बूढ़े दूसरी नावपर और ढूळा और उसके साथी तीसरी नावपर रखाना हुए। और चौथी नावपर रोशनचौकीवाले थे, जो थीच-बीचमें कोई-न-कोई राग-रागिनी जैसे-तैसे अलापते जाते थे।

दिन-भर बड़ी जोरकी गरमी रही। आमानमें वादल नहीं थे, फिर भी एक अजीब किसकी आव-हवा चारों तरफसे धेरे हुए थी, किनारेके पेड़ोंका रग मटमेला-सा दिखाई दे रहा था। पेड़के पत्ते तक नहीं हिल रहे हैं। मास्ती-मलाह पसीनेसे तर-बतर और परेशान हैं। शामका अंधेग पूरा जम भी न पाया था कि मलाह लोग कहने लगे, “वावू माहव, नाव अब किनारेसे लगा देना ठीक है, आगे बहुत दूर तक नाव लगानेकी कोई जगह नहीं है।” पर

ब्रजमोहन वावूको रास्तेमे ज्यादा देर लगाना पसन्द न था। उन्होंने कहा—  
“यहाँ लगानेसे काम न चलेगा। आज रातको शुरू-शुरूमें चाँदनी रहेगा, वा-  
धाट पहुँचकर वहाँ नाव लगाना ठीक रहेगा। तुमलोगोंको इनाम मिले।  
चले चलो।”

नाव गाँव छोड़कर आगे बढ़ने लगी। नदीके एक किनारे बालू चमक र  
है और दूसरे किनारे ऊचे कगारे मौका पाते ही धसकतेको तयार हैं। कुछे  
बीचमेंसे चाँद तो दिखाई दिया, पर मतवालेकी आँखोंकी तरह बहुत ही धुँधल

इतनेमें, आपमानमें बादल नहीं, कुछ नहीं, और अचानक न-जाने कहाँ  
बादलोंकी-सी गरजन सुनाई दी। पीछेकी ओर मुङ्कर जो देखा तो बड़ा-भ  
बवण्डर पेंडोंकी ढालियाँ-पत्ते, घास-फूस और धूल उड़ाये लिये चला जा र  
है। “रोको रोको, सम्हालो सम्हालो, हाय हाय” करते-करते लहसे-भरमें क्या  
क्या हो गया, किसीको कुछ होश ही न रहा। उस बबड़ने यक्कायक स  
नावोंको किधरसे किधर उठाकर फेंक दिया, कुछ पता ही न लगा।

## २

तूफान थम गया, और कुहरा भी जाता रहा। बहुत दूर तक फेली हु  
बालूपर साफ-सुथरी चाँदनी ऐसी चमक रही है जैसे किसी विधवाने सफेद-फ  
चादर ओढ़ रखी हो। नदीमें कोई नाव नहीं थी, और न लहरें ही थीं  
सख्त बोमारीकी तकलीफके बाद मौत जैसे बोमारपर एक तरहकी अजीब शानि  
फैला देती है, ठीक उसी तरह, क्या पानी और क्या जमीन जब जगह शान्तिः  
शान्ति दीख पड़ती है।

होश आनेपर रमेशने देखा कि वह बालूपर पड़ा हुआ है। क्या हुआ थ  
उसकी याद करनेमे उसे जरा कुछ बक लगा। उसके बाद बुरे सपनेकी तर  
सारी घटना उसके मनमे जाग उठी। उसके पिता और बाकीके सब लोगों  
क्या हालत हुई, इसकी खोज करनेके लिए वह उठ खड़ा हुआ। चारों तर  
निगाह फैलाकर उसने जो देखा तो कहाँ किसीका नामो-निशान तक नहीं  
आखिरकार, उनलोगोंका पता लगाने लिए वह बालूपर आगे बढ़ने लगा।

पड़ा नदीके बोचमे लम्बा टापू-सा है, जिसपर वह चल रहा है। दो-

तरफ पानी है, उसके बीचमें यह सफेद टापू ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोरा बच्चा नग-धड़ग सोया पड़ा हो। रमेश एक छोरसे दूसरे छोरपर पहुँचा तो देखा कि कुछ दूरीपर एक लाल कपड़ा-सा पड़ा है। वह जल्दी-जल्दी लपकता हुआ उसके पास पहुँचा, देखा तो व्याहको लाल पोशाक पहने दुलहिन पड़ी है मुरदा-सी।

पानीमें छूटे हुए मुरदा-से शरीरमें कैसे साँस वापस लाइ जाती है, रमेशको यह बात मालूम थी। बहुत देर तक रमेश उस दुलहिनकी बाहे पकड़कर सिरके ऊपर तक तानता और फिर उन्हें उसके पेटपर दबाता रहा। बहुत देर बाद कहीं जाकर उसने साँस ली और आँखें खोलीं।

रमेश तब बहुत यक चुका था। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। उस लड़कीसे कुछ पूछें, इतना भी उसमें दम न था।

लड़की भी तब तक पूरे होशमें न आई थी। एक बार आँखें खुलनेके बाद फिर उसके पलक बन्द हो गये। रमेशने गौर करके देखा तो उसकी साँस चलती ही पाई। और तब वह उस सुन-सान जल-थलकी सीमामें जिन्दगी और मौतके बीच बैठा हुआ, चांदनीके उस धुँधले उजालेमें बहुत देर तक उसके मुखदेकी तरफ ढेरता रहा।

किसने कहा या कि सुशीला देखनेमें अच्छी नहीं है। उसकी आँखोंके सामने आँखें मूदे हुए यह जो मुखद्वा पड़ा है वह छोटा जहर है, फिर भी इतने बड़े आसमानके बीच, दूर तक फैली हुई चांदनीमें सिर्फ यही एक खूबसूरत कोमल मुखद्वा देखने लायक गौरवकी चीज बना हुआ है, इसमें उसे जरा भी सन्देह न रहा।

रमेश और सब बातें भूलकर सोचने लगा, 'इसे मैंने व्याहके मण्डपमें, भीढ़-भम्भड़ और शोरगुलके बीच नहीं देखा, सो अच्छा ही किया। इसे इस तरह और-कहों भी न देख सकता था। इसके अन्दर साँस चलाकर मैंने इसे व्याहके मन्त्रोंसे कहों ज्यादा अपना बना लिया है। मन्त्र पढ़कर इसे मैं जहर मिलनेवाली चीजकी तरह पाता, पर यहाँ इसे मैंने विधाताकी एक खास देनकी तरह पाया है।'

पूरा होश आनेपर घहू उठके धैठ गई और अपने कपड़ोंको सम्हालकर धूँधलसे उसने अपना गुँह ढक लिया।

रमेशने पूछा—“तुम्हारी नावके और सब लोग कहाँ गये, तुम्हें कुछ मालूम है ?”

उसने सिर्फ़ सिर हिला दिया, कुछ बोलो नहीं । रमेशने फिर पूछा—“तुम यहाँ जरा बैठो रहोगी, मैं एक बार चारों तरफ धूम-फिरकर पता लगा आऊँ ?”

बहूने कोई जवाब नहीं दिया । पर उसकी सारी देह ऐसी सकुच्चा सी गर्ड़ कि जिसके मानी होते हैं, ‘यहाँ मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ ।’

रमेश इस बातको समझ गया । उसने खड़े होकर एक बार चारों तरफ गौरसे देखा । सफेद बालूपर कहीं कोई भी नजर न आया । अपने पिता और दितेदारोंका नाम ले-लेकर वह खूब चिल्हाता रहा, पर कहींसे कुछ जवाब न आया ।

रमेश फजूल कोशिश करनेसे बाज आया, और बैठ गया । बैठते ही उसने दिखा कि बहू दोनों हाथोंसे मुँह छिपाकर अपनी रुलाइ रोकनेकी कोशिश कर रही है, उसकी छातोमें रह-रहकर उफान-सा उठ रहा है । रमेश तसलीकी कोई बात न करके उसके पास जाकर सटके बैठ गया, और आहिस्ते-आहिस्ते उसकी पीठ और माथेपर हाथ फेरने लगा । अब तो उसका रोना दबाये दब न सका, वह सिसक-सिसककर रोने लगी । रमेशकी आँखोंसे भी आँसू बहने लगे ।

थके हुए हृदयने जब रोना बन्द किया तब चाँद छिप चुका था । अँधेरेमें वह सुनसान जमीनका टुकड़ा एक अजीब सपने-सा मालूम देने लगा । रेतीकी वह सफेदी अब धुँधली होकर ब्रेतलोककी-सी पीली-पीली दिखाइ देने लगी । तारोंकी टिमटिमातो हुई रोशनीमें नदी अजगर-सर्पकी चिकनी काली चमड़ीकी तरह जगह-जगहसे चमक रहा है ।

तब रमेशने दुलहिनके, ढरसे ठड़े-पड़े, छोटे-छोटे दोनों कोमल हाथोंको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर आहिस्तेसे अपनो भोर खोंच लिया । डरो हुई दुलहिनने इसमें कोई रुकावट नहीं ढालो । आदमीको अपने नजदीक महसूस करनेके लिए तब वह तरस रही थी । ऐसे अडिग सज्जाटेमें साँससे काँपती हुई रमेशकी छातीपर आश्रय पाकर उसे बड़ा आराम मालूम होने लगा, उसके लिए यह शरमानेका बक्सा नहीं । रमेशकी दोनों बाहोंके बीच उसने खुद ही अपनी अन्दरूनी दिलचस्पीसे अपने लिए जगह कर ली ।

पौ फटी । शुक-तारा छिपनेकी कोशिशमें है । पूरवकी तरफ नदीके नीले पानीके ऊपर आसमान जब पहले पोला-सा और फिर गुलाबी हो उठा, तब देखा गया कि नींदका मारा रमेश बाल्क्षर पड़ा सो रहा है ; और उसकी छातीके पास उसको बाहूपर सिर रखे नई दुलहिन गहरी नींदमें बेहोश पड़ी है । अन्तमें, सुबहकी कोमल धूप जब दोनोंकी आँखोंपर आ पड़ी तब दोनोंके दोनों भइभड़ा कर उठ बैठे । बड़े ताज्जुबके साथ 'दोनोंके दोनों कुछ ढेर तक चारों तरफ देखते रहे, उसके बाद अचानक उन्हें याद आया कि वे अपने घरमें नहीं हैं ; याद आया कि नावमें थे और तूफानमें यहाँ वह आये हैं ।

## ४

जरा दिन चढ़ते ही मलाहोंकी मछलीमार डॉगियोंसे नदी भर गई, सबमें छोटे-छोटे सफेद पाल चढ़े हुए थे । रमेशने उन्होंमेंसे एकको पुकारकर अपने पास बुलाया, उसकी मददसे एक बड़ी नाव किरागेप्र ली, अपने लापता कुदुम्बी जनोंकी खोजके लिए थानेमें खबर देकर सिपाही तैनात कराये, और फिर दुलहिनको लेकर अपने गाँवकी ओर रवाना हुआ ।

गाँवके घाटपर नाव लगते ही रमेशको खबर मिली कि उसके पिता, सामु और कई रिश्तेदारोंको लाशें पुलिसने नदीसे निकाली हैं । कुछ मलाहोंके सिना और-कोई बचा होगा, इसको किसीको भी उम्मीद न रही ।

घरमें रमेशकी बूढ़ी दादी थी, वे रमेशको दुलहिनके साथ वापस आते देख जोर-जोरसे फूट-फूटकर रोने लगीं । मुहल्लेसे और जिन-जिनके यहाँसे बारात गई थी उनके घर भी रोना-न्पीटना शुरू हो गया । रमेश आ गया, पर घरमें न तो शख बजा, न खुशियाली मनाई गई और न किसीने बहूको मगलाचारके साथ घरमें लिया, यहाँ तक कि किसीने उसकी तरफ आँख उठाकर देखा तक नहीं ।

कारज हो जानेके बाद ही रमेश बहूको लेकर कहीं बाहर चला जायगा, यह तय कर चुका था ; पर पिताकी जायदाद बगैरहका ठीक-ठीक इन्तजाम बगैर किये उसका यहाँसे हिलाना मुश्किल हो गया । उसपर इस गर्भीकी बजह से घरकी औरतें इतनो उदास हो रही थीं कि उन्होंने तीर्थमें रहनेका विचार कर लिया ; उसका भी उसे इन्तजाम करना है ।

इन सब कार्योंके होते हुए भी, मौका मिलनेपर रमेश वहूसे प्यार करनेसे बाज आता हो सो बात नहीं। हल्लां कि पहलेसे यद्दी सुननेमें आया था कि वहू बिलकुल बच्ची नहीं है, यर्हा तक कि गाँवकी औरतोंने उसे ज्यादा उमरकी बताकर धिक्कारा भी था, फिर भी, उसके साथ कैसे प्रेम किया जाय, इस बारेमें इस बी० ए० पास नौजवानको आज तक अपनो किसी भी किताबमें कोई बात नहीं मिली, इसीसे हमेशासे उसकी यद्दी धारणा चली आ रही थी कि उसके लिए ये सब बातें नामुमकिन हैं और बेटब भी। फिर भी, किताबों तजुर्बेके साथ बिलकुल न मिलनेपर भी, ताजजुब है कि उसका ऊँची-तालीम पाया-हुआ मन भीतर-ही-भीतर एक अजीब किस्मके रससे भर उठा और उस छोटी-सी लड़कीकी तरफ अपने-आप झुक चला। वह उस लड़कीके अन्दर अपनी कल्पनासे अपनो गृहलक्ष्मीका रूप देखने लगा। और इस तरह एक हो समयमें उसकी स्त्री ब्याहली-वहू, तरुणी प्रेयसी, घरको लक्ष्मी और बच्चोंकी धोर चतुर माके रूपमें, उसकी ध्यानमें गरक आँखोंके सामने, नाच उठी। चित्रकार जैसे अपने चननेवाले चित्रको और कवि जैसे अपने भावों काव्यको बहुत ही सुन्दर रूपमें देखता हुआ अपने हृदयके अन्दर बहुत ही लाड-प्यारसे पालता रहता है, ठीक उसी तरह रमेश अपनी इस छोटी-सी वहूको भावी प्रेयसीके रूपमें अपने हृदयमें रखकर मारे खुशीके फूला न समाया।

## ५

इस तरह लगभग तीन महीने बीत गये। जमीन-जायदाद सम्बन्धी सारा इन्तजाम करीब-करीब ठीक हो चुका है। वहाँ-वहाँ सब तोर्थवासके लिए तेंयासियाँ कर चुकीं। पढ़ोसकी दो-एक साथिनें नई वहूके साथ मेल बढ़ानेके लिए आने-जाने लगीं। रमेशके साथ उसकी नई नवेलोकी प्रीतकी पहलो गाँठ आहिस्ते-अहिस्ते मजबूत हो चली।

अब, शामके बक्क निराली छतपर खुले आकाशके तले दीनोंने चटाई बिछा कर बैठना शुरू कर दिया है। रमेश पीछेसे आकर अचानक वहूको आँखें धर दबाता है, उसका सिर अपनी छातीसे चिपका लेता है, और वहू जब ज्यादा

रात होनेके पहले ही बगैर खाये-पीये सो जाती है तो रमेश उसे तरह-तरहसे छेड़कर जगाता और भुक्लाहट-भरो बातें सुनाता है ।

एक दिन शामके बाद रमेशने बहूका जूँड़ा पकड़के हिला दिया , और जोला—“सुशीला, आज तुम्हारा जूँड़ा अच्छा नहीं वेंधा ।”

— बहू अचानक कंह बैठी—“अच्छा, तुम लोग सभी मुझे सुशीला क्यों कहा करते हो ?”

रमेश इस सवालका मतलब कुछ भी न समझ सका और दग होकर उसके मुँहकी ओर देखता रहा ।

बहू कहने लगी—“मेरा नाम बदल देनसे ही क्या मेरा भाग किर जायगा ? मैं तो वचपनसे ही अभागिन हूँ, बगैर मरे मेरा अभागापन नहीं मिटनेका ।”

यकायक रमेशकी छाती धब्बक उठी, उसका चेहरा फक पड़ गया, तुरत उसके मनमें शक पैदा हो गया कि जल्ह कहीं कोई गलतफरमी हुई है । उसने पूछा —“वचपनसे ही तुम अभागिन कैसे हुई ?”

बहूने कहा—“मेरे जनमनेसे पहले ही मेरे पिता मर गये, और मुझे जनम देनेके छै महीने बाद मेरी मा मर गई । किर ननसाल रही, सो भी बही मुसिवतोंसे दिन काटे । अचानक तुम न-जाने कहाँसे चले आये और मुझे पसन्द कर वैठे । दो दिनके अन्दर ही व्याह हो गया , उसके बाद देख लो, सब मुसीबतें ही मुसीबतें पड़ रही हैं ।

रमेश खामोश होकर तकियेके ऊपर सिर रखके लेट गया । आसमानमें चाँद अपनी चाँदनी छिट्ठका रहा था, पर, उसके लिए सारी चाँदनी स्याह हो गई । रमेशको दूसरा सवाल करते हुए डर लगने लगा । जितना उसे मालूम हुआ है उसको वह वक्तवास या सपना समझकर अपनेसे दूर ढकेल देना चाहता है । वेहोशीसे होशमें आया-हुआ सर्व जिस तरह लम्ही साँस छोड़ता है उसी तरह गरमीके मौसमकी दखिनी हवा चलने गली । ऐसी सुहावनी चाँदनी रात, उसमें कोयल लोल रही है । पास ही नदीका धाट है, और नावकी छतोंपर बैठे हुए मान्नी-मालाह गीत गा-गाकर आसमानको गुजाये दे रहे हैं ।

इन सब कार्योंके होते हुए भी, मौका मिलनेपर रमेश वहूसे प्य करनेसे बाज आता हो सो बात नहीं। हलाँकि पहलेसे यही सुननेमें था कि वहू बिलकुल बच्ची नहीं है, यहाँ तक कि गाँवकी औरतोंने उसे उमरकी बताकर धिक्कारा भी था, फिर भी, उसके साथ कैसे प्रेम किया ? इस बारेमें इस बी०ए०पास नौजवानको आज तक अपनो किसो भी किताबमें कोई बात नहीं मिली, इसीसे हमेशासे उसकी यही धारणा चली आ रही थी कि उसके लिए ये सब बातें नामुकिन हैं और बेढ़ब भी। फिर भी, किताबों तजुर्वेंके साथ बिलकुल न मिलनेपर भी, ताजजुब है कि उसका ऊँची तालीम पाया-हुआ मन भीतर-ही-भीतर एक अजीब किसके रससे भर उठा और उस छोटी-सी लड़कीकी तरफ अपने-आप झुक चला। वह उस लड़कीके अन्दर अपनी कल्पनासे अपनो गृहलक्ष्मीका रूप देखने लगा। और इस तरह एक ही समयमें उसकी स्त्री ब्याहली-वहू, तरुणी प्रेयसी, घरकी लक्ष्मी और बच्चोंकी धोर चतुर माके रूपमें, उसकी ध्यानमें गरक आँखोंके सामने, नाच रठो। चित्रकार जैसे अपने बननेवाले चित्रको और कवि जैसे अपने भावों काव्यको बहुत ही सुन्दर रूपमें देखता हुआ अपने हृदयके अन्दर बहुत ही लाड़-प्यासे पालता रहता है, ठीक उसी तरह रमेश अपनी इस छोटी-सी वहूको भावी प्रेयसीके रूपमें अपने हृदयमें रखकर मारे खुशीके फूला न समाया।

## ५

इस तरह लगभग तीन महीने बोत गये। जमीन-जायदाद सम्बन्ध सारा इन्तजाम करीब-करीब ठीक हो चुका है। बड़ी-बूढ़ी सब तीर्यवासवे लिए तेयारियाँ कर चुकीं। पड़ोसकी दो-एक साथिनें नई वहूके साथ मेल बढ़ानेके लिए आने-जाने लगीं। रमेशके साथ उसकी नई नवेलोकी प्रीतकर्पहलो गाँठ आहिस्ते-अहिस्ते मजबूत हो चली।

अब, शामके बक्स निराली छतपर खुले आकाशके तले दोनोंने चटाइ बिछ कर बैठना शुरू कर दिया है। रमेश पीछेसे आकर अचानक वहूको आँखें धर दबाता है, उसका सिर अपनी छातोसे चिपका लेता है, और वहू जब उयादा

रखना तय किया । इससे फिलहाल कुछ दिनोंके लिए तो उसे चिन्ता-फिकरसे छुटकारा मिल ही जायगा ।

रमेशने कमलासे पूछा—“कमला, तुम और पढ़ोगी ?”

कमला रमेशके मुँहकी ओर देखती रही, जिसके मानी थे, ‘तुम्हारी क्या राय है ?’

रमेशने पढ़ने-लिखनेके फायदे और सहूलियतोंके बारेमें बहुत-सी बातें कहीं, हालाँकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी । कमलाने कहा—“मुझे तुम पढ़ा दो ।”

रमेशने कहा—“तो फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा ।”

कमला अचमेमें पढ़ गई, बोली—“इस्कूलमें ! इतनी बड़ी लड़की होकर मैं इस्कूल जाऊँगी ?”

कमलाको अपनी उमरके बारेमें इतना खपाल है देखकर रमेशको जरा हँसी आ गई, बोला—“तुमसे भी बहुत बड़ी-बड़ी लड़कियाँ वहाँ पढ़ने जाया करती हैं ।”

कमलाने इसके बाद फिर कुछ नहीं कहा । गाड़ीमें बैठकर रमेशके साथ एक दिन वह स्कूल गई । बड़ा-भारी मकान है, और, उससे भी बहुत बड़ी और छोटी इतनी लड़कियाँ वहाँ हैं कि जिनको शुमार नहीं । स्कूलकी हेड मिस्ट्रेसके हाथ कमलाको सौंपकर रमेश जब वापस आने लगा, तो कमला भी उसके साथ-साथ आने लगी । रमेशने कहा—“तुम कहाँ जा ग्ही हो ? तुम्हें तो यहाँ रहना है न ।”

कमला ढरे हुए स्वरमें बोली—“तुम यहाँ नहीं रहोगे ?”

रमेश—“मैं तो यहाँ रह नहीं सकता ।”

कमलाने रमेशका हाथ थाम लिया, बोली—“तब मैं यहाँ नहीं रह सकूँगी, मुझे ले चलो ।”

रमेशने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा—“छि कमला !”

इस विक्षारसे कमला सब होकर वहाँकी बहों खड़ो रह गई, उसका मुँह इतना-सा हो गया । रमेश बहुत ही दुखिन होकर झटपट चल तो दिया वहसि, पर कमलाके उस ढरे-हुए असहाय सुखड़ेको वह न भूल सका, उसकी तसवीर उसके मनमें जमकर टैठ गई ।

दिलचस्पीको फजूल समझकर मुँमलाके कहने लगी—“क्यों जो, मुँह बाये तुम देख क्या रहो हो ? कितनो अवेर हो गई है, नहाओगो नहीं ?”

रातको खाना-पीना हो चुकनेपर नौकरानी अपने घर चली गई । रमेशने कमलाको विस्तरकी तरफ इशारा करते हुए कहा—“तुम सोओ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसे खत्म करके पीछे सोऊँगा ।”

इतना कहकर रमेश एक किताब खोलकर पढ़नेका ढोंग करने लगा । कमल थकी हुई थी, उसे नींद आनेमें देर न लगी ।

रात यों ही कट गई । दूसरे दिन भी रमेशने कोई बहाना निकालकर कमल को अकेले ही सुला दिया । उस दिन गरम ज्यादा थी । सोनेके कमरेके सामने जरा-सो खुलो हुई छत थी, वहाँ एक दरी बिछाकर रमेश लेट गया ; और, बहुत-सी बातें सोचता और पखेसे हवा खाता हुआ बहुत रात बीते सो गया ।

रातको दो-तीन बजेके करीब अध-नींदी हालतमें रमेशको ऐसा महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं सो रहा है, उसके पास लेटी हुई कोई उसे पखेसे आहिस्ते-आहिस्ते बयार कर रही है । रमेशने नींदकी खुमारीमें उसे अपनी तरफ खींच लिया और अलसाये-हुए कण्ठसे बोला—“सुशीला, तुम सो जाओ, मुझे हवा करनेकी जरूरत नहीं ।” अँधेरेसे डरनेवाली कमला रमेशकी बाँहोंमें लिपटी हुई छातीसे चुपटकर आरामसे सो गई ।

सबेरे जगते ही रमेश चौंक पड़ा । देखा, सोई-हुई कमलाका दाढ़ना हाथ उसके गलेसे लिपटा हुआ है और वह बिना किसी सकोचके रमेशपर अपने भरोसेका पूरा हक फैलाये हुए उसकी छातीसे लगी खूब आरामसे सो रही है । सोई-हुई लड़कीके मुँहकी ओर देखकर रमेशकी आँखोंमें आँसू भर आये । इतने इतमीनानके साथ जो उसके गलेमें बाँहें डालकर सो रही है, उसकी बाँहोंको वह कैसे अलग करे ? रातको किसी वक्त चुपकेसे आकर वह उसे बयार करती रही है उसकी भी उसे याद आ गई । अन्तमें, एक लम्बी साँस लेकर आहिस्ते से कमलाकी बाँहें अलग करके वह बिछौनेसे उठकर चल दिया ।

बहुत सोचने-विचारनेके बाद रमेशने कमलाको बिलिका-विद्यालयके बोर्डिंगमें

रखना तय किया । इससे फिलहाल कुछ दिनोंके लिए तो उसे चिन्ता-फिकरसे छुटकारा मिल ही जायगा ।

रमेशने कमलासे पूछा—“कमला, तुम और पढ़ोगो ?”

कमला रमेशके मुँहकी ओर देखती रही, जिसके मानी थे, ‘तुम्हारी क्या राय है ?’

रमेशने पढ़ने-लिखनेके फायदे और सहूलियतोंके बारेमें बहुत-सी बातें कहीं, हालाँ कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी । कमलाने कहा—“मुझे तुम पढ़ा दो ।”

रमेशने कहा—“तो फिर तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा ।”

कमला अचमेमें पढ़ गई, बोली—“इस्कूलमें ! इतनी बड़ी लड़की होकर मैं इस्कूल जाऊँगी ?”

कमलाको अपनी उमरके बारेमें इतना खयाल है देखकर रमेशको जरा हँसी आ गई ; बोली—“तुमसे भी बहुत बड़ी-बड़ी लड़कियाँ वहाँ पढ़ने जाया करती हैं ।”

कमलाने इसके बाद फिर कुछ नहीं कहा । गाड़ीमें बैठकर रमेशके साथ एक दिन वह स्कूल गई । बड़ा-भारी मकान है, और, उससे भी बहुत बड़ी और छोटी इतनी लड़कियाँ वहाँ हैं कि जिनको शुमार नहीं । स्कूलकी हेड मिस्ट्रेसके हाथ कमलाको सौंपकर रमेश जब वापस आने लगा, तो कमला भी उसके साथ-साथ आने लगी । रमेशने कहा—“तुम कहाँ जा रही हो ? तुम्हें तो यहाँ रहना है न ।”

कमला डरे हुए स्वरमें बोली—“तुम यहाँ नहीं रहोगे ?”

रमेश—“मैं तो यहाँ रह नहीं सकता ।”

कमलाने रमेशका हाथ धाम लिया, बोली—“तब मैं यहाँ नहीं रह सकूँगी, मुझे ले चलो ।”

रमेशने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा—“छि कमला !”

इस धिक्कारसे कमला नश दोकर वहकी वहाँ लड़ी रह गई, उसका मुँह इतना-सा हो गया । रमेश बहुत ही दुखित होकर झटपट चल तो दिया वहाँसे, पर कमलाके उस डरे-हुए असहाय मुराइको वह न भूल सका, उसकी तमवीर उसके मनमें जमकर दैठ गई ।

७

रमेश तय कर चुका था कि अब वह अलीपुर कोटमें चकालत करना चुरू कर देगा। पर उसका दिल दूष्ट गया है। मनको धिर करके काममें हाथ डालने और नये-नये काममें आनेवाली अइचनोंको दूर करने लायक उसमें फुर्ती नहीं रही। अब वह कुछ दिनोंसे हवड़ाके पुलपर और गोलदिरधीके किनारे किनारे बेमतलब चक्रर लगाया करता है। एक बार उसने सोचा कि कुछ दिन पछाँहकी तरफ कहीं घूम आये, इतनेमें अननदा बाबूके यहाँसे एक चिट्ठी मिली उसे। अननदा बाबूने लिखा है, “गजटमें देखा कि तुम पास हो गये हो, पर इसकी खबर तुम्हारे पाससे न पाकर मुझे बहुत रज हुआ। बहुत दिनोंसे तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। तुम कैसे हो और कलकत्ता कब तक आ रहे हो, सो लिखकर मुझे निश्चिन्त करना।”

यहाँ इतना कह देना बेजा न होगा कि अननदा बाबूने जिस विलायत गये हुए लड़केपर नजर डाल रखी थी वह वारिप्टर होकर वापस आ गया है, और किसी अमीरकी लड़कीसे शादी होनेकी उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं।

इस बीचमें जो-जो बारदातें हुईं हैं उसके बाद भी हेमनलिनीके साथ पहलेकी तरह उसका मिलना-जुलना ठीक है या नहीं, इस बातको रमेश किसी कदर भी तय नहीं कर सका। हालमें कमलाके साथ उसका जो रिश्ता खड़ा हो गया है, उस बातको वह किसीसे कहना ठीक नहीं समझता। बैकसूर कमलाको वह दुनियाकी निगाहोंमें गिरा नहीं सकता। साथ ही, मारी बातें साफ-साफ बताये वगैर हेमनलिनीके पाससे भी वह पहले जैसा अपना हक कैसे पा सकता है?

मगर, अननदा बाबूके खतका ज्वाब उसे जल्दी देना चाहिए। उसने लिख दिया, ‘बहुत जहरी कामकी बजहसे आप लोगोंसे मुलाकात नहीं कर सका हूँ, इसके लिए मुझे माफ कीजियेगा।’ चिट्ठीमें उसने अपना नया पता-ठिकाना नहीं दिया।

चिट्ठी ढाकमें छोड़ दी। और, उसके दूसरे ही दिन रमेश काला चोगा पहनकर अलीपुरकी अदालतमें हाजिरी देने चल दिया।

एक दिन वह अलीपुरसे वापस आते समय, कुछ दूर पैदल चलनेके बाद,

घोड़ागढ़ीके कोचवानसे किराया तय कर रहा था कि इतनेमें पीछेसे पहचाने हुए कण्ठकी आवाज आई—“वापूजी, ये रहे रमेश वावू !” ये शब्द उसने इस ढगसे कहे कि जैसे वे उस ही को ढूँढ़ने निकले हों और वह बिना भरोसेका अचानक मिल गया दो ।

“ए कोचवान, रोको रोको !”

गाड़ी रमेशके पास आकर खड़ी हो गई । उस दिन अलीपुरके चिह्नियाँ-खानेमें प्रिक्निक करके अननदा वावू अपनो लड़कीके साथ घर लौट रहे थे । रास्तेमें अचानक रमेश मिल गया ।

घोड़ागढ़ीमें हेमनलिनीका वह चिकना-सुलायम सुन्दर चेहरा, खास ढगसे पहनी-हुई साड़ी, जूँड़ा वाँधनेका निराला फैशन, हायोंमें एक-एक प्लेन काँचको चूँड़ी और उसके दोनों तरफ सोनेकी डामिस-कटी चूँड़ियाँ देखते ही रमेशकी छातीके अन्दर एक तरहकी लहर-सी उठने लगी ।

अननदा वावूने कहा—“तुम खूब मिले रमेश, इतिकाकसे दोनोंका इवरसे गुजरना हुआ, वरना,—तुमने तो चिट्ठी तक लियना छोड़ दिया है, अगर लिखते भी हो तो उसमें अपना पता तक नहीं देते । अब जा कहाँ रहे हो, सो बताओ ? कोई खास काम है ?”

रमेशने कहा—“नहीं तो, अदालतसे लौट रहा हूँ ।”

अननदा वावू—“तो चलो, हमारे यहाँ चाय पीना, चलो ।”

रमेशका हृदय भर आया था । वहाँ अब दुविवा करतेकी गुंजाइश नहीं रह गई थी । वह गाड़ीमें बैठ गया । और बड़ी कोशिशसे किसके दूरके उसने हेमनलिनीसे पूछा—“आप अच्छी तरह हैं ?”

हेमनलिनीने अपनो राजीखुरोके बारेमें कुछ न कहाँ र सीधा सवाल किया—“आपने पारा करके एक बार हमलोगोंको खबर तक नहीं दी ?”

रमेशको और कुछ जवाब न सूझा तो बोल उठा—“आप भी पास हुई हैं, देखा था मैंने ।”

हेमनलिनीने हँसकर कहा—“लोंग गनीमत है कि आपने दमारी खपर-खुब रक्खी तो सही ।”

अन्नदा वावूने कहा—“तुम अब रहते कहाँ हो ?”

रमेशने कहा—“दरजीपाड़िमें ।”

अन्नदा वावूने कहा—“क्यो, कोल्हौटोला-वाला तुम्हारा पुराना मकान तं वुरा नहीं था ?”

जवाबकी इन्तजारीमें हेमनलिनी खास दिलचस्पीके साथ रमेशके मुँहवं और देखती रही। उस निगाहने रमेशपर काफी चोट की, उसी बक्त उसके कह दिया—“हाँ, अब उसी मकानमें वापस आ जाना चाहता हूँ ।”

रमेश समझ गया कि इस तरह मकान बदलनेको हेमनलिनीने उसक तरफसे कसूरके रूपमें लिया है, और अब उसकी कोई सफाई न सूझनेकी वजहं मन-हो-मन उसे बड़ा रज हुआ। दूसरी तरफसे फिर कोई सवाल नहीं उठा हेमनलिनी गाढ़ीके बाहर सङ्ककी तरफ देखती रहो। रमेशसे रहा न गया तो व वेमतलब अपने-आप बोल उठा—“मेरी एक रितेदारिन हृदुआके पास रहती है उनके नजदीक रहनेके लिए दरजीपाड़िमें कामचलाऊ दो कमरे ले लिये थे ।”

रमेशने बिलकुल झूठ नहीं कहा, पर बात कंसी-तो जरा अटपटी सी सु पढ़ी। बीच-बीचमें रितेदारिनकी खबर-सुध लेनेके लिए हृदुआसे कोल्हौटोल ऐसा कौनसा दर था ? हेमनलिनीकी दोनों आँखें गाढ़ीके बाहर ही देखत रहीं। अभागा रमेश इसके बाद क्या कहे, उसकी कुछ समझमें न आया थोड़ी टेर बाद उसने पूछा—“योगेन्द्रको क्या खबर है ?” अन्नदा वावूने कहा—“वह कानूनी परीक्षामें फेल होकर पछांहकी तरफ हवा खाने गया है ।”

गाढ़ी अपनी जगह पहुँचनेके बाद, जाने-हुए घर और उसकी सजाव वगैरहने रमेशपर जादूको लकड़ी-सी फेर दी। रमेशकी छातीमें से एक लम्ब साँस निकल आई।

रमेश बगेर कुछ बोले चुपचाप बैठा चाय पीने लगा। अनश्व वावू अचानक पूछ वैठे—“अमँकी बार तुम घर बहुत दिन रहे, कोई काम था क्या ?”

रमेशने कहा—“वापूजोका देहान्त हो गया ।”

आनश्व वावू—“ऐ, कहते क्या हो ? अचानक क्या हो गया ! कैसे क्या हुआ था ?”

रमेश—“पद्मा नदीसे नावपर घर वापस आ रहे थे, रास्ते में अचानक नाव डूब गई।”

यकायक वडे जोरको हवा चलनेसे जैसे धने वादल चटसे इधर-उधर फट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है, ठीक जैसे ही इस गमीकी खवरने रमेश और हेमनलिनीके दरमियान पड़े हुए मनके फरकको लहसे-भरम साफ कर दिया, दोनोंके बीचकी सारी गलानि जाती रही। हेम पछतावेके साथ मन-ही-मन बोली, ‘रमेश वाघको मैंने गलत समझ लिया था, पिताजा वियोग हो जानेसे इनका जो ठिकाने नहीं रहा। अभी भी तो अनमने-से बने हुए हैं। इनके घरमे केसा सकट आ पढ़ा, इनके मनको कितना जबरदस्त धक्का लगा, यह सब बगैर समझे ही हमलोग इन्हे दोष दे रहे थे।’

हेमनलिनी इस पिरुहीन रमेशको और-भी ज्यादा खातिर-तवज्जह करने लगी। रमेशको खानेको रुचि नहीं थी, हेमने उसे खास तौरसे जिद करके खिलाया-पिलाया। और बोली—“आप बहुत दुखले हो गये हैं, तन्दुरुस्तीकी तरफसे इतने लापरवाह न होइये।” अन्दा वावूसे कहा—“वापूजी, रमेश वावू आज रातको भी यहीं क्यों न खाना खायें।”

अन्दा वावूने कहा—“हाँ हाँ, ठीक तो है।”

इतनेमें अक्षय आ पहुँचा। अन्दा वावूकी चायको टेबिलपर कुछ दिनोंसे अकेला अक्षय ही हक जमाता था रहा है। अचानक आज रमेशको देखकर वह वडे असमजसमें पड़ गया। अपनेको कावूमें रखता हुआ वह हँसकर बोला—“यह क्या? आज तो रमेश वावू तशरीफ लाये हैं। मैंने तो देखा कि आप हमलोगोंको बिलकुल भूल ही गये।”

रमेश कुछ जवाब न देकर जरा हँस दिया। अक्षय बोल उठा—“आपके पिताजी आपको जिस तरह गिरपतार करके ले गये थे, मैंने सोचा कि अदकी बार वे आपका व्याह किये बगैर हर्मिज न छोड़ेंगे, अरिष्ट कटके आये हैं तो?”

हेमनलिनीने अक्षयको अपनी नाराजगीकी निगाहसे धीर दिया।

अन्दा वावूने कहा—“अक्षय, रमेशके पिताजीका देहान्त हो गया।

रमेश अपना उदास मुँह नीचे पुकाये बेठा रहा। रमेशके इनसे वहें

अन्नदा वावूने कहा—“तुम अब रहते कहाँ हो ?”

रमेशने कहा—“दरजोपड़ेमे ।”

अन्नदा वावूने कहा—“क्यो, कोल्हूटोला-वाला तुम्हारा पुराना मकान तो बुरा नहीं था ?”

जवाबकी इन्तजारीमें हेमनलिनी खास दिलचस्पीके साथ रमेशके मुँहकी और देखती रही । उस निगाहने रमेशपर काफी चोट की, उसी बक्से उसने कह दिया—“हाँ, अब उसी मकानमें वापस आ जाना चाहता हूँ ।”

रमेश समझ गया कि इस तरह मकान बदलनेको हेमनलिनीने उसकी तरफसे कसूरके रूपमें लिया है, और अब उसकी कोई सफाई न सूझनेकी बजहसे मन-हो-मन उसे बड़ा रज हुआ । दूसरी तरफसे फिर कोई सवाल नहीं उठा हेमनलिनो गाढ़ीके बाहर सड़ककी तरफ देखती रही । रमेशसे रहा न गया तो वह वैमतलब अपने-आप बोल उठा—“मेरी एक रितेदारिन हृदुआके पास रहती हैं उनके नजदीक रहनेके लिए दरजीपाड़ीमें कामचलाऊ दो कमरे ले लिये थे ।”

रमेशने बिलकुल झूठ नहीं कहा, पर बात कंसी-तो जरा अटपटी सी सुन पढ़ी । बीच-बीचमें रितेदारिनकी खबर-सुध लेनेके लिए हृदुआसे कोल्हूटोल ऐसा कौनसा दर था ? हेमनलिनीकी दोनों आँखें गाढ़ीके बाहर ही देखती रहीं । अभागा रमेश इसके बाद क्या कहे, उसकी कुछ समझमें न आया थोड़ी ढेर बाद उसने पूछा—“योगेन्द्रको क्या खबर है ?” अन्नदा वावूने कहा—“वह कानूनी परीक्षामें फेल होकर पछांहकी तरफ हवा खाने गया है ।”

गाढ़ी अपनी जगह पहुँचनेके बाद, जाने-हुए घर और उसकी सजावट बगैरहने रमेशपर जादूकी लकड़ी-सी फेर दी । रमेशको छातीमें से एक लम्बी सौंस निकल आई ।

रमेश बगेर कुछ बोले चुपचाप बैठा चाय पोने लगा । अन्नदा वावू अचानक पूछ बैठे—“अबकी बार तुम घर बहुत दिन रहे, कोई काम था क्या ?”

रमेशने कहा—“वापूजोका देहान्त हो गया ।”

आजदा वावू—“ऐ, कहते क्या हो ? अचानक क्या हो गया ! कैसे क्या हुआ था ?”

नहीं।" इतना कहकर वह निगाह नीचो कर लेती और बुनाईके घर गिनकर सावधानीसे आगे बुनने लगती।

एक दिन सवेरे रमेशने अपने पढ़ने-लिखनेके कमरेमें जाकर देखा कि उसकी टेबिलपर कालो मखमलका-बना एक नया ब्लाटिंगपैड रखा हुआ है, जिसके एक कोनेपर रेशमों ढोरोंसे फूल-पत्तीका काम किया हुआ है, दूसरे कोनेपर 'R' अक्षर बना-हुआ है, तीसरे कोनेपर सुनहरी जरीसे एक कमल बनाया गया है और चौथा कोना यों ही छोड़ दिया गया है। इसका इतिहास और मतलब समझनेमें रमेशको पल-भरकी भी देर न लगी। उसका मन नाच उठा। सिलाईका काम तुच्छ नहीं है, यह बात विना किसी बहसके उसने मान ली। उस ब्लाटिंगपैडको छातोसे लगाकर वह अक्षयके आगे भी 'अपनी हार मान लेनेको तैयार हो गया। उस ब्लाटिंगपैडपर उसी वक्त एक चिट्ठीका कागज रखकर उसने लिखा—“मैं अगर कवि होता तो कविता करके इसी वक्त इसका बदला चुकाता ; पर कुदरतकी उस देनसे मैं वनित हूँ। भगवानने मुझे देनेकी ताकत नहीं दी, पर लेनेकी ताक्त भी एक ताक्त है। विना उम्मीदके इस तोहफेको मैंने किस तरह अपनाया है, अन्तरजामोके सिवा इस बातको और कोई नहीं जान सकता। देन आखियोंसे दिखाऊं देती है, पर लेना दिलके भीतर छिपा रहता है। —तुम्हारा चिरक्षणो।”

यह लिखावट हेमनलिनीके हाय पढ़ गई, मगर इस बारेमें दोनोंमें फिर कोई बात नहीं हुई।

इतनेमें वरसातके दिन आ गये। वरसातका मौसम मामूली तौरसे शहरमें रहनेवालोंके लिए उतना आरामदे नहीं जितना कि गांव या जगलके लिए वह सुहावना होता है। शहरके मकान अपनी बन्द रिहाईयों और छतोंसे, राहगीर अपनी तनी हुई छतरियोंसे, ट्राम और मोटरगाड़ियों अपने परदासे वरसातछोरोंकेमें ही अपनी सारी ताकत लगा देती हैं। नदी-नाले, पहाड़ और जगल वरसातको बड़े आदरके साथ अपना हितू, मित्र समझकर बुलाते हैं। और वहीं वर्षाकी भजी धूमधाम होती है, वहीं भावनमें जमीन और आसमानका भजा चुश-मेल होता है।

पर नया प्रेम इस सामलेमें आदमीको पहाड़-जगलके बरावर बना देता है। लगातार मेह वरसनेसे 'अन्नदा' वावूका हाजमा बिगड़ गया, पर रमेश और हेमनलिनीकी खुशहाली और फुरतीमें कोई फरक नहीं आया। बादलोंको छाँह, उनका गरजना, वर्षाकी आवाज इन सबने मिलकर दोनोंके मनको बहुत हो नजदीक ला दिया है। वर्षाकी वजहसे रमेश अक्सर अदालत जानेसे रह जाता है। किसी-किसी दिन सबेरे इतनी जोरकी वर्षा होने लगती है कि हेमनलिनी घबराकर कहने लगती—“रमेश वावू, ऐसे मेहमें आप घर कैसे जायेंगे?” रमेश महज एक शर्मकी खातिर जवाब देता—“जरा-सा तो है ही, किसी तरह पहुँच हो जाऊँगा।” हेमनलिनी कहती—“क्यों भीगकर सरदी लगायेंगे? यहीं खा लीजिये न!” सरदीकी फिकर रमेशको जरा भी न थो, और, जरा-सेमे उसे सरदा लग जाती हो, ऐसी बात भी आज तक किसीके देखनेमें नहीं आई। किर भी जिस रोज मेह वरसता उस रोज रमेशको हेमनलिनीकी तीमारादारीमें ही रहना पड़ता। दो कदम चलकर घर जाना उसके लिए ‘अन्याय’ और ‘परहेज’की बात समझो जाती। किसी दिन जरा-से बादल दिखाई दिये कि चटसे हेमनलिनीके यहाँसे सबेरे खिचड़ीका और शामको पकौड़ी बगैरहका न्योता आ जाता। साफ देखनेमें आता कि अचानक सरदो लगनेके बारेमें इनलोगोंको जितनो ज्यादा दहशत लगी रहती है, उतनी हाजमाके बारेमें करते नहीं।

इसी तरह दिन कटने लगे। 'अपनेको भुला देनेवाले हृदयके इस आवेगका नतोजा क्या होगा, इस बारेमें रमेशने साफ-साफ कभी नहीं सोचा। मगर अन्नदा वावू सोचते थे, और, उनके समाजके और भी बहुतसे लोग इसकी चर्चा करते रहते थे। एक तो, रमेशमें जितना पाण्डित्य है, उतनी साधारण बुद्धि नहीं, उसपर उसकी मौजूदा हालत ऐसी सुरध-सो हो रही है कि उसके मारे उसको दुनियादारीको समझ विलकुल धुँधलो हो गई है। अन्नदा वावू रोज ही एक खाम उम्मीद लिये उसके मुँहको ओर देखा करते हैं, पर उसको तरफसे उन्हे कोई जवाब ही नहीं मिलता।

१०

है अक्षयका गला ऐसा कुछ अच्छा नहीं था , पर जब वह बेहला उठाकर ही गाना शुरू करता तब बहुत बड़े समझदारके सिवा मामूली भुननेवाले लोग कोई त ही आपत्ति नहीं करते , बल्कि और भी गानेके लिए अनुरोध करते । अबदा वावूको गाने-बजानेसे खास कोई दिलचस्पी नहीं थी , पर इस घातको वे मज़बूत हैं नहीं करते थे , किर भी वे अपना बचाव करते हुए कहते—“यही तुमलोगोंमें कौं दोष है । बेचारा गा सकता है , इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि उसपर जुल्म है किया ही जाय !”

सदै अक्षय विनयके साथ कहता—“नहीं नहीं , अबदा वावू , इसकी आप फिकरुओंन कीजिये , — जुल्म किसपर होता है , यहो विचारनेको चात है ।”

सुनी अनुरोधको तरफसे जवाब आता—“तो परोक्षा हो जाय !”

शक्ति उस दिन शामको घटाटोप बादल हो आये । रात पढ़ चुको , पर वर्षा सक्तेनहीं थमी । अक्षयको भी रुक जाना पड़ा । हेमनलिनीने कहा—“अक्षय वावू , आज एक गीत तो गा क्षोजिये ।”

प्रभो इतना कहकर हेमनलिनीने हारमोनियमसे सुर निकालना शुरू कर दिया ।

सदै अक्षयने बेहलेका सुर मिलाकर गुना शुरू किया—

जनी “पवन वहे पुरवइया , पीया विनु नीद न आये ।”

गानेके‘मानी अकसर साफ-साफ समझमें नहीं आते , और न इसको कोई देखा जस्तरत ही है कि हर लफजके मानी समझमें आने ही चाहिए । मनमें जब मानकि विरह-मिलनकी वेदना इकट्ठो हो रही हो तब जरा-सा इशारा ही उसके लिए दृश्य काफी है । इतना समझमें आया कि बादल भर रहे हैं , मोर बोल रहे हैं , धारा एकको दूसरेके बिना नीद नहीं आती , बगैरह बगैरह ।

शक्ति अक्षय भुर-ही-भुरमें छिग-हुआ दिलका दर्द जाहिर करनेको कोशिश कर रहा था , पर वह भुर काम आ रहा था किसी और ही दो जनोंके । रमेश और हेमनलिनीके हृदय उस स्वरलहरोके सहारे आपसमें एक दूसरेपर चोटपर चोट

मरते जा रहे थे । उनके लिए दुनियामें कोई भी चोज तुच्छ न रहा , सपाएका प्रबुद्ध हरा-भरा और खुशनुमा ही उठा । दुनियामें आज तक जितने आइमियोंने

जितना प्रेम किया है, सारा-का-सारा मानो दो हृदयोंमें बैटकर एक अजीव तरहके सुख-दुःखसे, एक विचित्र ढगकी घबराहट और चाहनासे काँपने लगा।

उस दिन बादलोंमें जैसे वीचमें सँघ नहीं थो, गानेका भी वही हाल हो गया। हेमनलिनी वार-वार आजिजीके साथ कहती गई—“अक्षय बाबू, रुक्ष्ये मत, एक और गाइये, एक और गाइये।”

उत्साह और उमगमें थाकर अक्षय बराबर गता ही चला गया। गानेवे स्वर एकके ऊपर एक इस कदर जमके बैठे कि जरा भी कहींसे बाहरका उजाल उसमें न धुस सकता था, औंधेरा-गुप हो गया, और ऐसा लगने लगा जैसे रह-रहकर उसमें विजली चमक उठती हो। वेदनातुर दो हृदय उसमें घिरे-हुए बन्द पड़े रहे, बाहरको दुनियाका उन्हे जरा भी होश-हवास न रहा।

बहुत रात बीते अक्षय घर चला गया। रमेशने विदा लेते बक्त गानेवे स्वरके भीतरसे चुपचाप हेमनलिनीके मुँहकी ओर एक वार देखा। हेमनलिनीने भी पल-भरके लिए उसकी ओर देखा, उसकी निगाहोंमें भी गानोकी छाया मौजूद थी।

रमेश घर चला गया। मेह थोड़ी डेरके लिए यम गया था, फिर जोरेंसे घरसने लगा। रमेशको उस दिन रात-भर नौद नहीं आई। हेमनलिनी भी बहुत देर तक चुपचाप बैठी-बैठी गहरे अँधेरेमें वर्षाकी झमझम आवाज सुनती रही। उसके कानोंमें वही एक ही धुन सुनाई दे रही थी—

“पवन वहे पुरवइया, पीया विनु नौद न आये।”

दूसरे दिन सुबह रमेशने एक गहरी साँस ली, और सोचने लगा, ‘मुझे अगर सिर्फ गाना गाना आ जाये तो उमके बढ़ले मैं अपनी सारी विद्या दे डालूँ।’

मगर, उसे इस बातका कन्हई भरोसा न था कि वह कभी भी गाना गा सकेगा। उसने तय किया कि वह बजाना सीखेगा। इसके पहले एक दिन अजदा बाबूके घरमें अकेलेमें उसने बेहला उठाकर उसपर छड़ी फेरी थी। उस छड़ीकी मिर्फ एक ही चोट खाकर समस्ती ऐसो चोख ठठीं कि उस दिनसे उसने बेहला बजानेका खयाल ही छोड़ दिया। आज वह छोटा-सा एक हारमोनियम खरीद लाया है। कमरेके अन्दर दरवाजा बन्द करके वह उसपर बड़ी होशियारीसे

उगलियाँ चला रहा है, और डतना समझ रहा है कि इस बाजेमें और चाहे जो भी हो, वरदाश्त करनेकी ताकत वेहलासे कहों ज्यादा है।

दूसरे दिन अन्नदा बाबूके घर पहुँचते ही हेमनलिनीने रमेशसे पूछा—  
‘कल आपके कमरेमेंसे हारमोनियमकी आवाज कैसे सुनाइ दे रही थी ?’

रमेशने सोचा था कि दरवाजा बन्द रहनेसे पकड़े जानेका कोई अन्देशा ही नहीं रह जाता, पर यह उसे नहीं मालूम कि ऐसे भी कान हैं जो बन्द कमरेमेंसे भी अपने कामकी सावर सुन लिया करते हैं। रमेशको जरा-कुछ शर्मिन्दा होकर कबूल करना पड़ा कि उसने एक हारमोनियम खरीदा है और वजाना सीख रहा है।

हेमनलिनीने कहा—“चारों तरफसे कमरा बन्द करके अपने-आप सीखनेको फजूल कोणिश कर्गों कर रहे हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप हमारे यहाँ कोणिश कीजिये, मुझसे जहाँ तक बनेगा, मैं आपको मदद करूँगी।”

रमेशने कहा—“लेकिन मैं तो विलकुल ही रगस्ट हूँ, मुझे सिखानेमें आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी।”

हेमनलिनीने कहा—“मैं जितना जानती हूँ, उससे रगरूटोंको ही किसी कदर मिखाया जा सकता है।”

कमशः यही सावित होने लगा कि रमेशने जो अपनेको रगस्ट कहा था, सो निर्क अदवके खग्रालसे ही नहीं, उसनें काफी सचाइ थी। ऐसा उस्ताद और उसको इतनी गरजके साथ मदद पाऊर भी रमेशके मगजमें सुरक्षा ज्ञान करते न थुम सका। तैरना नहीं जाननेवाला जैसे पानीमें पड़कर पागलकी तरह हाथ पर पीटता रहता है, ठीक उसी तरह रमेश सगीतके शुट्टों पानोमें उँगलियाँ पीटता रहा। उसकी कौन-सी डॅगली किम जगह जाकर पड़ती, कोई ठोक नहीं, कदम-कदमपर गलत सुर बज उठना, पर रमेशके क्षानोंपर उसका कोई असर नहीं। सुर और वेसुरके बीच किसी तरहमा पक्षपात बगेर किये वह मौजके नाय राग-रागिनियोंको लोधता चला जाता है। हेमनलिनी उसों ही कहती, ‘वह बया कर रहे हैं, गलत बजाया आपने।’ त्यों ही वह चढ़से दमरी भूल करके पढ़ली भूलको मिटाकर साक कर देता। गम्भीर-प्रश्नति

और परम उद्योगी रमेश हिम्मत हारनेवाला सख्त नहीं। सड़क कूटनेवाल स्टीम रोलर जैसे धोमी चालसे चलता ही रहता है, उसके नीचे क्या-क्या दबत पिसता रहता है इसकी उसे जरा भी परवाह नहीं रहती, ठीक उसी तरह रमेश अभागी स्वरलिपि और हारमोनियमकी रीडोंपर बरावर इधरसे उधर उँगलिय चलता रहा, रुका नहीं।

रमेशकी बेवकूफोपर हेमनलिनी हँसतो रहती। रमेश भी हँसनेमें उसक साथ देता। रमेशमें गलती करनेकी ऐसी जबरदस्त ताकत देखकर हेमनलिनीकं बहुत ही मजा आने लगा। किसीकी गलतीसे, बेसुरसे, और नाकाविलीयतरं मजे लेनेकी ताकत प्यारमें ही पाई जाती है। बच्चा चलना शुरू करत है तो बार-बार उसका गलत कदम उठता है, फिर भी उसीसे मा-बापका प्या उमड़-उमड़ उठता है। बाजा बजानेके बारेमें रमेश जो बार-बार अपन बेवकूफो जाहिर करता है, हेमनलिनोको उसीमें पूरा मजा आता है।

रमेश बोच-बीचमें कहता—“अच्छा, आप जो इतना हँस रही हैं, जब आप खुद सीखा करती थीं तब आपसे गलती नहीं होती थी ?”

हेमनलिनी कहती—“गलतो तो जहर होती थी, पर सच कहती हूँ रमेश बाबू, आपके साथ उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती !”

रमेश इससे जरा भी नहीं दबता, हँसकर फिर वह शुरूसे बजाना शुरू करता। अननदा बाबू सगीतकी द्विराई-भलाई कुछ भी न समझते थे, वे बीच बोचमें गम्भीर होकर कान लगाके सुनते और कहते—“हँ-हँ, रमेशका हाथ तो आहिस्ते-आहिस्ते खूब जमता जा रहा है।”

हेमनलिनी कहती—“हाथ बेसुरे रागमें जम रहा है।”

अननदा बाबू कहते—“नहीं नहीं, पहले जैसा सुनता था, अब उससे कहीं अच्छा सुन रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि रमेश अगर इसके पीछे लगा रहे, तो जहर सीख लेगा। शाने-बजानेमें और-कुछ नहीं, खूब रियाज करनेको जहरत है। एक बार सरगमकी जानकारी हो गई कि फिर सब आसान है।”

इन सब बातोंके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए चुपचाप सुन लेना ही अच्छा है।

१९

लगभग हर साल शरद-ऋतुमें, दुर्गापूजाकी छुट्टियोंमें जब वापसी-ठिकट  
चलता तब, अनन्दा बाबू हेमनलिनीको लेकर अपने घहनोईके यहाँ जवलपुर  
धूमने जाया करते हैं। अपने हाजमेकी तरक्कीके लिए उनकी यह सालगाना  
कोशिश थी।

भादोंका महीना आवा बीत चुका, अब पूजाकी छुट्टियोंमें ज्यादा देर नहीं।  
अनन्दा बाबू अभीसे ही अपने सफरकी तैयारियोंमें मशगूल हैं।

जल्द ही विछोह होनेकी सम्भावनामें रमेशने आजकल द्वारमोनियम  
सोखनेमें बहुत ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया है। एक दिन बात-चीतके  
सिलसिलेमें हेमनलिनी कह उठी—“रमेश बाबू, मेरे खयालसे कुछ दिनोंके  
लिए आप आव-हवा बदलने बाहर चले चलें तो अच्छा। — क्यों बापूजी ?”

अनन्दा बाबूने सोचा, बात तो ठोक है, क्योंकि इन दिनों रमेशपर जो  
दुख पड़े हैं उनको भूलनेके लिए यह अच्छा मौका है। उन्होंने कहा—“कमसे  
कम कुछ दिनोंके लिए बाहर कहीं धूम आना अच्छा है। समझे रमेश, पर्छाहक्की  
तरफ जाओ या देश, कहीं भी जाओ, कुछ दिनोंके लिए योद्धा-बहुत सुधार तो  
हो ही जाता है। शुरू-शुरुमें कुछ दिन भूख भी खूब बढ़ जाती है, खाना-पीना  
भी अच्छा होता है, उसके बाद फिर जँसाका तैसा। फिर वही, कभी पेट भारी  
है तो कभी छाती जलती है, जो खाओ वही—”

हेमनलिनी बीच ही में बोल उठी—“रमेश बाबू, आपने नर्मदाजा भरना  
देखा है ?”

रमेशने कहा—“नहीं, मैंने नहीं देखा।”

हेमनलिनी—“यह तो आपको देखना हो चाहिए। — क्यों बापूजी ?”

अनन्दा बाबू—“जहर जहर, तो फिर रमेश हमारे नाय ही क्यों नहीं चले  
चलते ? आव-हवा भी बदल आना और भरना-पहाड़ बगैरह भी देख आना।”

आव-हवा बदलना और भारना-पहाड़ देखना ये दोनों ही काम फिलहाल  
रमेशको जहरी मालम दिये; लिहाजा उसके राजी होनेमें देर न लगी।

उस दिन रमेशका तन और मन दोनों ही मानो हवामें उड़ने लगे। धपने

अशान्त हृदयके आवेगको बाहर निकलनेके लिए कोई-एक रास्ता छोड़ देनेके गरजसे वह अपने कमरेको चारों तरफसे बन्द करके हारमोनियम लेकर बैठ गया। आज उसे, सरगमका जो थोड़ा-बहुत होश रहता भी था वह भी न रहा, बाजेके ऊपर वह इस कदर बेरहमीके साथ उँगलियाँ दे मारने लगा जिताल-बेताल दोनों ही एकसाथ नाच उठे। हेमनलिनी दूर चली जायगी इस सोचमे कई दिनसे उसका मन भारी-सा हो रहा था, आज मारे खुशीके सगीत-विद्याके बारेमें उसका जा-वेजा सब तरहका होश-हवास विलकुल ही जाता रहा।

इतनेमें बाहरसे फिसोने दरवाजेपर धक्का देते हुए कहा—“ओफ्-हो, जरा ठहरिये भी तो, आज आप कर क्या रहे हैं, रमेश बाबू !”

रमेश बहुत ही शर्मिन्दा हुआ; और उठके दरवाजा खोल दिया। अक्षय कमरेके अन्दर दाखिल होकर बोला—“रमेश बाबू, कमरेको चारों तरफसे बन्द करके इस तरह छिपे-छिपे जो आप जुत्तम कर रहे हैं, इसके लिए आपके ‘फौजदारी कानून’में क्या कोई सजा नहीं लिखी ?”

रमेश हँसने लगा, बोला—“कसूर मजूर करता हूँ।”

अक्षयने कहा—“रमेश बाबू, आप अगर कुछ खायाल न करें, तो मुझे आपसे एक बात करना है ?”

रमेश उत्कण्ठित होकर अक्षयकी बात सुननेके लिए चुपचाप उसके मुँहकी तरफ देखता रहा।

अक्षय कहने लगा—“आप इतने दिनोंमें यह समझ गये होंगे कि हेमनलिनीकी भलाई-बुराईके बारेमें मैं पूरी दिलचस्पी रखता हूँ।”

रमेश ‘हाँ’ या ‘ना’ कुछ भी न कहकर चुपचाप सुनता रहा।

अक्षय कहता गया—“उनके बारेमें आपकी मनसा क्या है, यह पूछनेका मैं हक रखता हूँ, — अनन्दा बाबूके इष्ट-मित्रोंमेंसे मैं भी एक हूँ।”

बात और बात करनेका ढग रमेशको बहुत ही बेदूढ़ा मालूम हुआ, मगर कड़ा जगाव देना रमेशको आदतके खिलाफ है, और न उसमें इतनी हिम्मत ही है। उसने मुलायनिवतके साथ कहा—“उनके बारेमें मेरा कोई बुरा झारादा है, आपके दिलमें ऐसा शक बठनेका सबवध क्या हुआ, मैं पूछ सकता हूँ क्या ?”

अक्षय—“देखिये, आप हिन्दू-परिवारके हैं, आपके पिता हिन्दू थे, मुझे माल्हम है, कहो आप किसी ब्राह्मणमाजीके यहाँ शादी न कर बैठें इसी डरसे वे आपको देश ले गये थे, आपको शादी कर देनेके लिए।”

अक्षयको इसको पूरी खबर थी, और इसकी एक खास वजह भी थी, वह यह कि अक्षयने ही उनके मनमें इस तरहका शक पदा कर दिया था। रमेश कुछ देर तक आँख उठाकर अक्षयके मुँहकी ओर देख न सका।

अक्षय कहने लगा—“अचानक आपके पिताका देहान्त हो जानेसे आपने अपनेको क्या धिलकुन ही आजाद समझ लिया? उनकी मनसा क्या—”

रमेशसे अब सहा नहीं गया, उसने तुरत जवाब दिया—“देखिये, अक्षय बाबू, दूसरोंके बारेमें आपको अगर उपदेश या नसीहत देनेका हक ही तो आप दिये जाइये, मैं सुनता जाऊँगा, पर मेरे पिताके साथ मेरा जो ताल्लुक है उसके बारेमें आपको कोई बात मुझे नहीं सुनना है।”

अक्षय बोला—“अच्छा तो ठीक है, खैर, उम बातको छोड़िये। मगर हेमनलिनीके साथ शादी करनेका इरादा और हैसियत आपकी है या नहीं, यह आपको बताना ही पड़ेगा।”

रमेश चौटपर चौट खाकर बरावर उत्तेजित होता जा रहा था, अब वह बोला—“देखिये, अक्षय बाबू, आप अन्नदा बाबूके इष्ट-मित्र हो मकते हैं, पर मेरे साथ आपकी कोई घनिष्ठता नहीं। बराय मेहरबानी, आप उन सब बातोंको बन्द कीजिये।”

अक्षय—“मेरे बन्द कर देनेसे ही अगर सब बातें बन्द हो जायें और आप अभी जैसे नतोजेका कोई खयाल न करके बड़े आरामसे दिन काट रहे हैं वैसे ही बरावर काट सकें, तो कोई बात हो नहीं थी। मगर समाज आप जैसे अलमस्तोके लिए आरामको जगह नहीं है। माना कि आपलोग बहुत कैंचे दरलेके आदमों हैं, दुनियादाराकी बातोंपर इतना खयाल नहीं रखते, फिर भी कोशिश करें तो शायद इतनी-सी बात आपकी समझमें आ सकती है कि एक शरीफको लड़कीके साथ आप जैसा मल्क कर रहे हैं, उस तरह आप बाहरवालोंकी जगायदेहीसे अपनेको बचा नहीं सकते, और जिन लोगोंने आप हम्मत की-

श्रद्धा करते हैं उन्हे समाजकी नजरोंमें वेइज्जत करनेका यही तरीका है । आपने अलितयार कर रखा है ।”

रमेश—“आपकी इन नसीहत-भरी वातोंके लिए मैं एहसान मानता हूँ। आपकी वात मैं समझ गया । अब मेरा जो फर्ज है उसे मैं जल्दी तथ करने अदा करनेकी कोशिश करूँगा । इस मामलेमें अब आप कतई फिकर न करें, इस वारेमें अब कोई वात कहनेकी जरूरत नहीं ।”

अश्वय—“मुझे आपने जान बख्शी, रमेश बाबू ! इतने लम्बे अरसेके बाद भी जो लापने थपने कर्तव्यके बारेमें सोचने और पालन करनेकी वात कही, इससे मैं निश्चिन्त हो गया । आपके साय बहस करनेका मुझे शौक नहीं। आपकी सगीत-चर्चामें मैंने जो विध्न ढाला है उसके लिए मैं कसूरमन्द हूँ। माफ कीजियेगा । आप फिर शुरू कीजिये, मैं जाता हूँ ।”

इतना कहकर अश्वय तेजीके साय बाहर चला गया ।

इयके बाद तो फिर बेसुरा सगीत भी आगे नहीं बढ़ सकता था । रमेश अपने दोनों हाथोंपर सिर रराके विस्तरपर चित्त पढ़ रहा । इस तरह पढ़े-पढ़े काफी देर हो गई । अचानक घड़ीमें जब टन-टन करके पांच बज गये तभी वह भड़भड़ाकर उठ बैठा । क्या कर्तव्य तथ किया सो भगवान ही जानें, पर किलहाल पढ़ोसमें जाकर कई प्याले चाय पी आना चाहिए, अपने इस कर्तव्यमें उसे जरा भी दुविधा न रही ।

हेमनलिनी चौंककर बोली—“रमेश बाबू, आज क्या आपकी तबीयत कुछ दरराब है क्या ?”

रमेशने कहा—“नहीं तो, ऐसी तो कोई वात नहीं ।”

अनन्दा बाबूने कहा—“और कोई वात नहीं, हाजमेकी जहर कुछ-न-कुछ निकायत होगी, पित्त बढ़ गया होगा । मैं जो गोली लिया करता हूँ उसमें एक खा देन्हो—”

हेमनलिनी हँस दी, बोली—“बापूजी, गायद द्वी कोडे बचा हो जिसे तुम्हें अपनी गोली न खिलाई हो, पर इससे किसीको फायदा भी हुआ है ?”

अनन्दा बाबू—“नुकसान तो नहीं हुआ । मैंने नुद थाजमाकर देसा है ।

आज तक जितनी सीधावर्में बढ़वड़ाते हुए कुछ कहा जरूर, पर साफ सुनाई नहीं  
फायदेमन्द है।" बातपर अननदा बाबू उत्साहित होकर बोले—“सो तो  
हेमनलिनी—‘नि कह दिया था।”

कुछ दिनों तक उसकी ओरोंमें मुसकुराकर घोला—“तनदुरुस्तीकी तरफ ध्यान  
अननदा बाबू—‘वास आदमियोंके लिए बहुत ही तुच्छ व'त है; ये लोग  
अच्छा, अक्षयसे पूछ देखें, खाना हजम न होनेपर उसके लिए कोशिश करनेको  
इस प्रामाणिक गवाहाँड़े।”

वाह खुद बखुद आ धमका, जो गम्भीर रूपमें लिया, और विस्तारके साथ साचित  
वह गोली जरा निकाल दीजिये तेए भी खाना हजम होना बहुत जरूरी है।

कुछ हल्की-सी मालूम होती है भीतर-हो-भीतर जल-भुनकर खाक होने लगा।

अननदा बाबूने गर्वके साथ ध्, मेरी सलाह मानिये, अननदा बाबूकी एक  
प्रौढ़ शोली लाने भीतर-चले गये इये।”

के साथ मुझे कुछ जरूरी बात करना है,

गोली खिलानेके बाद अननदा बाबू

अक्षय भी जानेके लिए कोई स्टास जल्दी न ज्ञोला—“यह देखिये, पहले ही से  
पैद्हरेकी तरफ कनखियोंसे देखने लगा। ऐसी-ऐसीपटमें रखे रहते हैं, आखिरमें  
रखाल नहीं जाता और न उसकी नजर ही पड़ती है, तो तज उसका नजर पड़ा  
और अक्षयका इस तरह उसकी तरफ देखना उसे खल गया। इससे उसके  
मेजाजमें कुछ गरमाहट-सो भा गई, मगर वह खामोश रहा।

हेमनलिनीका मिजाज आज यों खुश था कि बाहर जानेके दिन करीब आते  
गे रहे हैं; और मन-हो-मन उसकी कल्पना कर-करके वह आज पूलों नहीं  
मार ही। उसने तय कर रखा था कि आज रमेश बाबू आयेंगे तो छुट्टियाँ  
त्से बिताई जायें इस विषयमें उनसे तरह-तरहको मलाहे होंगी। वहाँ एकान्तमें  
दीन-कौनसी कितावें पढ़के खत्म करनी हैं, दोनों मिलज़र उसकी एक फेदरिस्त  
नाना चाहते थे। इसके लिए पहलेसे यह तय हो चुका था कि रमेश आज  
नरा जल्दी आ जायगा, क्योंकि चायके बत्तपर अक्षय या थौंर कोई-न-कोई  
नहीं हो जाता है, तब किर उन्हे बात करनेका भौमा नहीं भिजता।

अद्वा ६  
आपने ८  
से  
आपकी  
अदा कर  
इस वारे  
अ—  
भी जो  
इससे मैं  
आपकी  
माफ की

इत  
इस  
अपने दो  
काफी देर  
वह भड़म  
फिलहाल  
उन्हें —

खर

गिर  
एक

अपन

इसके बाद भी रमेशसे कुछ कहने नहीं है—  
अनन्दा थावू कहने गये—“ठंडे न, हृषीकेश,  
कितनी तरटकी बातें किया करते हैं। कहते हैं, ये सुनी हैं, अब उमके साथी चुनने के लिये चले गए।  
मैं टनमें कह देता हूँ, निराकरण है।  
प्रगिज धोजा नहीं दे सकता ।”

रमेश—“थावू याहव, मेरे शरीरमें हो इस चाल  
आए। अगर मुझे इस लायक युममत है, तो—”

अनन्दा थावू—“ठगमें क्या कहना ।— हमें है न  
किया है ; गिर्फ्ट तुम्हारे पिताजीजा ठंडत हो जाएँ तो  
मैं आगता,— ख़ेर, अब देर करना ठंड कहीं। सबके  
पासकी जारी नाल पढ़ी है, उसे जिद्दा जड़ी हो सकता  
पारेगा है ! तुम्हारी क्या गय है ?”

रमेश—“आप जौमी थाजा देंगे वैसा ही होगा। इसके  
पासकी लग्जकी की राय मालम होना जबरी है ।”

अनन्दा थावू—“मैं ठोक बात है। पर, उसकी ख़ेर  
मालम थी है। किसी भी कल सबरे उससे पक्की राय छूट देना

रमेश—“आपका सोनेका बक्क हो गया, अब मुझे—  
अनन्दा थावू—“जरा ठहरो। मेरा तो कहना है कि  
मैं आपकी अगर तुम लोगोंका च्याह हो जाता ; तो अच्छा है।

रमेश—“दिन तो बहुत थोड़े रह गये हैं ।”

अनन्दा थावू—“नहीं, अभी दस-बारह दिन है।  
भी अगर च्याह हो जाता है, तो उसके बाद ने दो-तीन दिनका बक्क मिल जाता है। समझे रमेश,

पर क्या कहूँ, अपने शरीरकी हालत देखते हूँ।

रमेश राजी हो गया ; और एक गोले

१३

कमलाके स्कूलकी भी छुट्टियाँ करीब आ गईं। रमेशने हेड-मिस्ट्रे से कहकर पहले से ही इस बातका इन्तजाम करा लिया था कि छुट्टियोंमें कमला बोडिंगमें ही रहेगी।

रमेश खूब तड़के उठकर किलेके मैदानमें घूमने चला गया, और घूमते हुए उसने तय कर लिया कि व्याहके बाद कमलाके बारेमें हेमनलिनीसे वह सब बातें कह देगा। उसके बाद कमलासे भी सब बातें कहनेका मौका आयेगा।

इस तरह गया तरफसे भक्त निवट जानेपर कमला भी खुले मनसे हेमनलिनीके साथ रहूँगी। देशमें इस बातको लेकर तरह तरहकी चर्चा उठ सकती है ऐसा ५ अब उसने हजारीबाग जाकर वहाँ प्रैविटस करनेका निश्चय किया।

उसने बापस आकर रमेश सीधा अजदा बाबूके घर पहुचा। सीढ़ीमें थाचानक दानलिनीसे उसकी भेट हो गई। और-और दिन इस तरह भेट होने

पर दोनोंमें कुछ-न-कुछ बातचीत जहर होती। पर आज हेमनलिनीका चेहरा सुर्य हो उठा, उस सुर्खीके भीतरसे हँसीकी एक आभा अरुणोदयकी ललाईकी तरह चमक उठी। हेमनलिनी मुँह फेरकर आँखें नोची करके तेजीसे चल दी।

रमेशने ऐसे गतको हेमनलिनीसे सीखा था, घर जाकर उसीको वह हारमोनियमपर सूचना जोरोंसे बजाने लगा। पर सिर्फ एक ही गत दिन भर बैठे बजाया जा सकता है। एक कविताकी किताब निकाली और उसे पढ़नेकी कोशिश न करने लगा। तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे प्रेमका स्वर बहुत ही ऊचा चढ़ गया है, और झोई भी कविता वहाँ तक पहुच नहीं पाती।

और, हेमनलिनी अथक आनन्दके साथ अपने घरका काम-काज पूरा करके निराली दोषहरामें अपने कमरेमें जाकर दरवाजा बद करके अपनी मिलाई टेकर बैठ गई। उसके चेहरेपर एक भरी-पूरी रुशी और शान्ति छा रही है; एक तरहकी सर्वाङ्गीण सार्थकता उसे धेरे हुए है।

चायके टैक्से पहले ही कविताको किताब और हारमोनियम ढोकर रमेश अजदा बाबूके घर पहुच गया। और-और दिन हेमनलिनीके साथ भेट होनेमें रथादा देर न होती थी। पर आज चायबाले बनरेमें जाकर उसने देखा कि

चहाँ कोई नहो है, सज्जाया है ; हेमनलिनी अभी तक अपने कमरेसे कर नीचे नहों आई ।

अन्नदा बाबू ठीक वक्षपर आकर अपनी कुरसोपर बैठ गये । रमेश रह कर बार-बार दरवाजेको तरफ देखने लगा ।

परोंकी आहट सुनाई दी, पर कमरेमें घुसा अक्षय । वह काफी मुलाम दिखाता हुआ रमेशसे बोला—“अच्छा, आप यहाँ हैं, मैं आपके घर गुनते ही रमेशके चेहरेपर उद्गगकी छाप पढ़ गई । ही हैं

अक्षयने हँसते हुए कहा—“डरनेकी क्या बात है रमेश वा सामला करने नहीं गया था । खुशखबरीपर बधाई देना इष्ट-पि सत्य ही का वही अदा करने गया था ।” भासवा सत्य

इस बातपर अन्नदा बाबूको खुयाल आ गया कि हेमनलिनीदानकी तरह आई । हेमनलिनीको उन्होंने ओवाज दी ; किन्तु कोई जवाब नहीं हेम देना ही खुद ही ऊपर पहुचे । उसके कमरेमें जाकर बोले—“हेम, यह क्या सिलाई लिये ही चैठी हो ! चाय तैयार हो गई । रमेश और असे पहले बैठे हैं ।”

हेमनलिनीके चेहरेपर जरा सुखी आ गई, उसने कहा—“कर्गेव-प्राण चाय ऊपर मिजवा दो । आज मैं इस सिलाईको खतम कर दें ।”

अन्नदा बाबूने कहा—“यही तो तुममें ऐव है हेम । दीजिये ।” पढ़ गई तो पढ़ ही गई, दूसरी बातोंका कुछ ख्याल ही नहो । पुर जले तो किनार हाथसे नहीं छूयतो, अब सिलाई लेकर बैठी हो तो बन्द कर दिया । ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो, नीचे चलकर ।

इन्ता कहकर अन्नदा बाबू लगभग जवरदस्ती ही उसे नीचे लेवार तप्तुंचकर उसने किसीको तरफ बिना देखे जल्दी-जल्दी चाय ढालना दीरीके लिए

अन्नदा बाबू अबीर होकर बोले—“हेम यह क्या कर रहीं करता प्यालेमें चीनी क्यों दे रही हो ? मैं तो कभी चीनी लेता नहीं ।”

अक्षय ओठों-ही-ओठोंमें मुसकाकर कहने लगा—“आज ददारता रोके नहीं रुक रही है ; एक तरफसे सभीको मीठा बाट

हेमनलिनीके साथ किया गया यह गूढ़ मजाक रमेशसे सहा न गया। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि और चाहे कुछ भी हो, व्याहके बाद अक्षयसे वह संतुष्टिमी तगड़का ताल्लुक न रखेगा।

इसके तीन-चार दिन बाद, एक दिन शामको चाय पीते हुए अक्षयने कह—“रमेश बाबू, आप अपना नाम बदल डालिये।”

उसने तय कर लिये अखबार खोलते हुए कहा—“यह देखिये, आपका ही कोई बातें कह अपनी तरफसे किसी दूसरेको परीक्षामें विठाकर पास हो गया था जो इस तरह गया है।”

सायर्स हेमनलिनी जानती है कि रमेशसे सुँहपर जवाब देते नहीं बनता, यही बजह ऐसा ५ अक्षयने आज तक रमेशको जितनी बार बातोंसे चोट पहुंचाई है, उसीने उसका जवाब दिया है। आज भी उससे न रहा गया। अपने छिपे हुए है अचानक दवाकर वह मुसकराती हुई बोली—“अक्षय नामके बहुतसे लोग शायद पर दोनोंमें सङ् रहे होंगे।”

सुर्ख हो उत्तरने कहा—“यह लीजिये, मित्रताके नाते अच्छी सलाह देता हूँ तो तरह चमक नाराज हो जाते हैं। तो फिर सारा इतिहास ही सुनाना पड़ेगा। आप

रमेशने ५, मेरी छोटी बहन शारदा कन्या-पाठशालामें पढ़ने जाती है। वह द्वारमोनियमपर खुफ्से आकर बोलो, ‘भाई साहब, आपके रमेश बाबूको घूँ हमारे बजाया जा सकता है।’ मैंने कहा, ‘चल हठ पगली, हमारे रमेश बाबूके सिवा क्या बचने लगा। तो दुनियामें नहीं है।’ उसने कहा, ‘भले ही हों, पर वे अपनी गया हैं, और ही भारी ज्यादती कर रहे हैं। छुट्टियोंमें सभी लड़कियां बाहर

और, हेत्तौर उन्होंने अपनी बहूको बोडिंगमें ही रखना तय किया है। वह निराली दोपहरांकर घर भरे दे रही है।’ मैंने उसी वक्त मन ही-मन कहा, यह धंधे धंधे गई। उ को बात है, शारदाने जैसी भूल की है वैसी भूल और भी तो कोई तरहकी सचित्र है।”

चायके १ बाबू ठहाका मारकर हँस पड़े, बोले—“अक्षय, तुम क्या पागलेंकी असदा बाबूके सा कर रहे हो? किस रमेशको बहू कहाँ किस बोडिंगमें बठी रो र्यादा देर के लिए रमेश क्यों नाम बदलने चला?”

इतनेमें अचानक रमेश अपना सफेद-फक्क मुँह लिये-हुए उठकर चल दिया अक्षय कहने लगा—“यह क्या रमेश वावू, आप नराज होकर चले जा रहे हैं ? देखिये भला, आप क्या यह खयाल कर रहे हैं कि आपपर मैं शक कर दूँ ?” यह कहता हुआ वह रमेशके पीछे-पीछे चल दिया ।

अजदा वावू बोले—“बात क्या है ?”

हेमनलिनी रो दी । अजदा वावू घवराहटके साथ बोले—“यह क्या वेर रोती क्यों हो है ?”

“वह सिसक-सिसककर रोने लगी, और रोते-रोते रुँबे-हुए गते बोली—“वापूजी, अक्षय वावूको यह बड़ी-भारी ज्यादती है । क्यों वे हम घर आकर किसी शरीफ आदमीका इस तरह अपमान करते हैं ?”

अजदा वावूने कहा—“अक्षयने मजाकमें एक बात कह दी है जो उसे ना कहनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इतने घवराने और नराज होनेकी क्या बात है ?

“ऐसा मजाक घरदास्तके बाहर है ।”—कहकर तेजीके साथ हेम उचली गई ।

अबकी बार कलकत्ता आनेके बाद रमेश वराभर कमलाके पतिका पता लगानेकी कोशिश कर रहा था । वही मुश्किलेंसे उसने पता लगाया छि धोबीपोखर कहाँ है, उसका डाकखाना और जिला क्या है ; और फिर कमलाके मामा तारिणोचरणको उसने चिट्ठी लिखी है ।

ऊपर कही हुई वारदातके दूसरे दिन रमेशको उस चिट्ठीका जवाब मिला । तारिणोचरणने लिखा है कि उम नाव-दुर्घटनाके बाद उनके दामाद नलिनाशकी कोई भी स्वधर नहीं मिली । रगपुरसे वे टाक्टरी करते थे ; वहाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाबमें यदी लिखा आया है कि वहाँ भी आज तक किसीको उनका पता नहीं चला । उनका खास देश कहाँ है सो उन्हें नहीं मालूम ।

कमलाके पति नलिनाश जिन्दा होंगे, यह उम्मीद आजकी चिट्ठीसे रमेशके मनसे छुल-पुढ़कर साक द्योग हो गई ।

इसके बाद और भी कई चिट्ठियाँ उसे मिलीं । व्याहरी स्वधर सुनकर उसके मिलनेवालोंमें से बहुतोंने उसे शुभकानाएँ भेजो हैं । किसीने भी उसे

करनेकी माँग पेश की है तो कोई डटके दावत चाहता है, और इतने दिनोंसे क्षेत्र रमेशने उनसे जो बात छिपा रखी थी उसके लिए उलाहने भी काफी आये हैं।

रमेश चिट्ठियां देख रहा था; इतनेमें अब्रदा बाबूके घरसे नौकर आया और उसके हाथमें एक बन्द लिफाफा दे गया। लिफाफेके ऊपरके दस्तखत देखते ही रमेशकी छाती धड़क उठी।

हेमनलिनीकी चिट्ठी है। रमेशने समझा कि अक्षयकी बातें सुनकर हेमनलिनीके मनमें शक पैदा हो गया है, और उसे रफा करनेके लिए उसने चिट्ठी लिखी है।

चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था—

"अक्षय बाबूने कल आपके साथ बहुत ही बुरा सल्लक किया है। मैं समझता हूँ कि आज सवेरे ही आप आयेंगे, सो क्यों नहीं आये? अद्य बाबूकी बातको आपने इतना मान क्यों दे दिया, उनकी बातका इतना खयाल कोई नहों करता। आप तो जानते हैं कि उनकी बातको मैं जरा भी परवाह नहीं करती। आज आप जरा जल्दी आइयेगा। सब काम छोड़कर मैं आपका इन्तजार करती रहूँगी।"

इन योद्धेसे शब्दोंमें हेमनलिनीके सान्त्वना-सुधार्पण कोमल हृदयकी वेदना महसूस करके रमेशकी आँखोंमें आँसू भर आये। रमेश समझ गया कि कलसे ही हेमनलिनी उसकी वेदनाको शान्त करनेके लिए बड़ी वेचैनीसे उसकी बाट देख रही है। इसी तरह उसकी रात बीती है और इसी तरह सुबह। अन्तमें जब उससे रहा नहीं गया तब यह चिट्ठी लिखकर भेजी है।

रमेश कलसे सोच रहा था कि अब टेर न करके हेमनलिनीसे सब बात साफ-साफ कह देना ठीक है। मगर कलकी बारदातके बाद उसके लिए वे सब बातें कहना जरा मुश्किल-सा हो गया। अब ऐसा मालूम होगा जैसे क्सर पकड़ा जानेके बाद सफाईकी कोशिश की जा रही हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्षयकी भी बहुत-कुछ जोत हो जायगी, यह भी उसे बरदाश्त नहीं।

रमेश सोचने लगा, अद्ययके मनमें जस्त द्वी ऐसी भारणा होगी कि कमलाका पति रमेश कोई दूसरा ही है। नहीं तो वह सिर्फ झगारा करके ही

खामोश न रह जाता, मुहल्ले-भरमें शोर मचा देता। लिहाजा, अभीसे जो भी कुछ बने, उपाय निकाल लेना ठीक होगा।

रमेश ये सब बातें सोच हो रहा था कि डाकसे एक और चिट्ठी आ पहुंची। रमेशने सोलकर देखी, कन्या-पाठशालाकी हेड-मिस्ट्रे सकी चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है, 'कमला बहुत ही घबरा रहो है, इस द्वालतमें छुट्टियोंमें उसे बोर्डिंगमें रखना उन्हें ठीक नहीं जचता। अगले शनिवारको आधे दिन खुलनेके बाद स्कूलकी छुट्टी हो जायगी, उस समय स्कूलसे उसे घर ले जानेका इन्तजाम करना बहुत जरूरी है।'

अगले शनिवारको स्कूलसे कमलाको ले आता पड़ेगा; और उसके दूसरे ही दिन रविवारको रमेशका व्याह है।

इतनेमें "रमेश बाबू, मुझे माफ कीजियेगा।"—कहता हुआ अक्षय कमरेके भीतर दाखिल हुआ; और बोला—"जरासे मजाकपर आप इतने नाराज हो जायेंगे, ऐसा मालूम होता तो मैं दूरगिज उस बातको न छेड़ता। मजाकमें थोड़ो बहुत सचाई होनेपर ही लोग नाराज हुआ करते हैं, पर जो बात यिलकुन द्वी वेबुनियाद है उसपर आप सबके सामने इतने नाराज क्यों हुए? अजदा चाबू तो कलसे मुझे डाट-फटकार रहे हैं; हेमनलिनीने मुझसे बोलना ही बन्द कर दिया है। आज सवेरे उनके यहाँ जाकर बेठा तो वे कमरा छोड़कर ही चल दो। मैंने ऐसा क्या कसूर किया है, बताइये भला?"

रमेशने कहा—"इन सब बातोंका फँसला पीछे होता रहेगा। इस बच्च मुझे माफ कोजिये, मुझे बहुत जरूरी काम करना है।"

अक्षय बोला—"रोशनचौकीवालोंको व्याना देने जा रहे हैं क्या? ठीक है चुक बहुत थोड़ा रह गया है। मैं आपके शुभ काममें विन्न नहीं डालना चाहता, जा रहा हूँ।"

अक्षयके चले जानेके बाद रमेश अजदा चाबूके घर पहुंचा। घरमें शुरू ही हेमनलिनीसे उसकी मुलाकात हो गई। यह जानकर कि आज रमेश जल्द आयेगा और जल्दी आयेगा, हेमनलिनी तंयार हुई बैठी थी। अपनी सिलाईका सामान उसने तद्दरके टेबिलपर रख दिया था। उसके पास ही हारमोनियम

पढ़ा था ; क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद आज गाना-बजाना भी हो सकता है। इसके सिवा, हृदयके तारोंका सगीत तो चलता हो रहता है।

रमेश ज्यों ही कमरेमें बुमा कि हेमनलिनीके चेहरेपर एक चमकदार कोमल आभा-सी दौड़ गई। पर वह आभा पल-भरमें न-जाने कहाँकी कहाँ बिला गई जब तक रमेश पहुँचनेके साथ ही और कोई बात न करके पहले ही यह पूछ दीठा—“अनश्वा बाबू कहाँ हैं ?”

हेमनलिनीने जवाब दिया—“बापूजो अपनी बेठकमें हैं। क्यों ? उनसे क्या इसी बक्त काम है ? वे तो ठीक चायके समय नीचे उतरेंगे।”

रमेशने कहा—“नहीं, मुझे बहुत जहरी काम है। अब देर करनेदेर काम न चलेगा।”

हेमनलिनी बोली—“तो जाइये, वे ऊपर बेठकमें बैठे होंगे।”

रमेश ऊपर चला गया। जहरी काम है। दुनियामें जहरतको ही सिर्फ देर बरदाशत नहीं होती। और प्रेमको, दरवाजेके बाहर खड़े-खड़े घाट देखनी पड़ती है।

शरद-श्रुतुके ऐसे सुन्दर साफ सुयरे दिनने मानो लम्हों सांस छोड़कर अपने आनन्द-भण्डारके सोनेके बने सिहद्वारको झटसे बन्द कर लिया। हेमनलिनीने हारमोनियमके पाससे कुरसी हटा लो और टेबिलके पास बैठकर तन्मयताके माध्य अपना सिलाईका काम शुरू कर दिया। सुई सिफ बाह रही चल रही हो सो बात नहीं, भोतर भी खूब चुभने लगी। रमेशका जहरी काम भी जल्दी पूरा नहीं हुआ। जहरत राजाको तरह अपना पूरा बक्त लेती है; और प्यार, प्यार तो कगाल है।

### १४

रमेश अनश्वा बाबूको बैठकमें पहुँचा। अनश्वा बाबू उस बक्त मुद्दपर अखबार रखे आरामकुरसीमें पड़े सो रहे थे। रमेशने जाकर जरा खटका किया कि वे चौंककर उठ बैठे; और अखबार उठाकर थोले—“देखा रमेश, अपनी धार शहरमें कितने आदमी मर रहे हैं ?”

रमेशने कहा—“व्याह अभी कुछ दिन बन्द रहना होगा; मुझे कहे खास काम करने हैं ?”

अन्नदा वावूके दिमागसे शहरको मौत-शुमारीको केहरिस्त विलकुल गायब हो गईं। पल-भर उन्होंने रमेशके चेहरेको ओर देखा, फिर बोले—“यह क्सी बात रमेश ! न्योता वगैरह दिया जा चुका है जो ?”

रमेशने कहा—“इस रविवारकी जगह अगला रविवार कर दीजिये, और आज ही चिट्ठी बटवा दीजिये।”

अन्नदा वावू—“भई, तुमने तो दग कर दिया। यह क्या मामला-मुकदमा है जो अपनो सहूलियतके माफिक आगे-पीछे कोई भी तारीख ढलवा ली थीं छुट्टी हुई ? तुम्हें काम क्या है, सो बताओ ?”

रमेश—“बहुत ज्यादा जस्ती है, उसमें देर करनेसे काम नहीं चलेगा।”

अन्नदा वावू, अधीमें पड़े केलेके पेड़को तरह, आरामकुरसीकी पीठभर पढ़ रहे, बोले—“देर करनेसे काम नहीं चलेगा। अच्छी बात है, बहुत ठीक है। अब जो तुम्हारी तबीयतमें आवे, करो। न्योता वारस ले आनेकी कार्रवाई जैसी तुम्हारी बुद्धिमें जाए, सो होने दो। लोग जब पूछेंगे तो कह दूँगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। रमेशको क्या जस्ती काम है सो वे ही जानें; और कव उन्हें कुरसत मिलेगी सो भी वही बता सकते हैं।”

रमेश कुछ जवाब न देकर नीची निगाह किये बैठा रहा।

अन्नदा वावूने कहा—“हेमको सब बातें कह दो हैं ?”

रमेश—“नहीं, अभी उनसे कुछ नहीं कहा।”

अन्नदा वावू—“उसके लिए इसका जानना जहरी है। तुम्हारा तो अकेलेका च्याह नहीं हो रहा।”

रमेश—“आपसे पहले कहकर पीछे उनसे कहनेका निश्चय किया था।”

अन्नदा वावू पुकार उठ—“हेम, हेम !”

हेमनलिनी ऊपर आ गई, शोली—“क्या है चापूजी ?”

अन्नदा वावूने कहा—“रमेश कह रहे हैं, उन्हें कोई खास जहरी काम है, इस बक उन्हें च्याह करनेको फुरसत न मिलेगी।” हेमनलिनीका चेहरा फक पढ़ गया, उसी हालतमें उसने एक चार रमेशके मुद्दकी तरफ देखा। रमेश अपराधीकी तरह चुपचाप बैठा रहा।

हेमनलिनीको यह खबर इस तरह दी जायगी, रमेशको ऐसी आशा हरिगिज न थी। हेमसे ऐसी अप्रिय बात अचानक इस तरह वेरहमीसे कह दी गई, इससे उसे कितनी गहरी भीतरो चोट पहुंची होगी इस बातको वह खुद अपने चयथित हृदयमे पूरी तरह अनुभव करने लगा। पर जो तीर एक बार छूट चुका है वह अब बापस नहीं आ सकता। रमेश मातो स्पष्ट देखने लगा, वह निर्दय तोक्षण तीर तेजीसे जाकर हेमनलिनीके हृदयके ठीक बीचो-बीच धुस गया, और चहों लटक रहा है।

अब बातको किसी भी तरह नरम कर लेनेका कोइं चारा नहीं। बात झूठी नहीं, व्याह तो स्थगित रखना ही पड़ेगा। रमेशको बहुत जर्ती काम है; क्या काम है सो वह नहीं कहना चाहता। इसपर और नई व्याख्या क्या हो सकती है?

अब बाबू हेमनलिनीको तरफ देखकर कहने लगे—“तुम्हीं लोगोंका काम है, अब तुम्हीं दोनों मिलकर जो-कुछ तय करना चाहो सो कर लो।”

हेमनलिनी नीचो निगाह किये हुए बोली—“बाबूजी, मैं इम घारेमें कुछ भी नहीं जानती।” और, आंखोंके बादलोंके पोछे सूर्यस्तकी म्लान आभा जैसे बिला जाती है, ठीक उसी तरह वह वर्हासे गायब हो गई।

अब बाबूने अखबार उठाकर उसे इस तरह अपने मुँहके आगे रख लिया, जैसे उसे वे ध्यानसे पढ़ रहे हों। रमेश सच दोकर बेठा रहा।

अचानक रमेशको होग आया और वह उठके चल दिया। उसने नीचेके बड़े कमरमें जाकर देखा कि हेमनलिनी खिड़कोंके पास चुपचाप खड़ो-खड़ी बाहरकी ओर देख रही है। उसकी नजरोंके सामने पूजाकी छुट्टियोंका कलकत्ता ज्वार शुदा नदीकी तरह अनो सारी गलो-कूचियोंमें लोगोंको बाढ़-सी लिये वहने लगा।

रमेश यकायक उसके पास जानेमें सकूचाने लगा। पीछेसे कुछ देर तक उकटकी लगाये उसे देखता रहा। शरद्दक्तुके शामके उजालेमें खिड़कीके पास खड़ी हुई उस धिर मूर्तिने रमेशके मनमें एक तसवीर-सी खींच दी। उसके कोमल गुलाबी गालोंके एक हिस्सेने, उसके जतनसे बैंधे हुए खूबेके सौन्दर्यने, उसको गरदनके दार पड़े हुए, पिल्लरे घालोंकी घदार और उन घालोंके भौतरसे

चमकते हुए सोनेके हारने, वाये कन्धेपर पढ़े हुए तिरछे आँचलने, सबोने एकसाथ मिलकर उसके पीड़ित चित्तमें ऐसी गहरी लकीरें खोच दी कि का सद्दा तिलमिला टठा ।

रमेश आहिस्ते-आहिस्ते हेमनलिनीके पास आकर खड़ा हो गया । हेम रमेशके बजाय राह-चलते लोगोंकी तरफ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी । रमेश रुँधे हुए कण्ठसे बोला—“आपसे मैं एक भीख चाहता हूँ ।”

रमेशकी आवाजमें घुमड़ती हुई वेदनाकी चोट महसूस करते ही तुम हेमनलिनीका मुँह रमेशकी तरफ घूम गया । रमेश कहने लगा—“तुम मुझकि किसी तरहका सन्देह न करो ।”—रमेशने आज यह पहले-पहल हेमसे ‘तुम कहा है ।—“यह बात तुम एक बार अपने मुहसे कह दो कि कभी भी तुम सुझार सन्देह नहीं करोगो । मैं भी भगवानको मनमें साक्षी रखकर कहता हूँ तुम्हारे साथ मैं कभी भी विश्वासघात नहीं करूँगा ।”

रमेशके मुँहसे आगे और कोई बात ही नहीं निकली, उसकी आँखोंमें आँसू भर आये । और तब हेमनलिनी अपनी प्यार-भरी आँखें उठाकर रमेशने मुँहकी ओर एकटक देखने लगी । उसके बाद अचानक उसके दोनों गालोंमें असुअओंकी धारा बह चली । देखते-देखते उस खिड़कीके पास, उस निराले करनेमें, दोनोंके बीच एक तरहकी मौन शान्ति और सान्त्वनाका स्वर्ग-सा तैयार हो गया ।

कुछ देर तक रमेशका हृदय-मन असुअओंकी बाढ़में टूटकर उस गहरे मौनमें अन्दर गोता खाता रहा, और फिर आरामकी एक लम्बी सांस लेकर वह बोला—“क्यों मैं एक हफ्तेके लिए शादी रुक्खवाना चाहता हूँ, इसकी बजह तुम जान चाहती हो क्या ?”

हेमनलिनीने गरदन हिला दी, वह नहीं जानना चाहती ।

रमेशने कहा—“च्याहके बाद मैं सब बतौं रुलाया कह दूँगा ।”

इस धानको सुनकर हेमनलिनीके गालोंके पास जरा दुछ मुर्दी-सी आ गई ।

आज खाने-पीनेके बाद हेमनलिनी जष रमेशसे मिलनेको आशाएं बड़ी दमनके दाय अपना साज-सिंगार कर रही थी, तब वह रमेशसे छहुतसे भजाक

त्रू, मेरे अन्दर वहुतसे ऐब हैं, मैं अच्छे लड़कोंसे जलता हूँ, शरीफ रानेकी लड़कियोंको फिलॉसॉफी पढ़नेके लायक काविलियत भी मुझमें नहीं, और न उनके साथ काव्य-अलंकार और रसोकी चर्चा करनेकी हिमाकत तो रखता हूँ, मैं मामूली लोगोंमेंसे ही एक हूँ. मगर फिर भी मैं आप लोगोंका अपना आदमी हूँ, आप लोगोंकी भलाई चाहता हूँ। रमेश बाबूके साथ और किसी भी विषयमें मेरा मुकाबिला नहीं हो सकता, पर सिर्फ एक निका गहर मुझे जहर है, वह यह कि आज तक कोई भी बात भैने आप लोगोंसे छिपाई नहीं, और न कभी छिपाऊँगा। आपलोगोंके सामने मैं अपना आरा भेद खोलकर दीन-हीन बनकर भीख मॉग सकता हूँ, पर सेव काटकर गोरी करना मेरी आदतके खिलाफ है। डस बातके मानी आपलोग कल ही मझ जायेगे।”

### १६

चिट्ठियाँ पहुँचाते-करते रात हो गई। रमेश विस्तरपर जाफ़र पड़ रहा, दिन नहीं आई। उसके मनके अन्दर गगा-जमुनाकी तरह नफेद-स्याह दोनों रहस्य विचार-धारा वह रही थी। दोनोंकी लहरोंने एकसाथ मिलकर उसके आरामके वक्तको अग्रान्त बना दिया, उसकी नींठ छुड़ा दी। दो-चार घार-उधर करक्ट बदलनेके बाद वह उठके थैंठ गया। जगलेके पास जाफ़र इड़ा हुआ, तो देखा कि उसके मरानके सामनेवाली सुनसान गलीके एक रफ मकानोंकी छोह है और दूसरी तरफ चोटकी सफेद चॉटनी।

रमेश चुपचाप खड़ा-खड़ा देरता रहा। उसका मारा अन्त करण और मूर्झ अन्त-प्रकृति विगलित होकर जो नित्य और अविनाशी है, जो गान्त जो विश्वव्यापी है, जिसमें किसी तरहका द्वन्द्व विरोध या दुविधा नहीं है, सीमें व्याप हो गई। जिस नीमाहीन शब्दर्हीन महालोकके नेपथ्यमें जन्म तैर मृत्यु, काम और आराम, आरम्भ और अवसान शुरूने ही जिसी अनसुने गीतके अपूर्व ताल-मुरमें नाचते-गाते हुनियाँ ही रंगभासमें आ-जा रहे हैं जहाँ। उजाला है न उंधेरा, ऐसे टेगके नरनारीके हुगल प्रेमरो रमेशने इन को-इराय और दीपालोकसे आन्ध्रवित ससारमें उत्तरते हुए कहा। तब धीर-धीर

वह छनपर चला गया। उसने अकेला बाबूके मङ्गानकी तरफ देखा। यिन्होंना सज्जाया है। मङ्गानकी दीवारोपर, कानिंसके नीचे खिड़की और दस्तब्जें सेंधोंमें, दूर-कृष्णकी जगह निकली हुई डैडोपर सब जगह चोदनी और छापाए अजीव ढगका भगम हो रहा है, दोनोंका अक्स अलग-अलग और मां दिखाई देता है।

कैसा आश्र्य है! इतने बड़े अहरमें जहाँ लारों आदमियोंका वाग़ उस मामूलीसे कमरेके अन्दर एक मानवीके वेशमें यह कैसा आश्र्य है! राजधानीमें कितने विद्यार्थी, कितने बर्फील, कितने परटेझी और कितने दर्दी वागिन्दा रहते हैं, उनमें रमेश जैसे एक मामूली आदमीने न-जाने रहागे आप शरद्वक्तुकी मफेद-पीली धूपमें उम सिडकी पास रही एक लड़कीको चुपच सही ढेवकर अपने जीवन और ससारको एक असीम आनन्दमग रहस्यके दर्वज़हता हुआ देखा, यह कैसा आश्र्य है! हृदयके अन्दर आज यह का आधर्य है, हृदयके बाहर आज यह कैसा आधर्य है!

बहुत रात तक रमेश उत्तर ही उत्तरलता रहा। चुपकेसे क्या किस चाँदका बह दुरङ्गा मामनेके मङ्गानके पीछे दिय गया, उस पता ही न जर्मीनपर रातकी कालिमा और भी धनी हो उठी, और आकाश तब तक होते हुए उजालेके आर्लिंगनमें पीला पड़ गया। मेशका यका हुआ ब जात्रेमें मिहर उद्या। यकायक एक आशका उठी और रह-रहकर वह उन हृदयको मनोनने लगी। उसे रमाल ही आया, जीवनके युद्ध-क्षेत्रमें किसी उसे लहर्दिके लिए निरलना है। अर्मीके उम आकाशमें फिरन-चिन्न निय तर नहीं, उम चाँदनीमें कोयिशकी कोई उथल-पुथल नहीं, गत विलकुल घान्न और नामोश है, और विश्वप्रहृति आकाशके उन अंत तामोंसी दुनियामें भरने वाल काजरे बीच वह आगमने नहीं है; किं आदमियोंका आना-जाना और ज़्यजना-उलझना बन्द नहीं है और न उमका अन्त ही दीन पड़ता है। मुग-दुम और वाधा-पिंडोंग भाग़ चमाज तरगित ही उठा है। नाना दुधिन्दाओंसे बीच भी रमेशके रहन-रहकर एह ही रमाल उठ रात गोता वि एह कग्फ आनादि-अनन्द

हमें जा कायम रहनेवाली ज्ञानित है और दूसरी तरफ दुनियाका यह रोजमर्रका ज्ञाना, दोनों एक ही समयमें एकसाथ कैसे रह सकते हैं ? कुछ देर पहले हमें विश्वलोकके अन्त पुरमें प्रेमकी एक आश्वत और अम्पूर्ण शान्तमृति देख रहा था, कुछ ही देर बाद उसी प्रेमको वह ससारके सर्वर्षसे, दुनियाके द्वन्द्वसे, जीवनकी जटिलताओंसे, जिन्दगीकी उलझनोंसे कदम-कदमपर खण्डित क्षुब्ध और खेद-खिल होते देखने लगा ! इनमेंमें कौनसा सत्य-रूप है और कौनसी माया, कौन कह सकता है ।

### १७

दूसरे दिन सुबहकी गाड़ीसे योगेन्द्र कलकत्ता आ पहुँचा । आज अनिवार है । कल रविवारको हेमनलिनीका व्याह होनेवाला है । पर, योगेन्द्रने आकर देखा कि उनके मकानके आगे ऐसा कोई भी चिह्न नहीं जिसमें समझा जाय कि उसके घरमें व्याह है । योगेन्द्र मन-ही-मन भीचता आ रहा था कि उसके मकानके आगे देवदार या आमके पत्तोंकी बन्दनवार लटक रही होगी । पर पास आकर देखा तो आमपासके मकानोंके मकाविले उम्में कोई फरक नहीं, न तो पुताई हुई है और न कोई सजावट ही है ।

उसे सन्देह हुआ कि कहीं कोई वीमार तो नहीं पड़ गया, जिसमें व्याह रुक गया हो । भीतर जाकर दंरसा फि चायकी टेविलपर उसके लिए खाना चर्गारह तैयार रखा है, और उसके वापूजी अव-पीया चायका प्याला सामने दरखस्तके असवार पढ़ रहे हैं ।

योगेन्द्रने घरमें घुसते ही सवाल किया—“हेम अच्छी तरह है ?”

आजदा वावूने कहा—“हाँ ।”

योगेन्द्र—“व्याहका क्या हुआ ?”

आनन्दा वावू—“अगले रविवारको होगा ।”

योगेन्द्र—“क्यो ?”

आनन्दा वावू—“क्यों, नो अपने मित्रमें पूछे । हमें हमने तो ; रिक्ष इतना ही कहा है कि उसे बहुत जहरी जाम है नो व्याह इन इतवारको हमें होमर अगले इतवारको होगा ।”

योगेन्द्र अपने असमर्थ पितापर मन ही मन नाखुश होकर बोला—“बापूजी, मैं नहीं रहता हूँ तो तुम हर काममें गलतियाँ कर ही बैठते हो। रमेशको ऐसा कौनसा जन्मी काम हो सकता है ? वह आजाद है। गान्धी या रिटेदारोंमें नामको कोई होगा तो होगा, नहीं तो आप अकेले ही हैं। अगर कोई जायदादका खगड़ा खड़ा हो गया हो, तो गुलासा कहनेमें दो हर्ज नहीं था। रमेशको बातपर तुम इतनी जल्दी राजी कैमें हो गये ?”

अबदा बाबू—“अच्छा तो ठीक है, अभी तो वह कहीं भाग नहीं गा है। तुम्हीं उसमें पूछ देखना ।”

योगेन्द्र उसी बक्से गरमागरम चायका एक प्याला जल्दीमें रातम फूँ बाहर चल दिया।

अबदा बाबू कह उठे—“अरे तुम जा कहाँ रहे हो, इतनी जल्दी क्य है ? पहले रानी तो लो ।”

पिताके घट्ट उसके कानों तक पर्दुच भी न पाये कि वह चलता बना रमेशको घर जाकर जोरकी आवाज करता हुआ वह मीढ़ी चढ़ने लगा; औ वहीसे ओर भनाना शुरू कर दिया—‘रमेश, रमेश !’

पर रमेश वहाँ ही तो चौले। नव कमरे देखा गया; नीचे देखा, ऊ देखा, छन देखा, वरण्ण देखा; करी भी रमेशका पता नहीं। काँ झावाजे देनेके बाद नीकरके दर्जन हुए, उससे पूछा—“बाबू कहाँ है ?”

उन्हें कहा—“बाबू तो गृह तहके उठके बाहर चले गये हैं।”

योगेन्द्र—‘क्य आर्यों ?’

वेहारने समझानेकी सोचिगद्दी कि बाबू अपने फुठ कपड़े-उत्ते भी न लेते गये हे, और स्त गये हैं कि लौटनेमें चार-पाँच दिन लग गये हैं रहने गये हैं, गो उने नहीं मालम।

योगेन्द्र अपने घर नींद आया; और बहुत ही गम्भीर होकर चायर टेबिले पर नामनं बैठ गया।

प्रस्तु बाबुने पूछा—“क्या हुआ ?”

योगेन्द्र मुस्काहर थोका—“दोगा चाय, किसके गाय आंखें बाद न

लड़की की शादी होवेवाली है, उसे क्या जहरी काम आ पड़ा, वह कब कहर्ते रहता है, उसकी खोज-खबर तो कुछ स्वतंत्र नहीं। कोई दूर नहीं, बगलके मकानमें वह रहता है।'

अबदा वाबूने कहा—“क्यों, कल रातको रमेश घर ही पर था ॥”

योगेन्द्र उत्तेजित हो उठा, बोला—“तुम लोगोंको इतना भा मालूम नहीं कि वह कहाँ जानेवाला है, उसके नौकरको भी नहीं मालूम कि वाबू कहाँ गये हैं। यह कैसा प्राइवेट मामला है, कुछ समझमें नहीं आता। मुझे तो इसमें कुछ भलाई नहीं मालूम होती। वाबूजी, तुम ऐसे निश्चिन्त हैं हो, कुछ समझमें नहीं आता ॥”

अबदा वाबू लड़केकी इस फटकारसे अपनेको जरा-कुछ गमभीर और चिन्ताप्रस्त बनानेकी कोशिश करते हुए बोले—“वताओ भला, यह सब क्या हो रहा है ॥”

खब्त-मिजाज और दुनियादरीमें नावाकिफ रमेश कल रातको अबदा वाबूसे आसानीसे ड्जाजत लेकर जा सकता था पर इसका उसे खयाल तक न आया। रमेशको शायड यही धारणा होगी कि ‘खाग जहरी कम है’ फहकर ही उसने अपने मनकी सारी चात जाहिर कर दी है। बस, वही एक चात कहकर मानो वह सब तरहसे उड़ी पा गया और इस तरह अपने होनेवाले रिश्तेदारोंके प्रति अपना कर्तव्य पालन करके अपने काममें जुट गया हो।

योगेन्द्रने कहा—“हेमनलिनी रहाँ न ॥”

अबदा वाबू—“वह आज सुबह चाय पीने नीचे आई थी, नदीमें उपर ही बैठी है ॥”

योगेन्द्र—“रमेशके इस तरहके बरतावमें शायड वह चरनिन्दा हो रही होगी, इनलिए वह मुझसे सामना हो जानेके उरमें छिपी-छिपी फिल्हाली है ॥”

शरमाई हुई और व्यथित हेमनलिनीको धीरज बधान्से लिए योगेन्द्र ऊपर पहुँचा। हेमनलिनी ऊपरके घोड़े कमरेमें उपचाप असंगी बैठी थी। योगेन्द्रके पैरोंकी आहट सुनते ही वह जल्दीमें एक किनाब उठाकर पैरों पैठ

गई। और, नोगेन्द्रके कमरमें कदम रखते ही किताब रखे रठ सर्द हुड़े; और हमनी हुई बोली—“अच्छा, भाई साहब आ गये, रुब आये। तबीयत तो तुम्हारी अच्छी नहीं मालूम होती, भाई साहब !”

योगेन्द्र चौकीपर बैठ गया बोला—“अच्छी मालूम होती कहाँसे ! मैं सब बातें सुन चुका हूँ हेम ! पर उस सामलेमें तुम झोड़ चिन्ता मत करो। मैं नहीं या उसीसे उन तरहकी गडवड़ी हुर्ड़ है। मैं सब ठीक करे देता हूँ। अच्छा हेम, सेशने तुम्हें झोड़ कारण बताया है व्याहका दिन आये बढ़ानेका ?”

हेम उलझनमें पड़ गई। रमेशके सम्बन्धमें इस तरहकी शकशुम बातचीत उसे नापार मालूम होने लगी। रमेशने उसे व्याहका दिन आये बढ़ानेका झोड़ कारण नहीं बताया था, बात नोगेन्द्रसे वह सदृशा नहीं चाहती लेकिन यह बोलना भी उसके लिए यम्भव नहीं। उसने कहा—“मुझे बारण बतानेको तैयार थे, पर मैंने सुनना बहरी नहीं समझा !”

योगेन्द्रने गमजा है यह बहुत ज्यादा स्वाभिमानकी बात है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। वह बोला—“अच्छा, तुम दरो मत, मैं आज ती काम मालूम किये लेता हूँ।”

हेमन्तिनी सिताब उदासर बेमतलय उसके पक्षे उलटती हुई बोली—“भाई नाहव, मुझे किसी जानका उर नहीं। कारण जानेके लिए तुम उसे परेगान करो, यह भी मैं नहीं चाहती !”

योगेन्द्रने नोचा, यह भी अभिमानकी बात है। उसने बता—“अच्छा, उसकी तुम किसर मत करो।” कहार उसी बक्स जानेके लिए तैयार हो गया।

हेमन्तिनी उसी बक्स उठ नहीं हुई और बोली—“नहीं, भाई बाहर दूर बातहों लेगा, तुम उसमें यहसु तरने नहीं जा सकोगे। तुमलोग इन्हें जाना भी नमज़ों, मैं उनपर जरा भी नन्देह नहीं परती !”

तब नोगेन्द्र नोगेन्द्र नदाल आना दि यह तो अभिमानकी-भी कहनी मारम रोनी। दिर यह स्लेट-मिल रुमसे मनकी-मन हॉस्टेस लगा, जोक्से लगा, उन लोगोंमें दुनियादारीही गमज़ मिलहूँ दै ही नहीं।

इतनी शिक्षा भी आई और दुनियाकी बातोंसे भी काफी वाकिफियत है, पर इतना ज्ञान किसीको नहीं कि कहाँ कब अब करना चाहिए।

हेमनलिनीके इस तरह नि गंक होकर पूरा भरोसा करनेके माथ रमेशके छिपानेकी भावनाका मिलान करके योगेन्द्र भन-ही-भन रमेशपर नाराज हो उठा। और, कारण मालूम करेनकी जिद उसकी और बढ़ गई। योगेन्द्र फिर जानेको तैयार हुआ तो हेमने पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिये, और बोली—“भाई साहब, तुम सौगंद खा जाओ कि उनके सामने इन सब बातोंका जिकर तक न करोगे।”

योगेन्द्रने कहा—“खैर, देखा जायगा।”

हेमनलिनी—“नहीं भाई साहब, देखा नहीं जायगा। सुझे बचन दे जाओ। तुमलोगोंसे मैं ठीक कहती हूँ, तुमलोगोंको इस मामलेमें कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मेरी बात मान जाओ, उन्हें मत छेड़ो।”

हेमनलिनीकी इस घटाको देखकर योगेन्द्रने नोचा, तब तो रमेशने लहर डगसे सब बातें कही हैं। पर हेमको तो फालतू बात कहकर भाँसा देना कोई मुश्किल काम नहीं। उसने कहा—“देखो हम, यह करनेकी बात मैं नहीं कह रहा। लड़कीबालोंका जो फर्ज है उसे तो हमें अदा करना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो समझौता हुआ हो तो उनकी तुम जानो। पर उतना ही हमारे लिए काफी नहीं; हमारे साथ भी उन्हें बातचीत करके तय करना चाहिए या। सच तो यह है हेम, कि इस बज्जे तुम्हारी बनिस्वत हमलोगोंसे उनकी बातचीत होना ज्यादा जस्ती है। ब्याहके बाद फिर हमारे लिए उनमें ज्यादा रहने-सुननेकी जहरत ही नहीं रहेगी।” इतना कहकर योगेन्द्र जल्दीसे चला गया।

प्यार जिस ओटको हूँडता है, वह अब नहीं नहीं। हेमनलिनी और रमेशमा अपमन्त्र जो ताल्लुक आहिस्ते-आहिस्त बहुत ज्यादा गहरा होकर दोनोंको सिर्फ उन्हीं दोनोंका बना देगा, आज उसीपर बाटूके लोगोंना नन्देह बड़ी बेरहमीके साथ चोट करने लगा। चारों तरफनी उननव चर्चाओंमें हेमनलिनीसे बड़ी चोट पहुँची है। उसके दृश्यमें उनकी झाँपी नेटना है।

और यही वजह है कि अपने घरवालों या किसी रिश्तेदारसे मिलनेको उसका जी नहीं चाह रहा। योगेन्द्रके चले जानेपर हेमनलिनी चुपचाप चौकीपर बैठी रही।

योगेन्द्र नीचे उतरा ही था कि अक्षय आ पहुँचा, बोला—“अच्छा, आ गये योगेन्द्र! सब बात सुन ली? अब तुम्हें क्या जचता है?”

योगेन्द्र—“जचता तो बहुत-कुछ है, पर जूँठे अन्दाजोपर वहस करनेसे फायदा क्या? अब चायकी टेविलपर बैठकर बारीकीके साथ मनोविज्ञानकी चर्चा करनेका वक्त नहीं रहा, समझे!”

अक्षय—“तुम तो जानते ही हो कि बारीकीके साथ बालकी खाल निकालना मेरी आदतमे शुभार नहीं, फिर वह मनोविज्ञान हो चाहे काव्य, या फिलॉसॉफी कुछ भी हो। मैं कामकी बात जानता हूँ, और वही तुमसे करनी है।”

अधीर होकर योगेन्द्र बोल उठा—“हाँ हाँ, कहो, कामकी बात ही कहो। अच्छा, तुम बता सकते हो, रमेश कहाँ गया है?”

अक्षय—“हाँ, बता सकता हूँ।”

योगेन्द्र—“कहाँ गया है?”

अक्षय—“अभी मैं तुम्हें यह नहीं बताऊँगा, आज तीन बजे मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करा दूँगा।”

योगेन्द्र—“बात क्या है, बताओगे भी कुछ? तुमलोग सभी एक तरहकी पहेली-से बन गये हो मालूम होता है। मुझे बाहर गये कुछ ही दिन हुए हैं, इस बीचमे यहाँकी दुनिया ही बदल-सी गई। रहस्य कुछ समझमें नहीं आ रहा। नहीं-नहीं, अक्षय, इस तरह दावा-दूवी ठीक नहीं मालूम होती।”

अक्षय—“कमसे कम इतना सुनकर मैं खुश हुआ। दावा-दूवी मैं नहीं कर सका, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुझसे सभी-कोई नाखुश हो गये। तुम्हारी बहनने तो मेरा मुँह देखना ही छोड़ दिया है। तुम्हांर बापूजी मुझे शक्की बताते हैं; और रमेश बाबू भी हमसे मिलते हैं तो कर्त्ता खुश नहीं होते। अब सिर्फ तुम ही बाकी हो। तुमसे मैं दरता हूँ। तुम्हें बारीकीके

साथ किसी बातपर ऊहोपोह करना पसन्द नहीं, और मैं ठहरा जग कमज़ेर स्वभावका, तुम्हारी चोट मुझसे सही नहीं जायगी।"

योगेन्द्र—“देखो अक्षय, तुम्हारी ये-सब पेचीली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम कोई खास बात कहना चाहते हो, इस तरह भूमिका वाँवकर उसकी कीमत बढ़ानेकी कोशिश तुम स्पूँ कर रहे हो? साफ-साफ कह डालो जो-कुछ कहना हो, आफत चुक्रे।”

अक्षय—“अच्छी बात है, तो शुरूसे ही कहता हूँ, तुम्हें वहनमी बातें मालूम नहीं।”

### १८

रमेश दरजीपाड़ाके जिस मकानमें था, उनके किरायेकी मियाद रातम नहीं हुई, उसे और किसीको किरायेपर उठानेने वारेमें रमेशको इधर फुरसत नहीं मिली। असलमें, वह इवर कई महीनोंमें दुनियादारीकी चहारदीवारीके बाहर रह रहा था, अपने नाफा-सुकमानकी बात उसके व्यानमें ही नहीं आई।

आज सवेरे ही वह उस मकानमें गया, और घर-द्वार सफा कराकर एक तख्तपर अपने विस्तर जमा दिये। खाने-पीनेमा इन्तजाम भी बही कर लिया था। आजसे स्कूलकी छुट्टियों शुरू होंगी, और आज ही कमलाको घर भगवा है।

स्कूल जानेमें अभी देर है। रमेश विस्तरपर चित्त पड़ा-हुआ आगेकी सोचने लगा। इत्रावा उसने कभी नहा देता पर उपरके दृश्य और आव-हवाकी कल्पना करना उसके लिए मुश्किल नहीं। वह सोचने लगा, शहरके एक फिनारे उसका मकान है, पेड़ोंकी जायासे ठड़ी सदृक उसके मकान और चीरीचेके सामनेसे निरुल गई है, मट्टरके उस पार चुला हुआ मैदान है, हरे-भरे खेत हैं, बीच-बीचमें कम्पे कुए हैं और ऐत ग्यानके भनान है, जिनमें धैठकर खेतिहर चिड़िया उड़ाया जाता है। खेतोंमें पानी पहुचानेके लिए कुओंपर पुर चल रहे हैं, औपट्रभर उनकी आवाज उनहीं देखी रहती है। बीच-बीचमें चड़ककी बूल आमनानमें उड़ाते हुए और अपनी गम्भरी आवाजसे जमीन-आमनको चेताने हुए दो-एक टड़े निकल जाने हैं। ऐसे

दूर परदेसमें गरमियोकी कड़ी धूपसे तपी हुई दोपहरी, वदनको जलानेवाली लृ और चारों तरफसे बन्द बंगलेमें दिन-भर उसके इन्तजारमें फडफड़ती हुई अकेली हेमनलिनीकी कल्पना करके भीतर-ही-भीतर उसका जी दुख पा रहा था, पर, उसके पास जब उसने सहेलीके रूपमें कमलाको देखा तब उसे कुछ-कुछ आराम-सा मालूम होने लगा।

रमेशने तय किया या कि अभी वह कमलासे कुछ भी न कहेगा। व्याहंक बाद हेमनलिनी ही उसे छातीसे लगाकर ठक मौकेसे टया और प्रेमके साथ आहिस्ते-आहिस्ते उसका पूरा किस्सा उसे कह सुनायेगी, और तब वह कमसे कम वेदना और कमसे कम बैचैना महसूस करती हुई अपने भेदको समझेगी, और उस दूर-परदेसमें अपने परिचित समाजके बाहर किसी तरहकी मानसिक चोट न पहुँचनेसे बड़ी आसानीसे उन लोगोंके साथ मिलकर तसल्लीसे अपनी जिन्दगी विता देगी।

ये बातें सोचते-सोचते दोपहर हो गया। उसकी गलीमे सन्नाटा है, जो आफिस जानेवाले थे वे चले गये, जो घरमें रहनेवाले थे वे खा-पीकर जरा आरा। ऊरनेकी तैयारीमें है। क्वारकी कम-गरम दोपहरी मधुर हो उठी; आनेवाली छुट्टियोकी खुशीने मानो अभीसे आसमानको खुशियालीकी बादर उढ़ा रखी है। रमेश अपने एकान्त कमरेमें पड़ा उनसान दुपहरियामें झूपने सुखके चित्रोपर तरह-तरहके रंग चढ़ाने लगा।

इतनेमें एक भारी गाड़ीकी आवाज सुनाई दी। और वह रमेशके मकानके आगे आ खड़ी हुई। रमेशने समझा, स्कूलकी गाड़ी कमलाको पहुँचने आई है। उसकी छाती बड़क उठी। कमलाको वह किस निगाहसे देखेगा, उसके साथ किस ढंगकी बातचीत करेगा, और कमला उसके साथ कैसा सलूक करेगी, अचानक इन चिन्ताओंने उसे चंचल कर दिया।

नीचे उसके दोनों नौकर मौजूद थे। उन दोनोंने मिलकर कमलाका सामान उतारा और ऊपर बरण्डेमें लाकर रख दिया, पीछे-पीछे कमला ऊपर आई और कमरेके दरवाजेके सामने तक आकर ठिठके खड़ी हो गई, भीतर नहीं घुसी।

रमेशने कहा—“आओ कमला, भीतर आओ।”

कमलाने पहले जरा संकोचका हमला महा, फिर भीतर दुमी। छुट्टियोंमें रमेशने उसे बोर्डिंगमें छोड़ रखना चाहा था, वह रो-पीटब्रर नहीं आई है, इस घटनामें और कई महीनेके बिल्लोहमें रमेशके साप जैसे उसकी कुछ अनवन मी हो गई हो। इसीलिए कमला कमरमें द्वितीय, रमेशके मुहकी ओर न देखके, जरा-कुछ गरदन टेढ़ी करके खुले हुए दरवाजेसे बाहरकी ओर देखती रही।

रमेश कमलाको देखत ही अचमें पड़ गया। मानो उसने उमे और एकबार नये स्तरमें देखा हो। इन कई महीनोंमें उसमें अजीब तरहका हंरफेर हो गया है। कम पत्तोबाली बेलकी नरह वह पहलेसे बहुत-कुछ बढ़ गई है। गौवर्ही-गाँवकी इस लड़कीके अवस्थित भावोंमें अच्छीमें अच्छी तनाहुरस्तीकी जो परिपुष्टता थी, वह कहाँ गई। उसका गोलमयोल सुन्दर चंद्रा सूखकर लग्ना हो गया है, यह एक विशेषता जस्ता है, पर उसके अंतर्वले और चिकने गालोंपर आज जो यह नाजुक पीलापन द्या गया है, वह तो अच्छी बात नहीं है। अब उसकी चाल-टाल और हाव-भावमें किमी तरहकी गुस्ती ही नहीं रही। अभी-अभी, कमरमें बुसते ही जब कि वह जग निर्छा मुह करके खिड़कीके सामने सीधी खड़ी हुई थी, उसके मुँहपर क्वारकी दोपहरीकी झूप आपड़ी थी, माथेपर साड़ीका पटा नहीं था, लाल फीतेसे वर्धी-हुई चोटी पिंठके पीछे लटक रही थी कम्पी रगड़ी सेरिनोर्सी नाड़ी उसके गिलनेको तैयार बदनको छोंग हुए थीं, तब रमेश उमड़ी तरफ कुछ देर तरु चुपचाप देखता रह गया था।

कमलाकी सुन्दरता उधर कई महीनोंमें रमेश<sup>पु</sup> मनमें धुधलीनी हो आई थी, आज उस सुन्दरताने नयेमें नया विकास पासर अचानक उमे नौका दिगा। मानो वह उसके लिए तैयार न था।

रमेशने कहा—“दैठो, कमला।”

कमला सामनेकी नौकीपर बैठ गई।

रमेशने कहा—“स्कूलमें तुम्हारी पजार-लिंगार्ड कैसी चल रही है।”

कमलानं वहुत ही मंथेपर्मं जवाव दिया—“अच्छी !”

रमेश गोचरे लगा, अब क्या बात करनी चाहिए । अचानक उसे ए बात आद आ गई, बोला—“आयद अभी तुमने अभी तक खाना दे खाया । खाना तैयार है ; यहीं मँगवा ले ?”

कमलाने कहा—“खाउँगी नहीं, मैं खाके आई हूँ।”

रमेशने कहा—“कुछ भी नहीं खाओगी ? शोषा-सा खालो, मिठाऊओ तो फल है, शरीफा, सेव, वेदाना—”

कमलाने मुहसे कुछ न कहकर गरदन हिला दी ।

रमेशने और एक बार कमलाके मुहकी ओर अच्छी तरह देख किया कमल तब जरा-सा सुट छुकाये अपनी पढ़नेकी अप्रेजी किताब खोलकर देख रही थी । उसके सुन्दर चेहरेने अपने चारों तरफ माने १५५ सौकों हेठलडी-सी फेरकर सम्पूर्ण सौन्दर्यको जगा दिया है । १५५ उचलने जाने वेष्ट अचानक खोये हुए प्राण मिल गये, क्वारके सुहाने क्वार, उसे और भी खिला दिया है । केद जैसे परिवर्ती हो गया, उन दीपहरी मधुसूखी आकाश हवा बदलने वाले हैं, क्षमरेमे पड़ा सुनसान दुपहरियामें प्रपत्ते ।

कारण क्या है ?"—कहकर वह उत्सुक दृष्टिसे रमेशके मुँहरी तरफ देखने लगा। रमेशने कहा—"उस कारणको ही अगर कह दूँ, तो फिर बात शुप कहाँ रह जाती है ? तुम मुझे वचनसे ही जानते हो, तुमलोगोंको इसका कारण बिना जाने ही भेरी बातपर विश्वास रखना चाहिए।"

योगेन्द्र—"इस लड़कीका नाम क्या है, कमला ?"

रमेश—"हाँ।"

योगेन्द्र—"इसे तुमने कहाँ अपनी स्त्री बताया है ?"

रमेश—"हाँ, बताया है।"

योगेन्द्र—"फिर भी तुमपर विश्वास करना होगा ? तुम हमलोगोंको यह जताना चाहते हो कि यह तुम्हारी स्त्री नहीं है, और, दूसरोंको जताया है कि यह तुम्हारी स्त्री है ! यह कोई सचाइका दृष्टान्त नहों।"

अक्षय—"यानी पाठशालाके 'नीतिवोध'में ड्रा दृष्टान्तका इस्तेमाल नहों किया जा सकता, मगर भाई योगेन्द्र, दुनियामें दो फरीदोंके आगे दो तरहकी चात कहना शायद किसी सास वजहसे जहरो हो जाता है। उनसे से कमसे कम एक बातका सच होना कोई गैरमुमकिन नहीं। हो सकता है कि तुम लोगोंसे जो बात कह रहे हो वही सच हो।"

रमेश—"मैं तुम लोगोंसे कोई भी बात नहीं कहता। मैं निर्फ इतना दूरी कह रहा हूँ कि हेमनलिनीके साथ मेरा व्याह करना धर्म या कर्त्तव्यके लियाफ नहीं है। कमलाके बारेमें तुमलोगोंसे सब बातें कहनेमें बड़ी-भारी अद्वेन है। तुमलोग सुझार भले ही शक करो, या मुझे दुरा-भला कुछ भी समझ लो, फिर भी, मैं ऐसा अन्याय हरणिज नहीं कर सकता कि अपने लिए दूसरेकी जिन्दगी घरवाद छर दें। मेरा अपना सुख-दुःख या नान-अपमानका विषय होता तो मैं तुमलोगोंसे कोई भी बात नहीं दियाता ; पर किमी दृष्टेपर खुन्म मैं नहीं कर सकता।"

योगेन्द्र—"हेमसे सब घातें कह दी हैं ?"

रमेश—"नहीं। बगाहके बाद उनसे कहूँगा, इतनी बात उनसे हो उछी है। और, वे अगर अगर पूछना चाहें तो अभी भी बता सकता हैं।"

कमला हँसिया छोड़कर जल्दीसे उठ खड़ी हुई। कमरेसे बाहर भगाने  
-रास्ते में ही ये दोनों खड़े थे। योगेन्द्रने जरा हटकर रास्ता छोड़ दिया।  
-कमलाके चेहरेपरसे अपनी निगाह नहीं हटाई, उसे वह खूब गौरसे देखने लगा।  
कमला मारे शरमके सिकुड़सी गई और तेजीसे बगलवाले कमरेमें चली गई।

## १४

योगेन्द्रने कहा—“रमेश, यह लड़की कौन है ?”

रमेशने जवाब दिया—“मेरी एक रिश्तेदारिन है।”

योगेन्द्र—“कैसी रिश्तेदारिन ? मेरे खयालसे बुजुर्गोंमेंसे कोई नहीं होता। और स्थनेका सम्बन्ध भी नहीं मालूम होता। तुमने अपने सभी कुदृश्व  
और रिश्तेदारोंका मुझसे जिक किया है, पर इनका जिक तो कभी नहीं मुना।  
अक्षय—“योगेन, यह तुम्हारी ज्यादती है। तुम्हारा क्या यह ख्या  
है कि किसीकी ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती जो अपने मित्रसे भी गु  
रखी जाय ?”

योगेन्द्र—“क्यों रमेश, यह बहुत ही गुप्त बात है क्या ?”

रमेशका चेहरा सुर्ख हो उठा; बोला—“हाँ, गुप्त बात है। इ  
लड़कीके बारेमें तुम्हारे साथ मैं किसी भी तरहकी चर्चा नहीं करना चाहता।

योगेन्द्र—“मगर खेद है कि मैं तुम्हारे साथ इस बारेमें खास तों  
चर्चा करना चाहता हूँ। हेमके साथ अगर तुम्हारा व्याह तय न हुआ होता  
तो किसके साथ तुम्हारा कितना और कहाँ तक रिश्ता बढ़ा है, उस बारें  
विचार करनेको मुझे कर्तव्य जरूर नहीं थी : तुम्हारा जो कुछ गुप्त है वह उ  
ही रह जाता !”

रमेश—“इतना-भर मैं तुमसे कह सकता हूँ कि ससारमें और-किसीं  
साथ मेरा ऐसा कोई रित्ता नहीं कि जिससे हेमनलिनीके साथ होनेवाले  
पवित्र सम्बन्धमें मेरे लिए कोई वाधा आ सके।”

योगेन्द्र—“हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई वाधा न हो, पर हेम  
कुनवेवालोंको तो हो सकती है। एक बात मैं तुमसे प्रछना चाहता हूँ  
किसीके साथ तुम्हारा कैसा भी रिश्ता क्यों न हो, आखिर उसे छिपानें

कारण क्या है ?”—कहकर वह उत्सुक दृष्टिमें रमेशके मुँहवी तरफ देखने लगा।

रमेशने कहा—“उस कारणको ही अगर कह दूँ, तो फिर बात गुप्त कहाँ रह जाती है ? तुम मुझे बचनसे ही जानते हो, तुमलोगोंको इसका कारण बिना जाने ही मेरी बातपर विश्वास रखना चाहिए।”

योगेन्द्र—“इस लड़कीका नाम क्या है, कसला ?”

रमेश—“हाँ।”

योगेन्द्र—“इसे तुमने कहों अपनी स्त्री बताया है ?”

रमेश—“हाँ, बताया है।”

योगेन्द्र—“फिर भी तुमपर विश्वास करना होगा ? तुम हमलोगोंको यह जताना चाहते हो कि यह तुम्हारी स्त्री नहीं है, और, दूसरोंको जताया है कि यह तुम्हारी स्त्री है ! यह कोई सचाईका दृष्टान्त नहीं।”

अक्षय—“यानी पाठशालाके ‘नीतिवोद’में इस दृष्टान्तका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भगव भाई योगेन्द्र, दुनियामें दो फरीदोंके आगे दो तरहकी चात कहना शायद किसी खास बजहसे जरूर हो जाता है। उनमें से कमसे कम एक धातरा सच होना कोई गैरमुमकिन नहीं। हो सकता है कि तुम लोगोंसे जो बात कह रहे हो वही सच हो !”

रमेश—“मैं तुम लोगोंसे कोई भी बात नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हेमनलिनीके साथ मेरा ब्याह करना धर्म या कर्तव्यके खिलाफ नहीं है। कमलाके बारेमें तुमलोगोंने सब बातें कहनेमें बड़ी-भारी अद्वेचन है। तुमलोग मुकर भले हो शक करो, या मुझे शुरा-भला कुट भी समझ लो, फिर भी, मैं ऐसा अन्याय हरगिज नहीं कर सकता कि अपने लिए दूसरेको जिन्दगी बरबाद कर दूँ। मेरा अनन्त सुख-दुःख या नान-अपमानना विभग होता तो मैं तुमलोगोंसे कोई भी बात नहीं छिपता ; पर किसी दूसरेपर खुल्म मैं नहीं कर सकता।”

योगेन्द्र—“हेमसे सब बातें रुद्ध दी हैं ?”

रमेश—“नहीं। ब्याहके बाद उनसे कहूँगा, इतनी बात उनने हो नुच्छी दी है। और, वे अगर अभी पूछता चाहें तो वामी भी यता सकता हुँ।”

योगेन्द्र—“अच्छा, मैं कमलासे इस विषयमें दो-एक बात पूछ सकता हूँ ?”

रमेश—“नहीं, हरगिज नहीं। मुझे अगर तुम कसूरवार समझते हैं तो मेरे सम्बन्धमें जैसा चाहो रुख अखितयार कर सकते हो, लेकिन ... , ऐसा मने सबाल-जवाब करनेके लिए निर्देष कमलाको मैं हरगिज नहीं खड़ी न सकता।”

योगेन्द्र—“किसीसे भी सबाल-जवाब करनेकी कोई जरूरत नहीं। जानना था सो जान लिया। सबूत काफी मिल चुका। अब मैं तुमसे सासाफ ही कह देता हूँ, अब अगर हमारे घर पैर रखनेकी कोशिश करोगे ; तुम्हें वैइज्जत होना पड़ेगा।”

रमेशका चेहरा सफेद-फक पढ़ गया। वह जैसे बैठा था वैसे ही है रह गया।

योगेन्द्र कहता गया—“और एक बात कहनी है। हेमको तुम किन्हीं लिख सकोगे। उसके साथ तुम्हारा, खुले या छिपे तौरपर, नजदीक दूरका, किसी भी तरहका कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर तुमने उचिटी लिखी, तो जो बात तुम गुप्त रखना चाहते हो वही बात तमाम सबृतों साथ सबके सामने पेश कर दो जायगी। अब अगर हमलोगोंसे कोई पूछे कि तुम्हारे साथ हेमका सम्बन्ध क्यों कूट गया, तो, मैं कहूँगा कि इस व्याप मेरी राय नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। भीतरी बात मैं नहीं कहूँगा। मैं तुम अगर होशियार न रहो तो सब बातें चौड़े आ जायेंगी। तुमने हमलोगों साथ बहुत ही बुरा सल्लक किया है, फिर भी मैंने जो अपनेको दमन रखा है वह तुमपर दया करके नहीं, बल्कि इसलिए कि इसके साथ मेरी बहन ताल्लुक है। नहीं तो, तुम डतनी आसानीसे छुटकारा न पाते। अब तुम मेरा यह आखिरी कहना है कि किसी भी वक्त हेमके साथ तुम्हारा किसी तरहका परिचय था यह बात तुम्हारी बातचीत या व्यवहारमें कभी भी क्या जाहिर न होने पावे। इस विषयमें मैं तुमसे प्रतिज्ञा नहीं करा सका ; क्यों इतना झूठके घाद प्रतिज्ञा तुम्हारी ज्यानसे निकलेगी नहीं। मगर हाँ, अब

अगर तुम्हारे अन्दर हथा-शरम कुछ वाकी हो, इज्जतका जग भी खयाल हो, तो मेरी इन बातोंकी भूलकर भी लापरवाही न करना ।”

अक्षय—“ओ हो, योगेन, अब ज्यादा क्यों कह रहे हो ? रमेश बाबू चुप हैं, फिर भी तुम्हें जरा रहम नहीं आता । अब चलो । रमेश बाबू, युछ ख्याल न कोजियेगा, अब हम जाते हैं ।”

योगेन्द्र और अक्षय दोनों चले गये । रमेश काठकी मूर्तिकी तरह कठोर होकर बैठा रहा । जब उसका हृकावक्षापन जाता रहा तब उसके ऐसा जीमें आने लगा कि घरसे निकलकर तेजोसे हटलता हुआ सारी बातोंको एक बार गौरसे सोच देखे । पर दूसरे ही क्षण उसे याद आ गया कि कमला यहाँ है, उसे घरमें अकेली छोड़कर जाया नहीं जा सकता ।

रमेशने बगलवाले कमरेमें जाकर देखा कि कमला गलीके तरफकी खिड़कीकी एक फिलमिली खोलकर चुपचाप बैठी है । रमेशके पैरोंकी आहट सुनते ही उसने फिलमिली बन्द करके इवर सुंह फेरकर देखा । रमेश जमोनपर बैठ गया ।

कमलाने पूछा—“ये दोनों-जने कौन थे ? आज सदेरे हमारे इस्कूलमें भी गये थे ।”

रमेशने कहा—“स्कूल गये थे ?”

कमला—“हाँ । ये लोग तुमसे क्या कह रहे थे ?”

रमेश—“मुझसे पूछ रहे थे कि तुम मेरो कौन लगती हो ?”

सुसरालमें अनुग्रासनकी कमी होनेको बजहसे यद्यपि कमलाने अभी तरु शरमाना नहीं सीखा है, फिर भी बचपनसे चले आये सरकारके कारण रमेशकी इस बातपर उसका सुँह सुर्ख हो उठा ।

रमेशने कहा—“मैंने उन लोगोंको जवाब दे दिया है कि तुम मेरी कोई नहीं लगती ।”

कमलाने सोचा, रमेश उसे डेढ़कर तग करनेके लिए ऐसा कह रहा है । उसने सुँह फेरकर ढाटनेके स्वरमें कहा—“हाँ जाओ ।” और रमेश सोचने संगा, कमलादे सारा किस्सा देसे गोलके कहा जाय ।

‘कमला अचानक उठ खड़ी हुई, बोली—“ये लो, तुम्हारे फल तो कौए लिये जा रहे हैं !”—कहती हुई वह जल्दी से बगलशाले कमरेमें गई और कौओंको उड़ाकर थाली उठा लाई, और रमेशके आगे थाली रखके बोली—“खाओगे नहीं ?”

रमेशको खानेसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, पर कमलाके इस प्यार-भरे अनुरोध और जतनने उसके हृदयको पिघला दिया। उसने कहा—“तुम नहीं खाओगी ?”

कमलाने कहा—“पहले तुम खा लो ।”

इतनी-सी बात थी, ज्यादा कुछ नहीं, पर रमेशको मौजूदा हालतमें नारो हृदयके इस कोमल आभासने मानो उसकी छातोके भीतरके आँसुओंके सोतर जाकर चोट की। रमेश सुँहसे कोई बात न कहके जवरदस्ती फल खाने लगा।

खाना-गोना खत्म हो जानेके बाद रमेशने कहा—“कमला, आज रातको इमलोग देश जायेगे ।”

कमला आँखें नीची और सुँह उदास करके बोली—“वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता ।”

रमेश—“स्कूलमें रहना तुम्हें अच्छा लगता है ?”

कमला—“नहीं, मुझे स्कूल मत भेजना। मुझे शरम लगती है। वहाँकी लड़कियाँ सब बार-बार तुम्हारी बातें पूछा करती हैं ।”

रमेश—“तुम क्या कहती हो ?”

कमला—“मुझसे कुछ कहते ही नहीं बनता। वे पूछती थीं, तुम क्या सुझे छुट्टियोंमें बोडिंगमें रखना चाहते हो। मैं—”

कमला बात खत्म न कर पाई, उसके हृदयके घावमें फिर एक टीम-उठ खड़ी हुई।

रमेशने कहा—“तुमने कह क्यों नहीं डिया कि वे मेरे कोई नहीं होते

कमलाने नाराज दोकर और एक खास तरीकेसे गरदन मटकाकर रमेश चेहरेको ओर कनखी मारते हुए कहा—“चलो हटो !”

रमेश फिर मन-हो-मन सोचने लगा, क्या करना चाहिए ? इधर उस

छातीके भीतर बार-बार एक दबा-हुआ दर्द कीड़की तरह कुत्तर-कुत्तरका। बाहर निकलनेकी कोशिश कर रहा था। अब तक योगेन्द्रने जाकर हेमसे क्या-क्या कहा होगा, क्या-क्या समझा योगा; हेननलिनीके साथ अगर उसका जिन्दगी-भरके लिए विछोह हो ही गया, तो फिर वह अपनी जिन्दगीनी नाव खेयेगा कैसे, इस तरहके ज्वालासय प्रदन भीतर-ही भीतर उसके सनमें जना होने लगे; और उसपर मुसीबत यह कि अच्छी तरह उनपर चिचार करनेकी फुरसत नहीं मिल रही है। रमेश इतना समझ गया था कि कमलाके साथ उसके सम्बन्धके विषयमें कलकत्तामें उसके शशु-मित्रोंमें काफी चर्चा हो रही है। यह बात काफी तौरपर फैल गई होगी कि वह कमलाका पति है। और अब, उसके लिए बचावका यही एक रास्ता रह गया है कि थब्र वह एक दिनके लिए भी कलकत्ता न रहे।

अनमना रमेश इसी उधेह-बुनसे था कि अचानक कमला उसके मुँहकी ओर-देखकर बोल उठी—“तुम क्या सोच रहे हो? तुम अगर देश रहना चाहते हो तो मैं भी वहाँ रहूँगी।”

बालिका कमलाके मुँहसे ऐसी आत्मसंयमकी बात सुनकर रमेशके हृदयको फिर चोट लगी। फिर वह सोचने लगा, क्या किया जाय? और फिर अनमन-सा न-जाने क्या-क्या सोचता, हुआ चुपचाप कमलाके मुँहकी तरफ “इसके द्वारा।

कमलाने मुँह गम्भीर बनाकर पूछा—“अच्छा, छुट्टियोंमें बोहिंगमें रहनेको राजी नहीं हुई इसलिए नाराज हो गये हो सुझसे? सच्ची बताओ न?”

रमेशने कहा—“सच कह रहा हूँ, तुमसे नाराज नहीं हुआ, मैं तो धरने क्यार नाराज हूँ।”

रमेश चिन्ताके जालसे जबरन अपनेको छुड़ाकर कमलासे बात करने लगा। उसने कहा—“अच्छा, कमला, स्कूलमें तुमने इतने दिनोंमें क्या सीखा?”

कमला बहुत ही उत्साहके साथ अपनी पदार्डि-लिखार्डिका हिसाब देने लगी। दुनियाकी गोलाईसे अब वह अपरिचित नहीं यह जताकर जब रमेशको उसने चौंका देनेकी कोशिश की, तो रमेशने गम्भीर मुँह बनाकर दुनियाकी गोलाईपर शक जाहिर किया। बोला—“ऐसा भी कभी हो सकता है?”

क मलाने ताजजुवसे अपनी आँखें फाइते हुए कहा—“वाह, हमारी किताबमें लिखा है, मैंने पढ़ा है।”

रमेशने आश्चर्यके साथ कहा—“अच्छा ! किताबमें लिखा है ? कितनी बड़ी किताब है ?

इस सवालसे कमला जग पसोपेशमें पढ़ गई ; बोली—“ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर छपी हुई किताब है। उसमें तसवीरें भी हैं।”

इतने बड़े सवृत्के आगे रमेशको हार माननी पड़ी। इसके बाद कमला पढ़ने-लिखनेका व्योग खत्म करके स्कूलकी लड़कियों और मास्टरनियोंकी बात, बहाँकी दिनचर्या आदिके बारेमें बक्कास करती रही। रमेश अनमना-सा होकर बीच-बीचमें उसकी बातपर हँड़कारा देता गया। कभी-कभी किसी बातके सिलसिलेमें एकआध सवाल भी करता रहा। कुछ देर बाद सदसा कमला कह उठी—“तुम मेरी बात तो कुछ सुन नहीं रहे हो।” और तुरत रुठके चल दी।

रमेश उत्ताप्ता होकर बोला—“नहीं नहीं, कमला, नाराज न होओ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है।”

तबीयत ठीक नहीं सुनते ही कमला लौट पड़ी, बोली—“तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ ?”

रमेश-मला—“कोई खास तकलीफ नहीं, मासूली जरा, — बोच बीचमें मुझे ऐसा दूर जाया करता है। अभी तुरत ठीक हो जायगा।”

कमलाने रमेशकी तबीयत खुश करनेको गरजसे अपनी पढ़ाईको नजोर देरे हुए कहा—“मेरी ‘भूगोल-शिक्षा’ में समूची दुनियाकी तसवीर है, देखोगे ?

रमेशने अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा—“दिखाओ।”

कमला झटपट अपनी किताब उठा लाई और रमेशके आगे खोलके रख दी। बोली—“देखो, ये दो गोल-गोल तमबीरें अलग-अलग दोख रही हैं न अमलमें ये दोनों एक ही हैं। गोल चोजके दो पदल छहों एकसाथ दिखाये जा सकते हैं ?”

रमेशने जरा-कुछ सोच देखनेका भान करते हुए कहा—“एकसाथ दोनों पहले तो चपटी चीजके भी नहीं देखे जा सकते।”

कहा— कमलाने कहा—“इसीलिए इस तसवीरमें धरतीके दो पहलू अलग-अलग दिखाये गये हैं।”

है— इसी तरह उस दिनकी शाम बोत गई।

## २०

आनन्दा बाबू खूब दिलजमईके साथ यह उम्मीद कर रहे थे कि योगेन्द्र अच्छी खबर लायेगा, और सारा फसाद बढ़ी आसानीसे निवट जायगा। हर स्योगेन्द्र और अक्षय जब उनके कमरेमें घुसे तो वे डरते हुए-से उनके मुहको निकालते और देखने लगे।

योगेन्द्रने कहा—“बापूजी, तुम रमेशको इतनी ज्यादा आजादी दे दोगे, क्यों त्यह किसे मालूम था। ऐसा जानता तो मैं उसके साथ घरमें किसीका परिचय छहड़ी न करता।”

आनन्दा बाबू भौचक्के-से होकर बोले—“वाह, रमेशके साथ हेमको शादी करनेकी मनसा तो तुम्हारी ही थी शुरूसे, और इस बातको तुम कई बार दुहरा भी चुके हो। अगर तुम्हारा रोकनेका ही इरादा था तो तुम सुझे—”

योगेन्द्र—“हालाँकि विलकुल रोकनेकी बात मैंने कभी नहीं सोचो, लेकिन इसके मानी—”

आनन्दा बाबू—“यह देखो, नहीं सोचो तो फिर उसमें 'इसके मानी' कहांसे आ गया? या तो आगे बढ़ने देना या रोक देना, दो ही रास्ते थे।”

योगेन्द्र—“इसके मानी ये नहीं कि उसे इतनी ज्यादा आजादी दे दी जाय कि वह ज्यादती करता ही चला जाय।”

अक्षय हँस दिया, बोला—“कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो अपनी धुनमें आगे बढ़ती रहती हैं, उन्हें शह नहीं देना पढ़ती, बढ़ते-बढ़ते अपने-आप ही ही ज्यादतो तक पहुँच जाती हैं। मगर जो-कुछ हो गया, उसपर बहस करनेसे क्या फायदा? अब तो जो कुछ करना है उसकी चर्चा करना चाहिए।”

अनन्दा बाबूने डरते हुए पूछा—“रमेशसे तुमलोगोंकी मुलाकात हुई थी?”

योगेन्द्र—“खूब मुलाकात हुई है, जिसकी कि उम्मीद भी नहीं की थी। और तो क्या, उसकी वहको भी देख आये।”

आनन्दा बाबू दग होकर देखते ही रह गये। थोड़ी देर बाद पूछ उठे—“किसकी वहूको देख आये ?”

योगेन्द्र—“रमेशकी वहूको ।”

अनन्दा बाबू—“तुम कह क्या रहे हो, मेरी कुछ समझमें नहीं आ रहा। किस रमेशकी वहूको ?”

योगेन्द्र—“हमारे यहाँ आने-जानेवाले रमेशकी वहूको । पांच-छै महीं पहले जब वह देश गया था ; तब व्याह करने तो गया ही था ।”

आनन्दा बाबू—“पर उसके पिताकी मृत्यु हो जानेसे उसका व्याह तो ही नहीं पाया था ?”

योगेन्द्र—“मरनेसे पहले ही पिताने उसकी शादी कर दी थी ।”

अनन्दा बाबू सच रह गये ; और जल्दी कुछ समझमें न आनेसे माथेर हाथ फेरने लगे। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर चोले—“तब तो उसके साथ हेमका व्याह हो ही नहीं सकता ।”

योगेन्द्र—“हम लोगोंका तो यही कहना है—”

~~अनन्दा बाबू~~—“तुमलोग तो यही कहोगे ; पर इवर जो व्याहकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस इतवारको न होकर अगले इतवारको होगा; इसकी चिट्ठियाँ भी चली गई हैं। अब फिर उसे बदलकर मनाहीकी तीर्पी चिट्ठी देनो पड़ेगी ?”

योगेन्द्रने कहा—“विलकुन्न मनाही लिखनेकी जहरत नहीं, थोड़ा सा रहो-बदल कर मूर्नेसे काम चल जायगा ।”

अनन्दा बाबू ने आश्वयके साथ कहा—“उसमें रहो-बदल और क्या करोगे ?”

योगेन्द्र—“जो किया जा सकता है वही किया जायगा। रमेशकी जगह और-किसीको डेस्ट्रेष-भालकर सम्बन्ध पक्षा करके अगले रविवारको ही व्याह कर देना पड़ेगा ; नहींकों तो समाजमें मुँह दिखाना दुश्वार हो जायगा ।” इतना कहकर योगेन्द्रने एक बार अक्षयके मुँहकी ओर देखा। अक्षयने विनयसे भिर मुका लिया।

अनन्दा बाबू<sup>नीज</sup> कहा—“लड़का इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है ?”

योगेन्द्र—“इसके लिए तुम निश्चिन्त रहो ।”

अशदा बाबू—“मगर हेमको तो राजी करना पड़ेगा ।”

योगेन्द्र—“रमेशकी सारी बातें सुनकर वह जहर राजी हो जायगा ।”

अशदा बाबू—“तो फिर तुम जैसा ठीक समझो बैसा करो । पर रमेशकी घरको हैसियत भी ठीक थी, और पैसा पैदा करनेकी विद्या-बुद्धिकी भी कभी नहीं थी । परसों ही तो मुझसे तय कर गया था कि इटावा जाकर प्रैविट्स करेगा ; इस बीचमें देखो भला, क्याका क्या हो गया ।”

योगेन्द्र—“इसके लिए क्यों चिन्ता कर रहे हो बापूजी । इटावेमें वह अब भी प्रैविट्स कर सकता है । एक बार मैं हेमको बुला लाऊँ । अब ज्यादा दिन भी तो नहीं हैं ।”

कुछ देर बाद योगेन्द्र हेमनलिनीको लेकर वापस आ गया । अक्षय कमरेके एक कोनेमें किताबोंकी आलमारीकी ओटमें बैठा रहा ।

योगेन्द्रने कहा—“हेम, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है ।”

हेमनलिनी सज्जाटा खींचकर चौकीपर बैठ गई । वह समझ रही थी कि उसकी परीक्षा होनेवाली है ।

योगेन्द्रने भूमिकाके तौरपर पूछा—“रमेशके बरतावमें तुम्हे सन्देहकी कोई बात नहीं मालूम हुई ?”

हेमनलिनीने मुँहसे कुछ न कहकर सिर्फ गरदन हिला दी ।

योगेन्द्र कहता गया—“उसने जो ब्याहका दिन एक हफ्ते आगे बढ़वा दिया उसका ऐसा क्या कारण हो सकता है जो हममेंसे किसीको भी नहीं बताया जा सकता ।”

हेमने निगाह नोची किये हुए कहा—“कारण जहर कुछ-न-कुछ होगा ही ।”

योगेन्द्र—“सो तो ठीक है, कारण तो है ही ; पर वह क्या सन्देहजनक नहीं है ?”

हेमनलिनीने फिर चुपकेसे गरदन हिलाकर जताया—‘नहीं ।’

योगेन्द्रने जब देखा कि बाप-बेटी दोनोंको एक रमेशपर ही पूरा भरोसा है तो उसे गुस्सा आ गया । अब सावधानीसे भूमिका बनाकर बात करना उसने

जस्ती नहीं समझा । वह कड़ाईके साथ कहने लगा—“तुम्हें तो याद होगा जि  
रमेश सात-आठ महीने पहले अपने पिताके साथ देश गया था । उसके बाद  
बहुत दिनोंतक उसको कोई चिट्ठी-पत्री न आनेसे हमलोगोंको आश्रय हो रहा  
था । यह भी तुम्हें मालूम है कि रमेश दोनों वक्त हमारे यहाँ आया करता था,  
और जो बराबर हमारे बगलके मकानमें रहता था वह दुबारा कलकत्ता आज्ञा  
हमलोगोंसे बिलकुल मिला ही नहीं ; और दूसरी जगह मकान लेकर छिपा  
रहने लगा । इतना सब-कुछ होनेपर भी तुमलोग उसे पहलेकी तरह ही पूरे  
विश्वासके साथ अपने घर बुला लाये ! मैं होता तो क्या ऐसा कभी हो  
सकता था ?”

हेमनलिली ऊपर बनो रही ।

योगेन्द्र कहता गया—“रमेशके इस तरहके बरतावके कुछ भी मानी तुम-  
लोगोंको समझमें नहीं आये ? इस बारेमें कोई सवाल ही तुमलोगोंके मनमें  
नहीं पेदा हुआ ! रमेशपर इतना गहरा विश्वास है, क्यों ?”

हेमनलिलीने कुछ जवाब नहीं दिया ।

योगेन्द्र कहने लगा—“खैर, अच्छी बात है, तुमलोग सरल-स्वभावी  
उढ़रे, किसीपर शक नहीं करते ; पर इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि मुझर  
भी तुम्हारा थोड़ा-बहुत विश्वास होगा । मैं खुद स्कूल जाकर दरियापत कर  
आया हूँ कि रमेश अपनी स्त्रीको बोडिंगमें रखकर पढ़ा रहा था, उसका नाम  
है कमला । पूजाको छुट्टियोंमें भी उसे वह बोडिंगमें ही रखना चाहता था ।  
दो-तीन दिन हुए, अचानक रमेशको हेड-मिस्ट्रेसकी चिट्ठी मिली कि छुट्टियोंमें  
कमलाको बोडिंगमें नहीं रखा जायगा । आजसे स्कूलकी छुट्टियाँ शुरू हो गईं  
और कमलाको उन लोगोंने स्कूलकी गाड़ीमें बिठाकर रमेशके दरजीपाला-बाले  
मकानमें पहुँचा दिया है । उम मकानमें मैं रुद गया था । जाकर देखा कि  
कमला हँसियासे सेव बना रही है और रमेश उसके सामने जमीनपर बैठा हुआ  
सेवकी फाँके उठा-उठाकर मुँहमें डाल रहा है । रमेशसे मैंने पूछा कि यह क्या  
बात है ? उसने जवाब दिया कि हम लोगोंको अभी वह कुछ भी नहीं बता  
सकता । अगर रमेंग एक बात भी बता देता कि कमला उसको स्त्री नहीं है,

दूरों भी उसको बातपर विश्वास करके किसी कदर हम अपने सन्देहको दबा  
लंखनेको कोशिश करते। मगर उसने 'हाँ' या 'ना' कुछ भी कहनेसे इन्कार कर  
कीर्दया। अब, इसके बाद भी क्या तुम रमेशपर पहले-जैसा विश्वास रखता  
होगी ?"

जब जबके इन्तजारमे योगेन्द्र हेमनलिनीके मुँहकी ओर गौरसे देखता रहा।  
तेहमका चेहरा सफेद-फक पड़ गया था, उसमें जितनी भी ताकत थी उतनी  
लगाकर वह दोनों हाथोंसे कुरसीको मूँठें द्यानेको कीशिश कर रही थी।  
इसके क्षण-भर बाद ही वह सामनेकी तरफ झुक पड़ी और बेहोश होकर  
प्रसीसे नोचे आ पढ़ी।

अननदा बाबू व्याकुल हो उठे। उन्होंने जमीनपर पड़ो-हुई हेमनलिनीके  
गोपयेको दोनों हाथोंसे अपनी छातीके पास रखकर कहा—“विटिया, विटिया,  
हुआ विटिया ? इन लोगोंको बातपर तुम विश्वास मत करो। सब  
कूठी बात है।”

योगेन्द्रने अपने पिताको 'न कह रहा था, तुम्हेंसे पानी लेकर उसके  
गोफेपर लिया दिया। पास ही पान न्मेंसे पानी लेकर उसके  
हुईपर बार-बार छोटे ढेने लगा, और नालिश-फरियादें पीछे-जोरसे हवा  
मरने लगा।

हेमनलिनीने थोड़ी देर बाद आंखे खोलीं तो वह न्में, और अपने  
रताकी ओर देखती हुई चौख मारकर कह उठी—“वापूजा, वापूजी, अक्षय  
वृक्षोंको यहाँसे हट जानेके लिए कह दो।”

अक्षय परखा रखकर कमरेके बाहर चला गया और दरवाजेकी ओटमें जा  
वडा हुआ। अबदा बाबू सोफेपर हेमरे पास जा बैठे, और उसके माथेपर हाय  
मरने लगे। और फिर, एक गहरो साँस लेकर बोल उठे—“विटिया, विटिया !  
हमू !”

देखते-देखते हेमनलिनीको दोनों आंखोंसे आंसुओंको धारा वह चली,  
उसको छातीमें उफान-सा आ गया। वह पिताको गोदमें मुँह छिगकर उनसे  
तृप्त गई, और सिसक-मिसककर अपने रोनेके उभारको रोकनेकी भरपूर कोशिश

करने लगी । अबदा वावूने आँसू-भरे कण्ठसे कहा—“वेटी, तुम निश्च रहो, वेटी । रमेशको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वह कभी भी धोखा नहीं सकता । योगेनने जहर गलती की है ।”

योगेन्द्रसे अब न रहा गया, बोला—“वापूजी, क्यों इश्ती तसली दे । हो ! अभीके दुरस्ते बचानेके लिए उसे दूने दुःखमें डालना अच्छा नहीं बल्कि इससे तो तुम उसे सोचनेके लिए थोड़ा बक्क दो तो अच्छा है ।”

हेमनलिनी उसी बक्क पिनाकी गोद छोड़कर उठके बठ गई ; थे योगेन्द्रके मुँहकी तरफ देखकर बोली—“मुझे जो-कुछ सोचना था, मैं से चुकी हूँ । जब तक उनके अपने मुँहसे कुछ नहीं सुन लेतो, तब तक और किसीको वातपर हरगिज विश्वास नहीं करूँगी, यह तुम निश्चय रम लेना ।” इतना कहकर वह उठके खड़ी हो गई । अबदा वावूने घबराकर रथाम लिया, बोले—“गिर जाओगो ।”

हेमनलिनी पिताका हाय पकड़के अपने सोनेके कमरेमें चली गई । रिं पर लेटकर बोली—“वापूजी, मुझे जग अकेली छोड़ दो, मैं सोऊँगी ।”

अबदा वावूने कहा—“संसर, अच्छी बां न दूँ, हवा कर देगी ?”

हेमने कहा—“नहीं करते, पर इतने वापूजी ।”

अबदा दूँ-दूँ-वहुत विश्वास भरी थीं । बैटे-बैठे वे हेमकी उस माकी बही सोचने लगे अपनी उनकी वह सेवा, उनका धीरज, उनका सदा-प्रसन्न वेहा एक-एक करके सर्वे बातें उन्हें याद धाने लगीं । उसी गृहलक्ष्मीकी प्रतिमूर्ति भाँति जो लड़की इतने दिनोंसे उनकी गोदमें पली-पनपी है और इतनी बहुई है, उसके अनिष्टकी आशकासे उनका हृदय व्याकुल हो उठा । घगड़ीं कमरेमें बैठे हुए वे मन-ही-मन उसे सम्बोधित करके कहने लगे, ‘वेटी, तुम्हारा तमाम धाधा-पिज दूर हो जायें, दमेशा तुम सुखो रहो । तुम्हें सुखो देसका भली-चगो देखकर, जिसे तुम प्यार करती हो उसके घर तुम्हें लक्ष्मीकी तरी प्रतिष्ठित देसकर ही मैं तुम्हारी माके पास जा सकूँ, परमात्मासे यही भैं प्रार्थना है ।’ मन-ही-मन इतना कहकर उन्होंने दुःखरेमी थास्तीनसे अपनी धूँ पोछ ली ।

औरतोंकी बुद्धिपर योगेन्द्रको खुशसे ही अवजा थी ; और आज वह और भी ज्यादा दृढ़ हो गई । ये आँखों-देखे सबूतपर भी विश्वास नहीं करतीं, इन्हें लेकर क्या किया जाय ? [दो और दो चार होंगे ही, फिर चाहे उससे आदमोंको सुख हो या दुःख । पर ये औरतें कहीं-कहीं उसे भी इनकार कर जाती हैं । युक्ति भले ही कालेको काला ही बताये, पर इनके प्रेमको अगर वह न जचा तो ये फौरन ही उसे सफेद कहने लग जायेंगी, और युक्तिपर खफा हो उठेंगी । इन्हें लेकर कैसे दुनियाका काम चल सकता है, योगेन्द्रकी कुछ समझ ही में नहीं आता ।

योगेन्द्रने पुकारा—“अक्षय !”

अक्षय धीरेसे कमरेके भीतर दाखिल हुआ ।

योगेन्द्र बोला—“सब तो सुन लिया तुमने, अब इसका क्या इलाज हो सकता है ?”

अक्षयने कहा—“मुझे इन सब बातोंके बीच क्यों घसीट रहे हो भाई ? मैं इतने दिनोंसे कुछ भी नहीं कह रहा था, तुमने आते ही मुझे झगड़े में डाल दिया ।”

योगेन्द्रने कहा—“अच्छा अच्छा, ये नालिश-फरियादें पीछे करते रहना । अब तो, हेमनलिनीके सामने जब तक रमेश खुद सब बातें कबूल नहीं कर लेता तब तक कुछ होना-हवाना मुश्किल ही दीखता है ?”

अक्षय—“तुम्हारा दिमाग खबत हो गया है ! आदमों अपने मुँहसे—”

योगेन्द्र बीच ही मेरों बोल उठा—“या फिर, वह एक चिट्ठी लिखके भेज दे तो और भी अच्छा रहे । तुम्हे इसका जिम्मा लेना पड़ेगा । मगर अब ज्यादा देर करनेसे काम न चलेगा ।”

अक्षयने कहा—“ठेखू, कहाँ तक क्या किया जा सकता है ?”

२१

रातके नौ बजे रमेश कमलाको लेकर स्यालदह स्टेशनके लिए रवाना हुआ । जाते वक्त जरा धूमकर गया । गाड़ीवानको बैमतलब इधर-उधर गलियोंमें धुमाता

फिरा । कोल्हूटोलाके एक मकानके पास आकर आग्रहके साथ मुँह निकले देखा, पर उस परिचित मकानमें किसी तरहका परिवर्तन नहीं दिखाई रिया रमेशने ऐसो एक लम्बी साँस छोड़ी कि ऊँघती हुई कमला चौक पड़ी । उस पूछा—“तुम्हें क्या हो गया है ?”

रमेशने जवाब दिया—“कुछ भी नहीं ।” और कुछ न कहके गाढ़ी भौतर अंधेरेमें चुपचाप बैठा रहा । देखते-देखते गाढ़ीके एक कोनेमें सिर टेक कमला फिर सो गई । क्षण-भरके लिए कमलाका अस्तित्व रमेशके लिए मर्द अस्त्यन्सा हो उठा ।

गाढ़ी ठोक वक्तपर स्टेशन पहुँचो । सेनेण्ड वलासका डब्बा पहले ही रिंजर्व किया हुआ था । रमेश और कमला दोनों उम्में बैठ गये । एक तरफ़ सीटपर कमलाका विस्तर बिछा दिया, और बत्तीके नीचे परदा लगाकर उठावेरा करके रमेशने कमलासे कहा—“बहुत देरसे तुम्हें नोंद आ रही हैं तुम्हारा सोनेका वक्त हो गया, अब तुम सो जाओ ।”

कमलाने कहा—“गाढ़ी छूटनेपर मैं सोऊँगी, तब तक इस खिड़कीके पांचठक्कर स्टेशन देखूँगी ।”

रमेश राजी हो गया । कमला साथेका पल्ला खीचकर प्लाटफार्मकी तरफ़ खिड़कीके पास बैठकर तमाशा देखने लगी । रमेश दूसरी सीटपर अनमना बैठा दूसरी ओर देखता रहा । गाढ़ी छूटी ही थी कि रमेश चौक टूट अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका कोई जान-पहचानका आदमी गाढ़ीकी तर दौड़ा आ रहा है ।

दूसरे ही धण कमला निलगिलाकर हँस पड़ी । रमेशने खिड़कीसे मुँह निचालकर देखा कि एक आदमी रेल्वे-कर्मचारीके रोकनेपर भी उससे बचने चलने गाढ़ीपर सपार हो गया है और उसका दुष्टा उन कर्मचारीके हाथमें रह गया । अपना दुष्टा लेनेके लिए उस आदमीने खिड़कीसे मुकुकर जब हवाया तब रमेशने माफ़-माफ़ टेस्त लिया कि वह और-कोइ नहीं, अक्षय है ।

दुष्टे की दोनमाटीके उस दरयको देखकर बहुत देर तक कमलामें आती रही ।

रमेशने कहा—“साड़े-दस वज चुके हैं, गाड़ी छूट चुकी, अब हुम सो जाओ।”

कमला विस्तरपर पढ़ रही ; और जब तक नीद न आई, तब तक वह बीच बीचमें खिलखिलाकर हँसती रही । पर इस मामलेमें रमेशको कोई खास कुतूहल नहीं पैदा हुआ ।

रमेश जानता था कि गाँवसे अक्षयका कोई ताल्लुक न था । वह कई पीढ़ियोंसे कलकत्ता ही रहता आया है । आज रातको वह ऐसा बेतहाशा दौड़ा हुआ कलकत्ता छोड़कर कहाँ जा रहा है ? रमेश समझ गया कि वह उसीका पोछा कर रहा है । अक्षय अगर उसके गाँवमें जाकर पता लगाना शुरू करे और वहाँ रमेशके अनुकूल और खिलाफ दोनों तरहके लोगोंमें इस बातकी चर्चा छेड़कर उसे परेशान करे, तो सारा मामला कैसा भद्दा हो उठेगा, इसकी कल्पना करके रमेशका मन बहुत ही बेचैन हो उठा । उसके मुहल्लेवालोंमें से कौन क्या कहेगा, कैसो-कैसो बाहियात चर्चा उठेगी, सो सब उसे अभीसे साफ-साफ दिखाई देने लगा । कलकत्ता-जैसे शहरमें हर हालतमें आङ़ हूँडे मिल जाती है ; पर छोटेसे गाँवमें शायद गहराई कम होनेसे जरा-सा धक्का लगते ही वहाँके आन्दोलनकी लहरें जोरदार हो उठती हैं । इस बातपर वह ज्यों-ज्यों विचार करने लगा ख्यों-ख्यों उसका मन सकुचित होने लगा ।

जब गाड़ी वारकपुर जाकर खड़ी हुई तो रमेश बाहर सुँह निकालकर देखने लगा, अक्षय नहीं उतरा । नईहट्टीमें बहुतसे लोग चढ़े-उतरे, पर अक्षय नहीं दिखाई दिया । फिर जब बगुला स्टेशनपर गाड़ी खड़ी हुई, तो फजूलकी उम्मीद लिये हुए रमेश खिड़कीसे सुँह निकालकर बड़ी बेचैनीके साथ गौरसे देखता रहा, एवं अपका नामो-निशान तक नहीं दिखाई दिया । उसके बाद और किसी स्टेशनपर नहीं पढ़ा अक्षयके उतरनेकी वह कल्पना भी न सका ।

बहुत रात बीते रमेश सो गया ।

दूसरे दिन सेवर बै-जेल गाड़ी ग्वालन्द पहुँची । वहाँ रमेशने देखा कि अक्षय भाये और सुँहपर चादर गवनैल्येटे हाथमें एक हैण्डबैग लिये स्टीमरकी तरफ दौड़ा जा रहा है ।

जिस स्टीमरमें रमेशको जाना था उसके छूटनेमें अभी काफी देर थी। दूसरी जटीपर और-एक स्टीमर खड़ा था जो बार-बार सीटीं बजा रहा था रमेशने पूछा, “वह स्टीमर कहाँ जायगा?” जवाब मिला, “पन्थिम जायगा!”

“कहाँ तक?”

“पानी न घटा तो काशी तक जायगा।”

यह सुनते ही रमेश उसी वक्त उस स्टीमरमें सवार हो गया; वे कमलाको एक कमरेमें बिठाकर जल्दीसे कुछ दूध, चावल-दाल और थोड़े रसरीद लाया।

उधर अक्षय दूसरे स्टीमरमें सबसे पहले जाकर ओढ़-आढ़कर ऐसी एक जगह जा खड़ा हुआ कि जहाँमें और-और मुसाफिरोंका जाना-आना सब शिर्पां दे सके। मुसाफिरोंको कोई खास जल्दी नहीं थी, क्योंकि जहाज छुट्टेमें अभी काफी देर थी। इसलिए लोग मुँह-हाथ धोकर और कोई-कोई नहीं थोड़ा राने-पीनेका इन्तजाम करने लगे। अक्षय पहले कभी ग्रालन्ड नहीं आया वह इसलिए उसे यहाँके वारेमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने सूर्योचा कि पहली कहीं होटल या डुकान होगी, वहीं रमेश कमलाको रित गुने-पिलने जाया होगा।

अन्तमें स्टीमर सीटों देने लगा। अब भी रमेशका चूप ही पता नहीं कौपते हुए तस्तेके ऊरसे लोग जहाजपर चढ़ने लगे। ज्यों ज्यों जल्दी-जल्दी सीटी बजने लगी ल्यों-ल्यों मुसाफिरोंको घबराहट और जल्दी रुकाजी बढ़ने लगा पर चट्टनेवालोंमें रमेशकी कहीं चोटी तक नहीं दिखाई दी। जब मुसाफिरों चढ़ना चिलकुल बन्द हो गया, जहाजमा तख्ता खींच लिया गया और ऊपर उठनेका हुक्म दे दिया, तब अक्षय चिन्ना उठा—“मुझे उन्हें देखना चाहता हूँ।” पर वहाँ कौन सुनता दे? चलामियोंने उसके च्यान न ढेकर लंगर उठा लिया। उन्नेंगे देना गया कि अक्षय चारोंके द्वारा मूककर जब द

किनारे आकर उसने दशर-उधर बहुत तलाश किया, कोई नहीं, अक्षय है। पना न चला। थोड़ी देर पहले कलकत्ता जानेवाले देर तक कमलाको हृत्याकरने मन-ही-मन चोचा कि कल रात्रों दुपरी

उसे जरूर देख लिया होगा, और यह समझकर कि उसके खिलाफ कुछ करनेके लिए वह उसका पोछा कर रहा है, डरके मारे वह देश न जाएँ उसी गाड़ीसे कलकत्ता वापस चला गया है। और, कलकत्तामें अगर कोई छिपनेकी कोशिश करे, तो उसे खोज निकालना बड़ी टेही खोर है।

## २२

अक्षय दिन-भर खालन्द-स्टेशनमें फड़फड़ता रहा, और नामझी डाक गाड़ीसे कलकत्ताके लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन सवेरे कलकत्ता पहुँचते हो सीधा रमेशके दरजीपाड़ा-वाले मकानकी तरफ चल दिया। वहाँ जाकर देखा तो दरवाजा बन्द ! पूछताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ कोई नहीं आया।

कोल्डूटोला जाकर देखा तो वहाँ भी वही हाल। रमेशका मकान सूना पड़ा है। अन्तमें अचादा वावूके घर जाकर योगेन्द्रसे बोला—“भाग गया, नहीं पकड़ सका।”

योगेन्द्रने कहा—“क्या हुआ ?”

अक्षयने सारा हाल कह सुनाया।

अक्षयको देखते ही रमेश कमलाको साथ लेकर भाग गया, यह रमेशके खिलाफ योगेन्द्रका सन्देह निश्चित विश्वासमें परिणत हो गयारके घरका कहा—“मगर अक्षय, ये सब दलोलें किसी काम हो न आयेंगे” हैम ही क्यों, बापूजी तक यही बोले बोल रहे हैं कि खुद उपर दिखाइ देने चात सुने विना-उसपर अविश्वास नहीं किया जा सकता। -सूखा, ऐसा रीता, आज भी आकर अगर कहे कि उन्हें आ कि वह छते गए, कोनेमें बैठकर दोनों साथ हैमका ब्याह ऊनेमें आज दिन-भर कोई भी नहीं आयेगा, चायके रहा, पढ़ गया हूँ, ह नहीं देखना है, बगलके मकानमें कोई रहता है किसी स्टेशनपर आते हैं, तक उसका मिट गया।

बहुत रात र वैरेजलदीसे उठकर आँखें पोछ ढालीं; और जवाब दिया—“क्या दूसरे दिन सवेर चावने छतपर आकर हैमकी पीठपर हाय फेरते हुए कहा— माथे और मुँहपर चादर लेर हो गईं।”

उत्कण्ठाके मारे रातको उन्हें नीट नहीं आई ; पिछली रातको आँख ल जानेसे देर तक सोते रहे । ज्यों ही आँखोंमें उजाला लगा लों ही उठ दें और कटपट मुँह-हाय धोकर हेमको खबर लेने उसके कमरेमें पहुँचे । दें कि वहाँ कोई नहीं । सबेरे उसे अकेली छतपर देखकर उनके हृदयको चे पहुँची । बोले—“बलो वेटो, चाय पीयें ।”

चायकी टेबिलगर योगेन्द्रके सामने बैठकर चाय पीनेकी उसकी इच्छा नहीं थी । किन्तु वह जानती है कि नियममें किसी तरहका फरक पहनेसे उसे पिता दु खित होंगे ; इसके मिवा, रोज वह अपने हाथसे पिताको चाय गिलती है, उस सेवासे उसने अपनेको वचित नहीं रखना चाहा । नीचे जाकर, कमरेमें पहुँचनेके पहले जब उसने मुना कि योगेन्द्र किसीसे बात कर रहा है, तो उसे द्याती कौप उठी । सहमा ऐमा मालम हुआ कि रगेश आया है । इतने मरे और कौन आयेगा ? कैंपते हुए पैरोंसे कमरेमें दाखिल होते ही देखा कि अक्षय है, और तब वह अपनेको सम्हाल न सकी, उसी बक्त तेजोसे झटक निकल आई ।

दूसरी बार, अननदा बायू अपने माय जब उसे कमरेमें लाये तब वह पिन्नकी कुरसीके पास मढ़कर, मिर नीचा किये चाय तेयार करके देने लगी ।

योगेन्द्र हेमनलिनीके बरतापरे भीतरही-भीतर सम्मत नाराज था । हेम रमेशके लिए इन तरह शोक करे, यह बात उसे बरदादत नहीं हो रही थी । उसपर, जब देना मि उसके पिता भी हेमके इम शोरमें माय डे रहे हैं और हेम भी मानो घरके और-सबोंसे पिताशी स्नेहकी द्यायामें अपने बचावकी कोशिश कर रही है, तब उमझा अर्थेर्य और-भी बढ़ उठा । योगेन्द्र भीतर ही-भीतर उमरने लगा, ‘तो इम नभी अन्यायो हैं, दोपो हैं ।’ इम जो संदर्भी वर्त्ति कर्तव्य पालनकी ज-जानसे कोशिश कर रहे हैं, कठोर दोनेपर भी हिनके लिए सर-दुष करनेको तेजार हैं, उसके लिए कृतज्ञता तो गूर रही, उलटे मन-ही मन दोपो उठाये जा रहे हैं ! पिताजीको तो दुनियारा कुछ दोष नहीं कि क्या यह दोष रहा है । वे नहीं जानते कि यद्य सान्त्वना देनेका समय नहीं, बर्त्ति चौड़ पहुँचनेका समय है । नौ न करके, पै लगानार अप्रिय सख्तसे उन्हें

हर-ही-दूर रख रहे हैं ।' आखिर उसने अपने पिताको सम्मोहित करके कहा—  
‘मालूम है बापूजी, क्या हुआ है ?’

अनन्दा बाबू त्रस्त हो उठे, बोले—“नहीं तो, क्या हुआ ?”

योगेन्द्र—“रमेश कल अपनी स्त्रीको लेकर मालन्द मेलसे देख जा रहा था, अक्षयको उस गाड़ीमें जाते देख वह देश न जाकर कलजत्ता भाग आया है !”

हेमनलिनीका हाय काँप उठा, चाय ढालतेमें चायका पानी नीचे गिर गया । वह कुरसीपर बैठ गई । और, योगेन्द्र उसके मुँहकी तरफ एक बार कड़ी निगाहसे देखकर कहने लगा—“भागनेकी क्या जहरत थी, मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आता । अक्षयको पहलेसे ही सब-कुछ मालूम हो गया था । एक तो उसका पहलेका व्यवहार ही काफी बुरा है, उसपर यह कायरता । इस तरह वोरको तरह बराबर भागते फिरना मुझे इतना गहित मालूम होता है कि जिसका ठीक नहीं । मालूम नहीं, हेम क्या समझ रही है, पर इस तरह भागता ही उसके अपरावका सबसे बड़ा सबूत है, इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं ।”

हेमनलिनी काँपती हुई कुरसीसे उठ खड़ी हुई, बोली—‘भाई साहब, मेरी दृष्टिमें सबूतकी कोई भी कदर नहीं । तुमलोग उनका इन्साफ करना चाहो, करो, पर मैं उनकी विचारक नहीं बन सकती ।’

योगेन्द्र—“तुम्हारे साथ जिसका ब्याह हो रहा है, उससे क्या हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं ?”

हेमनलिनी—“ब्याहको बात कौन कह रहा है ? तुमलोग सम्बन्ध तोड़ना चाहो, तोड़ दो, तुमलोगोंकी इच्छा । पर मेरा मन पलटनेकी व्यर्थ कोशिश करते हो ।”—कहते-कहते उसका गला रुँव आया, वह रोने लगी । अनन्दा बाबूने जल्दीसे उठकर उसे छातीसे लगा लिया, बोले—“चलो, हेम, हमलोग ऊर चलें ।”

## २३

जहाज छूट गया । पहले और दूसरे दरजेके कमरोंमें कोई भी नहीं था । योगेन्द्र एक कमरा पसन्द करके उसमें अपना विस्तर जमा दिया । कमला दूर खिंकार उस कमरेको खिड़की खोलकर नदी और नदीका किनारा देखने लगी ।

रमेशने कहा—“तुम्हें मालूम है कमला, हमलोग कहा जा रहे हैं ?”  
कमलाने कहा—“देश जा रहे हैं ।”

रमेश—“देश तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए देश नहीं जायेंगे ।”  
कमला—“मेरे लिए तुम देश नहीं जा रहे हो ?”

रमेश—“हाँ, तुम्हारे ही लिए ।”

कमलाका चेहरा उदास हो गया, बोलो—क्यों, तुमने ऐसा किया ? मैंने किसी दिन घातों-हो-घातोंमें कथा कह दिया, उसका तुम इतना खयाल करते हो ? तुम जरा सेमें नाराज क्यों हो जाते हो ?”

रमेश हँसता हुआ बोला—“मैं जरा भी नाराज नहीं हुआ । देश जानेवाले मेरी भी इच्छा नहीं थी ।”

कमलाने उत्सुक होकर पूछा—“तो, हमलोग अब कहा जा रहे हैं ?”

रमेश—“पश्चिमकी तरफ ।”

‘पश्चिमकी तरफ’ सुनकर कमलाको आर्टें चमक उठो । जिसने जिन्दगी भर घरमें रहकर दिन काटे हैं, उसके लिए ‘पश्चिम’ कितना व्यापक है । पश्चिममें तीर्थ हैं, स्वास्थ्य है, नवे-नये शहर हैं, नये-नये दृश्य हैं; कितने राज महाराजोंके प्राचीन निर्दर्शन हैं, कितने मन्दिर हैं, महल हैं, किले हैं, कोई ठीक है । कमलाने पुलकित होकर पूछा—“पश्चिममें कहा जा रहे हैं ?”

रमेशने कहा—“कोई ठीक नहीं । पटना, काशी, सुंगेर, गाजीपुर, दानपुर, कहीं भी जा सकते हैं ।”

इन-सब मुछ जाने और कुछ यिन-जाने शहरोंके नाम सुनकर कमलाकी कन्यन और भी उत्तेजित हो उठो । वह तालियाँ चाजाकर कह उठी—“तब तो बह बच्छा लगेगा ।”

रमेशने कहा—“बच्छा तो पीछे लगेगा, पहले यद तो तय करो कि यहने-पहनेका क्या इन्तजाम दोगा ? तुम सल्लाहियोंके हाथकी रसोई ना मकोगी ?”

कमलाने पुण्यस्थि सुन्दर विगाइकर कहा—“मझा री, गो मुक्कड़े नहीं हो ॥

रमेश—“तो कैसे क्या होगा ?”

कमला—“क्यों, मैं नुद बता दूँगी ।”

रमेश—“तुम्हें बनाना आता है ?”

कमल हँस उठी, बोली—“तुम मुझे क्या समझते हो मालम नहीं ! रसोई बनाना नहीं आता तो क्या यों हो ! मैं क्या बच्ची हूँ ? नज़ारामें मैं हो तो बराबर बनाती थी ।”

रमेश उसी वक्त अफसोस जाहिर करके कहने लगा—“ओ-हो, ठीक तो है, तुमसे मुझे इस बारेमें पूछना ही नहीं था । तो फिर अब रसोईका रामान खुयाना चाहिए, क्यों ?” इतना कहकर रमेश चला गया, और तलाश करके लोहेकी सिंगड़ी और कोयला वगैरह जल्ही चीजें ले आया । इतना ही नहीं, साथ साथ काशी पहुँचानेका खर्च और तनखाका लालच देकर नौकरके रूपमें उमेश नामके एक कायस्थ लड़केको भी साथ लेता आया ।

रमेशने कहा—“कमला, आज क्या-क्या बनाऊँगी ?”

कमलाने कहा—“तुम्हारे पास है क्या जो क्या-क्या बनाऊँगी ! एक दाल है और चावल है, आज खिचड़ी बनेगी ।”

रमेश कमलाके कहे मुताबिक खलासियोंसे नमक-मिर्च-इल्दी वगैरह ले आया । रमेशकी अनभिज्ञतापर कमला हँस दी, बोली—“इन्हें लेकर क्या कहूँगी ? सिल-लोड़ाके बिना बट्टेगी कैसे ? तुम भी खूब हो !”

बालिकाको इस अवज्ञाका बोझ लिये रमेश सिल-लोड़ाकी खोजमें दौड़ा । सिल-लोड़ा न पाकर बेचारा खलासियोंसे लोहेका हमामदस्ता माँग लाया । हमामदस्तेमें मसाला कूटनेको कमलाको आदत नहीं थी, फिर भी उसीसे काम चलनेको तैयार हो गई । रमेशने कहा—“मसाले और-किसीसे कुटवाये लाता हूँ, तुम रहने दो ।” कमलाको यह बात पसन्द नहीं आई । उसने खुद ही उत्साहके साथ काम करना शुरू कर दिया । इस अनभ्यस्त प्रणालीकी असुविधासे उसे हँसी आने लगी । मसाला उच्छल-उच्छलकर इवर-उधर पढ़ने लगा तो उसकी हँसीका फव्वारा छूट निकला । देख-देखकर रमेश भी हँसने लगा । इस गरेके उसाला कूटनेका अध्याय समाप्त करके कमलाने कमरसे आँचल लपेटकफैलकर खोजेनेमें सिंगड़ी सुलगाकर खिचड़ी चढ़ा दी । रमेश कलकत्तासे एक्साइंथी । हँसियामें ‘सन्देश’ लाया था, उसी हँसियासे काम चल गया । खिता धूँधटकड़ी

प्रोटमेंसे जहाजको तरफ देख-देखकर अग्रना कुतूहल मिया रही थीं। औ नाविकोंके लड़के कईचो नाकवाले घमण्डो जहाजको इस दयनीय हालतपर किसे खड़े-खड़े तरह-तरहको व्यगोकि करते हुए शोर मचा रहे थे।

उम पारके जनशूल्य चरमें सूर्य अस्त हो गया। रमेश जहाजकी रेलिंग्से सहारे तुपचाप सड़ा हुआ सध्याकी आभासे चमकते हुए पश्चिम-दिग्नन्तकी ओर देस रहा था। कमला दरमासे घरी-हुई रसोईंको जगहसे निकलकर कमरें दरवाजेके पास खड़ी हो गई। रमेश जल्दी पीछेको मुँहकर देखेगा ऐसी क्षेत्र सम्भावना न देखकर उसने बीरेसे जरा राखारा; पर उससे भी कोई फल नहीं हुआ। अन्तमें चाभीके गुच्छेसे वह दरवाजा खटखटाने लगी। जब जोरी आवाज होने लगी तब रमेशने पीछेकी ओर मुँहकर देखा। कमलाको देखना उमके पास आकर बोला—“यह तुम्हारा बुलानेका क्या टग है?”

कमलाने कहा—“तो, क्से बुलाया कहूँ?”

रमेशने कहा—“क्यों, मा धापने मेरा नामकरण किस लिए किया? अगर वह काममें ही न आये? जब्तक पढ़नेपर मुझे रमेश-बाबू कहके बुलानेमें हर्ज क्या है?”

फिर वहो भजाक! कमलाके करोल और कानकी लोलकियोंपर सध्याकी आभाके माय-नाय और भी थोकी रकिम आभा आ मिली; उसने गरदन ठेंकरके कहा—“तुम कैसी थातें करते हो जिसका ठीक नहीं। सुनो, रसोई वन गई; जरा जान्दो रा लो तो अच्छा है। नम्रे तुम्हारा पेट नहीं भरा था।”

नक्कीची दृष्टिमें रमेशको भूत मालूम हो रही थी। पर, सामानकी कमोंसे कमला कहो चल न हो ठठे इगलिए उमने कुछ भी कहा नहीं था। एकमें शिन-गांगे भोजन मिलनेकी राशने उमका मन एक तरहको सुरानुभूतिसे भाव उठा; थोर दरमें एक गिरित्रता थी। उमना यह सुन सिर्फ भूत मियनेमें अनन्द समाप्तनाहा सुन हो सो चात नहीं, किन्तु उसे जब कि कुछ मालूम ही नहीं तब भी उमके लिए जो किसीमें चिन्ता जाग रही है और कोशिश नहीं है, उमके आरम्भ और तुगा-सुरियाके लिए रात ही जो किसीको ताकाये आयोग्य रख रहा है, उसने इदामें उमके गौरवको अनुभूति स्थिये बिना उमसे नहीं रहा।

गया। और यह सच है कि इस आराम और सुख-सुविधाका<sup>र</sup> उमेश, वावू नहीं, इतनी बड़ी सेवा केवल भ्रमभर ही प्रतिष्ठित है, इस चिन्ताव<sup>र</sup> आधातकी भी वह उपेक्षा न कर सका। आखिर एक गद्दरी साँस लेकर सौर मुकाये हुए वह कमरेके भीतर चला गया।

कमला उसके चेहरेका भाव देखकर आश्वर्यमें पड़ गई, बोली—“त आगा खानेकी तबीयत नहीं है क्या? भूख नहीं लगी? मैंने तुम्हें जबरदस्ती, गरोमे थोड़े ही कहा है?”

कुछ हैं ही

रमेशने तुरत प्रसन्नताका भाव दिखाते हुए कहा—“तुम्हें जब की क्या जरूरत है, मेरे पेटमें ही काफी जबरदस्ती चल रही, के बाद रमेशने गुच्छा खटखटाकर बुला तो लिया, अब लाकर कुछ दोगी—“तुम्हारा धन-रक्त चारों तरफ देखकर बोला—“कहाँ है, कुछ भी तो नहीं जोरको लगी है, पर ये चोज-वस्त तो मुझसे हजसके ऊपर जा पढ़ा, रमेश इस उसने विस्तर आदिको तरफ उगलीसे इशारा कियाहाजकी रेलिंगके सहारे खड़ा

कमला खिलखिलाकर हस पड़ो। हँसी:

सबर नहीं हो रहा है क्यों? जब आकाशको तर<sup>के</sup>-केले आदिका फलाहार किया; कहाँ थी? जब्रों हो मैंने बुलाया, तुरत याद उठ जीवन-दृष्टान्त विस्तारके साथ अच्छा, तुम एक मिनट बंठो, मैं अभी लिये आती हूँ तो तुमेश काशोमें अपनी

रमेशने कहा—“लेकिन देर मत लगाना, नहीं तो चाहूँ, आप अगर मुझे सब-कुछ हड्प कर जाऊँगा, फिर मेरा दोष-न-दना!” इन बालककी कहण

मजाककी इस पुनरुक्तिसे कमलाको कम आनन्द नहीं हुआ। उड़ाई हाँ, जोरकी हँसी आ गई। सरल हास्योच्छवाससे कमरेको मधुमय करती हुई वह जल्दीसे भोजन लाने चल दी। रमेशकी सूखी प्रसन्नताकी बनवटी दीप्ति क्षणमें कालिमामें परिणत हो गई।

थोड़ी देर बाद पत्तलसे ढकी हुई एक टोकनी लेकर कमला आ पहुँचो, और उसे विस्तरपर रखकर रमेशको बिठानेके लिए आँचलसे जमोन साफ करने लगो। रमेशने कहा—“यह क्या कर रही हो?” कमलाने कहा—“अभी तुरत कपड़े बदलूँगी।” यह कहते हुए उसने पत्तलमें उसे पूँडी और साग-

प्रीटमें से जहाजदों। रमेशने कहा—“वडे ताज्जुबकी वात है। पूँजी-माँवके लसे ?”

खडे कमलाने भेद न खोलकर गम्भीर मुँह बनाकर कहा—“अच्छा तुम घर

रमझू ?” रमेश ऐसा भाव दिखाकर कि वह खूब गहराईके साथ से सहारे बोला—“जहर तुमने खलासिथोंके यहांसे—”

देख रहमला यकायक उत्तेजित हो उठी, बोली—“हरगिज नहीं !”

दरवाजेके खाते-खाते पूँजी-सागके प्राप्ति-स्थानके विषयमें तरह-तरहको असम सम्भावना न जिक्र कर-करके कमलाको परेशान करने लगा। अन्तमें जब उसे हुआ। अन्तमें फ-लैला'के किसीसे जैसे अलादीनने बल्हचिस्तानसे गरम गरम आवाज द्वाने लगो ताइ-जाननेवाले एलचीके हाथ सौगत भेजी थी, उसी तरह उसके पास आकर बोला— रुठ गई ; बोली—“तो जाओ, मैं नहीं बताऊँगा।

कमलाने कहा—“तो, क्ते हुए कहा—“नहीं नहीं, मैं हार माने लेता हूँ

रमेशने कहा—“क्यों, इनकर तैयार हो गई, मेरे तो समझ हो मैं नहीं अगर वह काममें ही न आये ? छो लग रही है !” इतना कहकर रमेश तथ झर्ज क्या है ?” महत्त्वको जोरोंसे प्रमाणित करने लगा।

फिर वही मजाक ! कक्ष बाद कमलाने उमेशको गाँवमें भेज दिया था आभाके साथ-साथ और भीब रमेशने उसे हाथ-खर्चके लिए कुछ रुपये दिये थे करके कहा—“तुम कैर्बना रखे थे, उसोसे आज उसने घो-आटा साग-तरका गई ; जरा जल्दी खा। उमेश सामना लेकर आया तो कमलाने उससे पूछा—

— “तो, तू क्या सायेगा ?” उमेशने कहा—“वहूंजी, एक बात कहूँ, गाँवमें ए अदीरके घर बढ़ा अच्छा दही देख आया हूँ, केले हैं ही, दो-चार पैसेके चिड़ और चीनी ले आऊँ तो आज खूब पेट-भरकर फलाहार कर डालूँ ?” लालवं बालकके इस उत्साहको देखकर कमला भी उत्साहित हो उठी ; बोली—“यों कुछ बचे हैं क्या ?” उमेशने कहा—“नहीं तो !” कमला कुछ परेशानों पढ़ गई। रमेशसे वह क्येसे रुपये माने, सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उमेश बोली—“तेरे भाग्यमें आज फलाहार न जुटा तो न सही, पूँजी तो है ही, पिछर बग्रों करता है ? चल, आटा माँड़।” उमेशने कहा—“लेकिन जोजी बाई

“ऐसा बढ़िया दही था कि क्या कहूं !” कमलाने कहा—“देस उमेश, वालू जब खाने बैठें न, तब तू दही-चीनोंके लिए पैसे ले जाना ! अभी जा !”

अब, जब रमेश थोड़ा-बहुत खाचुका तब उमेश आ खड़ा हुआ, और सिर खुजाता हुआ सकोचके साथ बोला—“जोजो-बाई, दहोंके लिए पैसे—”

उमेशने आँख उठाकर उसकी ओर देखा, और तुरत उसे खयाल आगा कि रसोई बनानेके लिए पैसोंको जल्हरत पड़ती है, अलादीनके चिशगके भरोसे काम नहीं चलता । उसने कहा—“कमला, तुम्हारे पास रुपये तो कुछ हैं ही नहीं । मुझे याद क्यों नहीं दिलाई ?”

कमलाने चुपचाप कसर मजर कर लिया । खा चुकनेके बाद उमेशने कमलाके हाथमें एक छोटा-सा केश-बक्स देते हुए कहा—“तुम्हारा बन-रत्न जो-कुछ है सो इसीमें है, सम्भालकर रख दो ।”

इस तरह गृहणीका सारा भार स्वतः ही कमलाके ऊपर जा पड़ा, उमेश इस चाँतको समझ गया ; और फिर वह एक बार जहाजकी रेलिंगके सहारे खड़ा होकर पश्चिम-आकाशको ओर देखने लगा ।

उमेशने आज ‘खूब पेट भरकर’ चिउड़ा-दही-केले आदिका फलाहार किया । कमलाने उसके सामने खड़े होकर उसका सारा जीवन-वृग्नान्त विस्तारके साथ जान लिया । सौतेली माके द्वारा जासित घरमें उपेक्षित उमेश काशोंमें अपनी नानोंके पास भागा जा रहा है । उसने कहा—“जोजो-बाई, आप अगर मुझे अपने पास रखें तो मैं और कहों नहीं जाऊगा ।” मातृहीन बालककी कहण प्रार्थना सुनकर कमलाका हृदय भर आया । उसने बड़े स्नेहसे कहा—“हाँ हाँ, तू हमारे साथ चल ।”

## २५

नदो-तटकी वृक्षश्रेणीने स्याहीको मौटी-लम्बी लकीर-सी खींचकर सध्या-वधूके सुनहले आँचलपर मानो काली पाइ-सी खोंच दी है । दूर ग्रामन्तरमें दिन-भर चरकर जगली बतखोंका छुण्ड आकाशमें म्लान होतो-हुई सूर्यास्तकी दीपिमेंसे उस पारको रेतीके सुनेसान जलाशयोंमें रात बितानेके लिए चला जा रहा है । कौओंका अपने धोंसलोंमें आनेका कलरव थम चुका है । नदीमें

तब कोई नाव नहीं थी , केवल एकमात्र बड़ी डोंगी गाढ़े हरे-सुनहरे रंग के निरतरग पानीपर से अपनी कालिमा लिये-हुए चुपचाप बही जा रही थी ।

रमेश जहाजकी छतपर आगे को तरफ न बोदित शुक्लपक्षके तरुण चन्द्रमाश्च चांदनीमें बैठकी आराम-कुरसीपर बैठा था । पश्चिम-आकाशसे सध्याकी शेष स्वर्णच्छाया बिला गई । चांदनीके इन्द्रजालमें कठोर जगत् मानो विगलित हो आया । रमेश अपने-आपमें ही मृदुस्वरमें कहने लगा, “हैम, हैम !” नामम् यह शब्द अपने मधुर स्पर्शसे उसके सम्पूर्ण हृदयको बार-बार वेष्टित करता हुआ मानो उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगा , मानो वह शब्द असीम करुण-इसमें भीगे हुए दो छायामय नेत्रके रूपमें उसके चेहरेपर अपनी वेदना फैलाता हुआ उसीको तरफ देखने लगा । रमेशका सारा शरीर पुलकित हो उठा और दोनों आँखें आँसुओंसे भर आईं ।

उसके पिछले दो सालोंके जोवनका सारा इतिहास उसके मनके सामने फैल गया । हेमनलिनीके साथ प्रथम परिचयका दिन उसे याद आ गया । उम दिनको रमेश तब अपने जोवनका एक खास दिन नहीं समझ सका था । योगेन जब उसे पहले-पहल अपने घर चायकी टेबिलपर ले गया था तब वह हेमको बैठी देखकर सकोचशोल रमेशने अपनेको बड़ी आफतमें फँसा समझ था । धोरे-धोरे लज्जा जाती रही, हेमनलिनीका साथ उसके लिए अभ्यर्त-स हो गया ; और क्षमशः उस अभ्यासके बन्धनने रमेशको, बन्दी कर लिया काव्य-साहित्यमें रमेशने जो-जो प्रेमकी बातें पढ़ी थीं, सबका उसने हेमनलिनीप्रयोग करना शुरू कर दिया, अपने मनमें वह इस बातका अहङ्कार अनुभव करने लगा कि वह प्रेम करता है । उसके सहपाठों सब परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके लिए प्रेमको कविताके मानो याद करते करते भर मिट्टे हैं, और वह सचमुचका प्रेम करता है, यह सोचकर अन्य छात्रोंको उसने तब कृपापात्र समझा था । किन्तु आज रमेशने उन बातोंको याद करके देखा कि उस दिन भी वह प्रेमके बाहर दरवाजेपर ही था । और अब, जब कि कमलाने आकर उसकी जोवन-समस्याके जटिल बना दिया, तब, नना विरुद्ध घात-प्रतिघातोंमें देखते-देखते हेमनलिनीवै प्रति उसका प्रेम थाकार धारण करके, जीवन ग्रहण करके जाग्रत हो उठा ।

रमेश अपनी दोनों हथेलियोंपर सिर रखकर सोचने लगा, 'रामने सारा जीवन हो तो पढ़ा हुआ है, उसका भूखा-प्यासा जीवन, दुश्छेद्य सङ्कट-जालमें जकड़ा हुआ जीवन। इस जालको क्या वह दोनों हाथोंसे जोरसे तोड़-ताढ़कर अलग नहीं कर सकता ?' सोचते-सोचते अपने दृढ़ स्कल्पके आवेगमे उसने सदसा मुँह उठाकर देखा, पास ही एक दूसरो बैंतकी कुरसीपर हाथ रखे कमला सड़ी है। वह चौंककर बोल उठो—“तुम सो गये थे, मैंने तुम्हें जगा दिया ?”

अनुतप्त कमलाको चलो जाते देख रमेश चटसे कह उठा—“नहीं-नहीं, मैं सोया नहीं था, तुम बैठो, कमला, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो ।”

कहानीको बात सुनकर कमला पुलकित हो उठी, और कुरसी नजदीक खोंचकर बैठ गई। रमेशने तय किया था कि कमलासे सब बातें खुलासा कह देना आवश्यक है। किन्तु इतनी बड़ी जवरदस्त चोट उसे वह नहीं पहुँचा सका; इसीलिए बोला कि ‘बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ।’ रमेश कहने लगा—“उस जमानेमें एक तरहके क्षत्रिय थे, उन लोगोंमें—”

कमलाने पूछा—“किस जमानेमें ? बहुत पुराने जमानेमें ?”

रमेश बोला—“हाँ, बहुत पुरानेमें। तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था।”

कमला बोली—“तब तुम्हारा जन्म हो चुका था ! तुम क्या उस पुराने जमानेमें मौजूद थे ? हाँ, फिर ?”

रमेश कहने लगा—“उन क्षत्रियोंमें नियम था कि खुद ब्याह करने नहीं जाते थे, तलवार भेज दिया करते थे। उस तलवारके साथ कन्याका ब्याह कर दिया जाता था, और फिर, जब वह घर आ जाती थी तो फिर उससे ब्याह होता था।”

कमला—“नहीं-नहीं, ऐसा भी कही होता है !”

रमेश—“मैं भी ऐसे ब्याहको अच्छा नहीं समझता। लेकिन क्या किया जाय, जिन क्षत्रियोंको बात कह रहा हूँ, वे खुद सुसराल जाकर ब्याह करनेमें अपना अपमान समझते थे। मैं जिस राजाकी बात कह रहा हूँ, वह ऐसा ही क्षत्रिय था। एक दिन उसने—”

कमला—“तुमने यह तो बताया ही नहीं कि वह कहाँका राजा था ?”

रमेशने कहा—“मद्रदेशका राजा था । एक दिन उस राजाने—”

कमला—“राजाका नाम क्या था ?”

कमला सब बातें साफ-साफ जान लेना चाहती है, वह कुछ भी अस्तु नहीं रखना चाहती । रमेशको पहलेसे मालूम होता तो वह और-भी ज्यादा तेयारी कर रखता, किन्तु अब जब देखा कि कमलाको कहानी सुननेका आग्रह तो काफी है, पर वह कहीं भी कुछ अस्पष्ट नहीं रहने देना चाहती, तो वह जरा-कुछ सोचमें पढ़ गया ; और बोला—“राजाका नाम था रणजीतसिंह !”

कमलाने दुहराया—“रणजीतसिंह, मद्रदेशका राजा । अच्छा, फिर ?”

रमेश—“फिर, एक दिन राजाने भाटके मुँहसे सुना कि उसकी जाति भी और-एक राजा है जिसकी कन्या बहुत ही सुन्दरी है ।”

कमला—“कहाँका राजा था वो ?”

रमेश—“समझ लो, काश्मीरका राजा था ।”

कमला—“समझ क्यों लूँ । तो क्या वो काश्मीरका राजा नहीं था ?”

रमेश—“काश्मीरका ही राजा था । तुम उसका नाम जानना चाहती हो । उसका नाम था अमरसिंह ।”

कमला—“उस लड़कीका नाम तो बताया ही नहों ?”

रमेश—“हाँ हाँ, भूल गया । लड़कीका नाम, लड़कीका नाम, हाँ, उसका नाम था चन्द्रा ।”

कमला—“वहे ताज्जुबको बात है, तुम ऐसे भूल जाते हो । तुम तो मेरा ही नाम भूल गये थे ।”

रमेश—“कोशलके राजाने भाटके मुँहसे सुना कि—,”

कमला—“अब कोशलका राजा कहाँसे था गया ? तुमने तो कहा था मद्रदेशका राजा ?”

रमेश—“वह क्या एक ही जगहका राजा था ? कोशलका भी था और सद्रदेशका भी ।”

कमला—“दोनों राज्य पास-ही-पास होंगे ?”

रमेश—“दोनों राज्य बिलकुल सटे हुए थे ।”

इस तरह बार-बार गलती करते हुए और सावधान कमलाके प्रश्नोंको ज्ञायतासे उन गलतियोंका सुधार करते हुए रमेशने किसी तरह किस्सा जमा लेया ।—“मद्रके राजा रणजीतसिंहने काज्चीके राजाके पास दृतके मारफत प्रस्ताव आजा कि वे उनको कन्याके साथ व्याह करना चाहते हैं । काज्चीके राजा आमर उहने बड़ी खुशीसे उनके प्रस्तावको मान लिया । तब फिर रणजीतसिंहके छोटे आई इन्द्रजीतसिंह सेना लेकर झण्डा फहराते हुए गाजे वाजेके साथ काज्चीकी जगानीमें पहुँचे, और वहाँ तम्बू गाड़ दिये । काज्चीनगरमें उत्सवकी धूम च गई । राजाके ज्योतिषियोंने शुभ-मुहूरत निकालकर व्याहका दिन तय र दिया । कृष्णा द्वादशीकी रातको ढाई बजे लग्नका समय था । रातको आरके घर-घरमें फूलोंकी मालाएँ लटकाई गईं और रोशनी की गईं । रातको जकुमारी चन्द्रका व्याह होगा ।

“किन्तु चन्द्राको यह नहीं मालूम हुआ कि किसके साथ उसका व्याह गा । उसके जन्मके समय परमहस परमानन्द स्वामीने राजासे कहा था कि महारी कन्यापर अशुभ ग्रहकी दृष्टि है, विवाहके समय इस कन्याको वरका नाम ही मालूम होना चाहिए ।” इसके बाद, यथासमय तलवारके साथ राजकुमारीका हो गया । इन्द्रजीतसिंहने वहुमूल्य भैंट नजर करते हुए अपनी भौजाईंको आम किया । मद्राज्यमे रणजीत और इन्द्रजीत दोनों भाई ऐसे थे जैसे वे और लक्ष्मण । इन्द्रजीतने आर्या चन्द्राके धूंघटसे ढके सलज चेहरेकी फ नहीं देखा, सिर्फ उनके नूपुर वेष्टित सुकुमार चरणोंकी मेहदीकी रेखामात्र थी थी । हाँ तो, फिर व्याहके दूसरे ही दिन ज्योतियोंकी झालरसे सुशोभित आपर विठाकर वहूको लेकर इन्द्रजीत अपने देशकी तरफ रवाना हुए । अशुभ की बात याद करके काज्चीके राजाने शक्ति हृदयसे अपनी कन्याके मस्तकपर ज्ञा हाथ रखकर आशोर्वाद दिया, और माताने कन्याका मुँह चूमकर आँसू थे । देव-मन्दिरोंमें हजारों ब्राह्मणोंने स्वस्त्रयन करना शुरू कर दिया ।

“काज्चीसे मद्र बहुत दूर था, करीब एक महीनेका रास्ता समझो । दूसरी को वेतसा नदोंके किनारे पढ़ाव पढ़ा । इन्द्रजीत अपनी सारी सेनाके साथ किंभाराम करनेकी तैयारी कर रहे थे तब अचानक देखा गया कि जगलमें

मशालें जल रही हैं ! इन्द्रजीतने पता लगानेके लिए तुरत सेना भेज दी। सेनिकोंने आकर कहा कि 'वह भी एक बारात है ; और वे भी अबदाताश्च जातिके क्षत्रिय हैं। रास्तेमें तरह-तरहके विघ्नोंकी सम्भावना है, इर्द्दि-अबदातासे यह प्रार्थना है कि कुछ दूर तक उन्हें अपनी शरणमें रखें ।' कुमार इन्द्रजीतने कहा कि 'जरणार्थीको शरण देना हमारा धर्म है । जतनके साथ उन्हें यहाँ ले आओ ।' इस तरह दोनों बारातें एक जगह हो गईं ।

"तीसरी रातको अमावस थी । सामने छोटे-छोटे पहाड़ थे, और पांच घोर जगल । थकी हुई सेना मौगुरोंकी मृतकार और पासके मरनेकी आवाज़ सुनते-सुनते गहरी नींदमें सो गई ।

"इतनेमें अचानक शोर मचा ; और सब जग गये । देखा कि मढ़ राज्ञि घोड़े उन्मत्त होकर इधरसे उधर दौड़ रहे हैं । मालूम नहीं किसने उन्हें रस्सियाँ काट दी हैं, और, तम्हीरोंमें आग लगा दी है, जिसके उजाले अमावसकी रात लाल हो उठी है । सब समझ गये कि ढाकुओंका काम है तुरत लड़ाई छिड़ गई, चारों नरफ मार-काट शुरू हो गई । अधेरेमें शत्रु निपहचानना मुश्किल हो गया । ढाकुओंने खूब लूटा-लाटा ; और थींडो देंस सब पहाड़-जगलमें छिप गये ।

"लड़ाई खतम होनेके बाद देखा गया कि राजकुमारी गायथ हैं । दर्द मारे वे तम्भूमेंसे निकल पड़ी थीं, और भागते-हुए कुछ लोगोंको अपने पक्षमें समझकर उन्होंके साथ हो लो थीं । असलमें वे थे दूसरी बारातके लोग उनकी बहूको ढाकू लोग उठा ले गये थे । पर उन्होंने राजकुमारीको ही अपने बहू समझा, और उन्हें वे अपने भाथ ले गये । वे गरीब शर्तवाची कलिङ्गमें समुद्रके किनारे रहते थे । वहाँ दूसरे वरसे राजकुमारीका मिर हुआ । वरका नाम था चेतसिह ।

"चेतसिहकी माने आकर बहूका वरण किया । आत्मीय-स्वजनोंने अपने कहा, 'अहा, वह तो बहुत हो सुन्दर है ।' सुन्न चेतसिह नववधूको कन्याणल्ल गममकर मन-ही-मन उसकी पूजा करने लगा । राजकन्या भी सर्ते मर्गदा समझती थी, उसने चेतसिहको अपना पति जानकर उन्होंने

अपना सर्वस्व अपेण कर दिया । राजकुमारीकी लज्जा दूर होनेमें कुछ समय लगा । जब लज्जा दूर हुई तब चेतसिंहको पता चला कि जिसे वह अपनी वहूं समझकर घर लाया है वह राजकुमारी चन्द्रा है ।"

## २६

कमलाने अत्यन्त आश्रहके साथ पूछा—“फिर ?”

रमेशने कहा—“वस इतना ही मुझे मालूम है, फिर क्या हुआ सो नहीं मालूम । अच्छा तुम ही बताओ, फिर क्या हुआ होगा ?”

कमला—“नहीं-नहीं, सो नहीं होनेका, फिर क्या हुआ सो बताओ ?”

रमेश—“सच कहता हूं, जिस किताबमें मैंने यह कहानी पढ़ी थी, वह अभी तक पूरी नहीं छपी है, आखिरके अध्याय कव निकलेंगे, पता नहीं ।”

कमला बहुत ही नाराज हुई, बोली—“जाओ, तुम बड़े बैसे हो । अधूरी कहानी सुनाकर अब कहते हो कि मालूम नहीं । सब तुम्हारी चालाकी है ।”

रमेश—“अरे तो मुझसे नाराज क्यों होती हो, जिसने किताब लिखी है उसपर नाराज होओ । तुमसे मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, चन्द्राको लेकर चेतसिंह अदृ क्या करेगा ?”

सुनकर कमला नदीके किनारेकी ओर देखतो हुई न-जाने क्या क्या सोचने गूँगे कबहुत देर बाद बोली—“मुझे नहीं मालूम वह क्या करेगा । मेरी कुठेर-धीरमें ही नहीं आता ।”

बाला कुछ देर चुप रहकर बोला—“चेतसिंह क्या चन्द्रासे सब बात कह देगा ?”

कमलाने कहा—“तुम भी खूब हो । कहेगा नहीं तो क्या सब गङ्गवड़ीमें जाल राया ? ऐसा करना तो बहुत दुरी बात है । सब बातोंका खुलासा तो नहीं लगा चाहिए ।”

यन्त्रकी तरह बोल उठा—“हाँ, खुलासा तो होना ही चाहिए ।”

कमलाने कुछ देर चुप रहकर बोला—“अच्छा कमल, अगर—”

बाला—“अगर क्या ?”

रमेश—“मान लो, मैं अगर चेतसिंह होऊँ, और तुम चन्द्रा होओ—  
कमला कह उठी—“तुम ऐसी बात मुझे न कहो। सच कहती  
मुझे अच्छा नहों लगता।”

रमेश—“नहीं, तुम्हें बताना हो होगा। ऐसा होता तो मुझे  
करना चाहिए था, और तुम क्या करतीं?”

कमला इम बातका कुछ जवाब न देकर जल्दीसे कुरसी छोड़कर चली ग  
देखा कि उमेश उसके कमरेके बाहर चुपचाप बैठा हुआ नदीको तरफ देख  
है। कमलाने पूछा—“उमेश, तूने कभी भूत देखा है?”

उमेशने कहा—“देखा है जोजो-बाई।”

मुनक्कर कमला एक मोदा स्त्रीचक्र उसके पास बैठ गई। बोलो—“  
भूत देखा है बता?”

कमला नाराज होकर उठके चली गई तो रमेशने उसे फिर नहीं बुला  
चन्द्रमा उसको अखिंचिके सामने धने जगलके पीछे छिप गया। डेकफी वा  
युनाकर सारेन और खलासी लोग तब नीचे चले गये थे, और या-पीकर सो  
तश्शारी कर रहे थे। पहलेन्दूसरे दरजेमें और-कोई यात्री नहीं था। तं  
दरजेने अविकांश यात्रों रसोईको व्यवस्था करने जहाजसे उत्तरकेर-किनारे  
गये थे। नदीके किनारे अन्धकाराच्छन्न पेहोंको सँधमेंसे पासने यह  
बतिरीं चमक रही थी। भरो-हुई नदीको तेज धारा लगरकी पा  
हिला रही थी, और नदीकी फूली हुई नालीके कम्पनसे जहाज रह-रह ले  
रहा था। इम अस्थ विपुलता, अन्धकारको निविदता और अपरिचित अ  
निगाल अपूर्तमाने गरक होकर रमेश अपने कर्तव्यकी समस्याको हलना  
करेगा कर रहा था। रमेश समझ गया कि हेमनलिनी या कमला कि  
एकओ उसे छोड़ना दी पढ़ेगा। दोनोंकी रक्षा करते-हुए किसी मध्य  
चलना अब सम्भव नहीं। एक हिसायसे देखा जाय तो हेमनलिन  
फिर भी आध्र है; हालांकि अमीं तक हेमनलिनी उसे भूल न  
किए भी वह और-किसीसे बगाह कर सकती है; लेकिन कमलाको  
इम जीपनमें उपरे लिए और कोई भी आध्र नहीं।

मनुष्यकी स्वर्थपरताका कोई अन्त नहीं। हेमनलिनीके लिए रमेशको भूतनेकी समझावना है, उसके लिए दूसरा आश्रय है, और ऐसा भी नहीं कि वह एकमात्र रमेशपर ही निर्भर हो, यह सब सोचते हुए भी रमेशको कोई सान्त्वना नहीं मिली, बल्कि उसके आग्रहकी अवीरता दूनी बढ़ गई। जैसे ऐसा मालूम हुआ मानो हेमनलिनी उसके हाथसे छूटकर हमेशा के लिए उसके अविकारके बाहर चली जा रही हो, अब भी वह अगर हाथ बढ़ावे तो वह पकड़ाई दे सकती है। दोनों हथेलियोंपर सिर रखकर वह सोचने लगा, इन जगलमें सियार बोल उठे, गाँवके दो-एक असहिणु कुत्ते भोंक-भोंककर उत्तराविरोध करने लगे। रमेशने सुँह उठाया, और देखा कि कमला सुनसान अधकारमें डेककी रेलिंगके सहारे चुपचाप खड़ी है। रमेश कुरसी छोड़कर उठा; - और उसके पास जाकर बोला—“कमल, तुम अभी तक सोई नहीं ! काफी रात हो चुकी है।”

कमलाने कहा—“तुम सोने नहीं चलोगे ?”

रमेशने कहा—“बस अब मैं भी सोता हूँ। बगलके कमरेमें मेरे विस्तर ही चुके हैं। तुम अब देर न करो, सोओ जाकर।”

कमला और कुछ न कहकर अपने कमरेमें चली गई। रमेशसे वह इतना भी न कह सको कि अभी-अभी उसने भूतका किसासुना है; और सुनसान गंग कमरेमें अकेली वह कैसे सोयेगी। इच्छाके विस्तर कमलाको बहुत छोर-धीरे जाते देख रमेशके हृदयको गहरी चौट पहुँची, उसने कहा—‘डरनेकी बात नहीं कमल, बगलके कमरेमें तो मैं हूँ ही, और बीचका दरवाजा भी रहेगा ही।’

कमलाने अभिमानसे सिर ऊँचा करते हुए कहा—“मैं डरती थोड़े ही हूँ।”

रमेश ने कमरेमें जाकर बत्ती बुझाके सो गया। मन-ही-मन बोला, शको छोड़िवा का कोई रास्ता ही नहीं, लिहाजा हेमनलिनीसे विदा ! आज हुआ, अब दुविधा करनेसे काम नहीं चलेगा। किन्तु ‘हेमनलिनीसे आतको ने के जीवनकी कितनी बड़ी विदा है इस बातको वह अँवरेमें पढ़ा-पढ़ा कि इके साथ महसूस करने लगा। फिर उससे विस्तरपर पढ़ा नहीं रहा

गया ; उठके बाहर चल दिया । निशोयके अन्धकारमें एक बार उसने खुद किया कि उसीकी लज्जा, उसीकी वेदना अनन्त देश और अनन्त कर्त्ता घेरे हुए नहीं है । चिरकालका ज्योतिलोक भी सारे आकाशको घेरे हुए सज्ज है, रमेशका क्षुद्र इतिहास उसे छू भी नहीं सका है । कवारको यह नदी जनहै रेतीपरसे इसी तरह अनन्तकाल तक नक्षत्रालोकित रजनीमें सोते-हुए गाँवों पाससे बहती ही रहेगो, जब कि रमेशके सम्पूर्ण जीवनके समस्त धिन चिरधैर्यमयी धरणीपर इमशानको मुट्ठी भर भस्ममें इमेशाके लिए सो जायेगे ।

## २७

दूसरे दिन कमलाको जब आँख खुली तब पो कठ चुकी थी । चारों तरफ देखा तो कमरेमें कोई नहीं था । फिर खयाल आया कि वह जहाजमें है भीरसे उठकर उसने जरा-सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा, नदीके निस्तब्ध पर पर सूख शुभ्र कुहरा छाया हुआ है, अंधेरा ललाइ-लिये पीला होता जा रहा है और सामने पूरबकी तरफ पेंडोंकी कतारके पीछे आकाशमें सुनहरी छटा खिल लगे हैं । देखते-देखते नदीकी पाण्डुर नीलों धारा मछली-मार डोगियाँ सफेद पालोंसे पट गईं ।

कमला बहुत सोचती है, पर यह बात किसी भी तरह उसको समझनहीं आ रही कि क्यों उसके मनमें गूढ़ वेदना-सी उठ रही है, क्यों रहनहरन भीतरसे एक हृक सी उठनी है ? गरदहुतुकी शिशिरका दुष्टा ओदे जो उसके सामने अपना रहस्य टट्टाटित कर रही है उससे उसके भीतरका आनंद क्यों नहीं इदाइत हो रहा ? आँसुओंका आवेग बालिकाको द्यातीके भौंकनि निकलकर आँखेमें अनेके लिए इस तरह व्याकुल क्यों हो रहा है ? उसके नहीं, मायु नहीं, कोई गायिन नहीं, स्वजन-परिजन कोई भी है ; जो यह रही है ? आज क्यों वह सोच रही है कि असेला रमेश ही उसका विजयन ही नहीं है ? आज क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि यह विश्व-मसार अद्यन्त दूर और यह अनन्त कुद्र ?

कमला बहुत देर तक दरवाजा पकड़े चुपचाप खड़ी रही। नदीका तरल स्वर्णस्रोतकी तरह जलने लगा। खलासी अपने कामसे लग गये, इज्जनने धकधक करना शुरू कर दिया है, लगर उठाने और जहाज हटाये जानेकी आवाज सुनकर असमयमें जगे-हुए लड़कोंका झुण्ड नदीके किनारे दौड़ा आ रहा है।

इतनेमें, शोरगुल सुनकर, रमेशकी आँख खुल गई, और वह कमलाकी खबर सुव लेने दरवाजेके पास आ खड़ा हुआ। कमला चौक पड़ी, और आँचल यथास्थान रहनेपर भी उसे खोंचकर मानो उसने अपनेको अच्छी तरह सम्हाल लिया। रमेशने कहा—“कमला, तुम मुँह-हाथ धो चुको?”

चटसे कमलाको गुस्सा आ गया। उससे अगर पूछा जाता कि इस सवाल पर नाराज होनेकी कौनसी बात है, तो वह कुछ बता नहीं सकती थी, फिर भी उसने नाराज होकर मुँह फेर लिया, और सिर हिलाकर जता दिया कि ‘अभी कुछ नहीं किया।’ रमेशने कहा—“दिन चढ़नेपर लोगोंको भीड़ हो जायगी, जल्दी निवट लो।”

कमला कोई जवाब न देकर अपने कपड़े लेकर रमेशके बगलसे नद्दान-घरमें चलो गई। सवेरे ही उठकर रमेश जो कमलाकी खबर-सुध लेने आया, कमलाने उसे केवल अनावश्यक ही नहीं समझा, बल्कि इससे उसने अपना अपमान समझा। रमेशको आत्मोयताको सीमा कुछ ही दूर तक है, और, एक जगह आकर वह रुक जाती है, इस बातको कमला सहसा समझ गई। सुसराल में किसी बड़ी चूदीने उसे शरम करना नहीं सिखाया, इस बातकी भी उसे जानकारी नहीं कि किस समय कितना धूँधट खोंचना चाहिए, किन्तु फिर भी रमेशके सामने आते ही आज क्यों वह मारे शरमके बिना-कारण इस तरह ‘सकुचित हो उठी?

॥१॥ नदा-निवटकर कमला जब अपने कमरेमें आकर बैठी तो दिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। आँचलमें बैधे चाँच्योंदी, नहीं उसने टूँक खोला तो उसमें छोटे-से केश-वक्सपर उसकी किंचक्स पानेके बाद कमला एक तरहका गौरव अनुभव त्री; बोला—

“कम्पतीका कानून नहीं है, बाबू साहब !” इतनेमें कमला भी आ पहुँच चौड़ी—“उसे कमे छोड़ दे ! जरा रोक दो । बचा है बेचारा !”

तब उमेशने कानून भज्ज करानेका आसान तरीका अस्तित्यार किया इनामका भरोसा पाकर सारेनने जहाज रोककर किसी तरह उमेशको चढ़ा निय और उसे काफी डाटा-फटकारा । पर उमेशने उसको जरा भी परवाह न की ; वह कमलाके पांचोंके पास टोकनी रखकर ऐसे हँसने लगा जैसे उ हुआ ही नहीं । कमलाका क्षोभ अभी तक दूर नहीं हुआ था । उसने कहा—“ओर-फिर हँस रहा है ! जहाज अगर नहीं ठहरता, तो तेरी क्या दशा होती ?”

उमेशने उसको बातका कुछ जबाब न देकर टोकनीका सामान दिखाना शुरू कर दिया । कच्चे केले, कई तरहके शाक, कुँहड़ा, बैंगन आदि नानाप्रकारी सब्जी देखकर कमलाने पूछा —“इतना-सब कहाँसे ले आया रे ?”

उमेशने सप्रहका जो इतिहास सुनाया, वह करई सन्तोषजनक नहीं । उन चाजासे दहो बगैर ह लाते समय रास्तेमें उसने गृहस्थोंके घरके आगे और खेतोंमें जो भोज्य पदार्थ देखे थे, आज तइके ही उठकर वह उन्हें सग्रह कर लाया है । इसके लिए किसीसे पूछने-गछनेकी उसने जहरत ही नहीं समझी । सुनसरमें बहुत ही नाराज हुआ, बोला—“दूसरोंकी चीज तू बिना-कहे नुहाँ-न्स्यो लाया ?”

उमेशने कहा—“चुराकर थोड़े ही लाया हूँ । खेतोंमें बहुत था, खोजना ले आया हूँ, इससे कुछ उनका नुकसान थोड़े ही हुआ है ।”

उमेश—“थोड़ा-सा लानेसे चोरी नहीं होती, क्यों ? नालायक कहोका ! जा, ले जा मेरे सामनेसे, जा !”

उमेशने कहण नेत्रोंसे एक बार कमलाके मुँहझी ओर देखकर कहा—“जोजी-चांडे, इसकी भुजिया बड़ी उमदा बनती है । और उसका—”

उमेश और-भी जागज हो उठा, बोला—“चल हठ यहाँसे, ले जा राम नहीं तो उठाके फेंक दूँगा नव पानीमें ।”

इस गम्भीरमें यत्क्षय-निरपेक्षके लिए वह कमलाके मुँहझी तरफ देखना लगा । समझने उशारेसे उसे चले जानेके लिए कहा । उम इशारेमें कहा

मिश्रित छिपी-हुई प्रसन्नता देखकर उमेशने सब उठाकर टौँड़नोमें रख लिया और धीरे-से वहाँसे चलता बना। रमेशने कहा—“यह यही बेजा बात है। लड़केको तुम ज्यादा मुँह नहीं लगाना, शह पाकर और भी विगड़ जायगा।”

रमेश चिट्ठो-पत्री लिखनेके लिए अपने कसरामें चला गया। कमलाने झाँककर देखा, दूसरे दरजेका डेक पार करके पीछेकी तरफ, उहाँ रमोईके लिए जगह बनाई गई थी, वहाँ जाकर उमेश चुपचाप बैठा है। दूसरे दरजेमें और कोई यात्री नहीं था। कमला चादर ओढ़कर उसके पास पहुँची; और बोली—“सब केक-फॉक दिया क्या रे?”

उमेशने कहा—“फेंकने क्यों लगा? सब भीतर रख दिया है।”

कमलाने ऊपरो गुस्सा दिखानेकी कोशिश करते हुए कहा—“लेकिन तूने बहुत बेजा काम किया है। अब कभी ऐसा काम नहीं करना! समझ ले, जहाँ अगर चला जाता तो?”—इनना कहकर वह भीतर चली गई; और वहाँसे डाटती हुई बोली—“जा, हँसिया ले आ जात्दो!”

उमेशने हँसिया ला दिया। कमला जल्दी-जल्दी साग बघारने लगी। उमेश बीच ही में बोल उठा—“जीजी-बाई, इसमें हरी मिर्च और राई-मेथीका बघार देनेसे ऐसा स्वाद आयेगा कि खानेवाले उँगलियाँ चाटते रह जायेंगे।”

कमलाने गुस्सेके स्वरमें कहा—“अच्छा अच्छा! लाया हो तो बट दे जल्दी!” इस तरह, कमला उमेश जिससे मुँह न लगने पाये इसकी कोशिश करती रही। और गम्भीर मुँह बनाकर रसोई बनानेमें लग गई। लेकिन हाय, घरसे निकले-हुए इस अनाथ लड़केको वह कसे मुँह न लगाये? सच्ची चुरानेका कसूर कितना बड़ा है, कमला ठेक नहीं समझती, किन्तु निश्चय बच्चेकी आश्रय पानेकी लालसा कितनी जवरदस्त है इतना वह समझती है। बैचारा उसे खुश करनेके लिए, कल ही से इस धुनमें था कि कब मौका मिले और कब ये सब चीजें अपनो 'जीजो-बाई'को लाकर दे। और थोड़ी देर ही जाती तो बैचारा यहाँ रह जता न! फिर उसको क्या दशा होती! सोचते सोचते कमलाका हृदय भर आया। उसने कहा—“उमेश, तेरे लिए कलका दही पड़ा है, आज तुझे ही खिलाऊंगो। लेकिन देख, अब कभी ऐसा मत

करना !” उमेशने अत्यन्त दुःखित होकर कहा—“अब कभी नहीं करूँगा। कल का वही रखता हुआ है, तुमने नहीं खाया ?” कमलने कहा—“तेरी तर में दहीकी लालचिन नहीं ! और क्यों रे, मछलीका खया हुआ ? यिन मछलीं बाबू खायेंगे कैसे ?” उमेशने कहा—“मछली तो विना पैसेके नहीं मिलेगी जीजी-बाई !” कमलने फिर उसपर शासन करनेकी कोशिश की ; बोली—“उमेश, तेरे जैवा मूरत तो मैंने कहीं नहीं देखा ! मैंने तुझसे कब कहा कि पैसे दिना दिये ही तू चीज लाया कर ?”

कलसे, माझ्यम नहीं कैसे, उमेशने समझ लिया है कि कमलके लिए रमेशव रुग्या वसूल करना आसान नहीं। इसके मिवा एक बात और है ; उसे रमेश अत्था नहीं लगता। इसीलिए कलसे वह मन हो-मन ऐसी तरकीबें सोच रहा था कि रमेशकी मददके विना हो कैसे सब जहरतोंको पूरा किया जा सकता है। साग-मट्जीके बारेमें तो एक तरहसे वह निरिचन्त था, पर मछलीके विषयमें अब तक कोई तरकीब उसके दिमागमें नहीं आ रही है। सासारमें निर्खार्य भक्तिके जोरसे दही और मछली जैसी मामूली चीज भी नहीं मिल सकता, उसके लिए पैसे चाहिए।

कमलाका भक्त, बालक उमेश, समझ गया कि दुनियामें आसानी कम और परेशानी ही ज्यादा है। उसने दर्शे हुए कहा—“जीजी-बाई, अगर बाबूजीमें चर-पांच आने पैसे दिलवा दो तो मैं अभी ला सकता हूँ।” कमलने टक्किन होकर कहा—“नहीं नहीं, तुझे मैं अब जहाजमें नहीं उतरने दूँगी। अब भी बार अगर तू लूट गया तो फिर कोई नहीं चढ़ानेगा।” उमेशने कहा—“तेरे में क्यों उतरने लगा ? आज सवेरे गलामियोंके जालमें बढ़ी-घड़ी मर्छाएँ फैनो हैं, उनमेंसे ते एकआध बेच भी सकते हैं।” सुनकर कमलने एक रुग्य तिकाटक उमेशके हाथमें डेते हुए कहा—“जा, जो भी लगे, जब्दीमें ले ला !”

उमेश मछली ले आया, पर पैसे युठ भी नापम नहीं लाया, बोल—“एक रुग्यधे धमनें दी ही नहीं !” बान नच नहीं थी, कमला नमझ गई ; उसने दैनंदिन हुए कहा—“अब दो घर जहाज ठहरनेपर एकआध रुपया भुनाफ़र रमना

"होगा।" उमेशने गम्भीर मुँह बनाकर कहा—“हाँ। पूर्ण कि वह उमकी दिनेसे पैसे वापस आना मुश्किल हो जाता है।” । ऑडेरमें

भोजन करते हुए रमेशने कहा—“रसोई तो आज बड़ी उमदा अबन पर ये सब चीजें आई कहाँसे? और यह मछली।”—मछलीका बना उठाकर गौरसे देखते हुए कहने लगा—“वाह, यह तो स्वप्न नहीं, माया नहीं, मतिभ्रम भी नहीं, साक्षात् रोहित-मत्स्यका मस्तक है।” इस तरह उम डिनका मध्याह्न-भोजन बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुआ। उसके बाद रमेश टेक्को आरामकुरसीपर लेटकर निश्चिन्त मनसे पाचन-क्रिया सम्पादन करने लगा। और उधर कमला उमेशको खिलाने लगा। मछलीको भाजी उमेशको इतनी अच्छी लगी कि भोजनका उत्साह कौतुकप्रद न होकर कमशः आशङ्काजनक हो उठा। कटकण्ठि होकर कमला ने कहा—“अब रहने दे उमेश! तेरे लिए थोड़ी-सो रब्खे देती हूँ, रातको खाना।” इस तरह दिनके काम-काज और हँसी-मजाकमे कमलाका सवेरेका हृदयका भार कब उतर गया, उसे मालूम भी नहीं पढ़ा।

कमशः दिन खत्म हो चला। अस्तोन्सुख सूरजकी सुनहली धूप तिरछो और लम्बी होकर, जहाजको छतपर फैलकर चमकने लगा। नदीके दानो तटोंपर शरदकृतुके हरे-भरे खेतोंमें होकर ग्राम्य रमणियाँ काँखमें घडे लिये जा-आ रही हैं।

कमलाने पान लगाकर रख दिये, जूँड़ा बाँवा, हाथ-मुह धोकर कपड़े बदले और रातके लिए बिस्तर किये। इतनेमें सूरज ढूँब गया। जहाज लगर टालकर स्टेशन-घाटपर ठहर गया। आज कमलाको रातही रसोईका ज्यादा काम नहीं करना। सवेरेकी तरकारियाँ इस बक्त काम आजायेंगी।

रातके खानेके बारेमें वह सोच ही रही थी कि इतनेमें रमेशने आकर कहा—“दोपहरको आज बहुत खा गया। अब रातको कुछ नहीं खाऊँगा।” कमलाने उदास होकर कहा—“कुछ नहीं खाओगे। मछलीकी भाजीसे पूँडियाँ खा लेना दो-चार, सेके देतो हूँ?”

रमेशने सक्षेपमें जवाब दिया—“नहीं रहने दो।” और चला गया।

रातको कमलाने जो-कुछ तरकारी बगैरह बची थी, सब उमेशकी पत्तलमें

करना !” उमेशने कहा—“तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा ?” कमल क्लास ठटी रखा चुकी।” इस तरह कमलाको नदीमें बहती हुई छोयी में दहीकी एक दिनका सारा काम सम्पन्न हो गया।

बाबू स्कूल और स्थल चारों तरफ चाँदनी छिटक रही है। किनारेपर कोई गंजीर्ह है; वाजके खेतोंकी घनी कोमल सुविस्तृत हरी-भरी जनशृन्यतापर निशां शुभ्र रात्रि विरहिणीको तरह जाग रही है। सामने ही घाटपर टीनसे पह्ये छोटी-सी कोठरीमें जहाज-कम्पनीका दफतर है। उसमें बैठा हुआ एक आमी आपना काम कर रहा है, टेबिलपर मिट्टीके तेलकी छोटी-सी बत्ती जल रही है।

गुले हुए दरवाजेमेंसे रमेश उसकी तरफ देख रहा था। एक लघू सौंप छोड़कर रमेश मन-ही-मन कहने लगा, ‘काश, इस आभागे टिकट-बाबूकी तरह मेरा भाग्य भी अगर मुझे एक सद्गीर्ण किन्तु सुस्पष्ट जीवनयात्रामें बन देता ! मैं भी हिसाब लिखा करता, टिकट बाटिता, काममें गफलत करनेश अफसरकी युड़की सहता, काम पूरा करके रातको घर जाता, तो मैं जी जाता !’ मुझ दैर बाद आगिस्ती बत्ती बुझ गई। टिकट-बाबू ताला बन्द करके अपने घर चला गया।

कमला बहुत देरसे रेलिंगके सहारे चुपचाप रही थी, रमेशको मल्टूम ही नहीं। कमलने समझा था, आमको रमेश उसे बुला लेगा। इसीलिए कम काज कर चुन्नेके बाद जब देता कि रमेशने उसकी कोई न्यवर ही नहीं ली, तो वह चुटकी बीरे-बीरे जहाजकी छतपर आ गई। किन्तु उसे सही छिटकार ठहर जाना पढ़ा। वह रमेशके पास नहीं जा सकी। रमेशके चेहरेर चौड़ी पह रही थी ; देराकर कमलाको ऐसा लगा मानो वह चेहरा उससे दूर, यून दूर है। कमलाके साथ टमझा कोई भी गम्भन्य नहीं। खान-मगर रमेश लौर उन मग्नो-पिंडोंना बलिकाके बीचमें मानो एक विराट चाँप चौदोनीस उत्तरा दुरद्वा बोड़े आपने ओटोपर उँगली रखे चुपचाप रही पढ़ा, दे रही ही।

रमेशने जब अपने दोनों हाथोंपे सुंदर टक्कर आपने पको हुई बैतड़ी देखिसार लिर रखा, तब कमल धीरेसे आपने कमरेकी तरफ चल दी। जग

भी आवाज नहीं होने दी, इसलिए कि रमेशको मालूम न हो कि वह उसकी खोजमें आई थी। चल तो दी, किन्तु उसका कमरा जो सूना है! अँधेरेमें घुमनेमें उसकी छाती काँप उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ जसे उसे सबन छोड़ दिया है, और वह बिलकुल हो अकेली है। जहाजका लकड़ीका बना कमरा उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे वह कोई अपरिचित निष्ठुर जन्तु हो, और उसे अपने अँधेरे-पेटमें लोल जानेके लिए मुँह फाढ़े खड़ा हो। अब वह कहाँ जाय? कहाँ किस जगह अपनी छोटी-सो देहको सुलाकर वह आँख मोचके कह सकतो है कि 'यह मेरी अपनी जगह है?'

कमरेमें झाँककर तुरत फिर वह वापस लौट आई। लौटते बक्क दरवाजेगर लुकती हुई रमेशको छतरी नीचे गिर पड़ो। आवाज सुनते ही रमेश चौंक पड़ा; और कुरसो छोड़कर उठ खड़ा हुआ। देखा कि कमला उसके कमरेके सामने खड़ी है। बोला—“कमला! मैंने सोचा था अब तक तुम सो गई होगी। तुम्हें डर लगता है क्या? अच्छा, अब मैं बाहर नहीं बैठूँगा। मैं बगलके कमरेमें हूँ, बीचका दरवाजा खुला रहेगा, डरनेकी कोई बात नहीं।”

कमलाने उद्धतस्वरमें जवाब दिया—“डर मुझे नहीं लगता!” इतना कहकर तेजीके साथ वह अँधेरे कमरेमें घुस गई; और रमेशके कमरेका बीचवाला दरवाजा, जिसे उसने खुला रखनेके लिए कहा था, बन्द कर दिया। और-फिर, विस्तरपर जाकर, ऊपरसे नीचे तक चादर ओढ़कर, वह ऐसे पढ़ रही जैसे सासारमें और-किसीका कोई सहाग न पाकर अपने-आपमें अपनेको लपेटकर सान्त्वना हूँढ़ रही हो। उसका सम्पूर्ण हृदय विद्रोही हो उठा। जहाँ सदारा भी नहीं और स्वाधीनता भी नहीं, वही कोई कैमे जी सकता है?

रात कटना ही नहीं चाहती। बगलके कमरेमें रमेश अब तक सो गया होगा। कमलासे विस्तरपर पढ़ा नहीं रहा गया। वह उठ बैठी, और बाहर जाकर रेलिंगके सहारे खड़ी होकर किनारेकी तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सज्जाटा है। चाँद पश्चिम-आकाशमें ढूबा जा रहा है। खेतोंके बी-मेंसे जो पतली-सी सङ्क गई है, उसकी तरफ दूर तक देखती हुई वह सोने लगी, ‘इस रास्तेसे न-जाने कितनी स्त्रियाँ रोज

पानीके घड़े भर-भरके अपने-अपने घरको जाती हैं ।' घर ! 'घर' का सरः आते हो उसके प्राण छातीसे वाहर निकलनेके लिए फड़फड़ा उठे । जारु घर , पर वह घर है कहाँ ? सुनसान नदी-तट निस्तब्ध है, विशाल आकृ दिग्नंतसे दिग्नंत तक निस्तब्ध है । अनावश्यक है यह आकाश, अनावश्यक है यह ससार, छोटो-सो बालिकाके लिए यह अन्तहीन विशालता बिलकुल अनावश्यक है । उसे तो सिर्फ एक छोटे-से घरकी ज़रूरत है, और सब उसे लिए अनावश्यक है, व्यर्थ है ।

इतनेमें, सहसा वह चौक पड़ी , मालूम हुआ कोहे उसके पास आ जा हुआ है ।

"ढरो मत जीजी-बाई, मैं उमेश हूँ । इतनी रात हो गई, अभो तँ सोइ ब्याँ नहीं ?"

अब तक कमलाकी आँखोंसे आँसू नहीं गिरे थे । अब यकायक उगड़े आँसू उमड़ पड़े । बड़ी-बड़ी वूँ दें उससे रोके न रुकीं । गरदन टेढ़ी काँ  
कमलाने उमेशकी तरफसे सुँह फेर लिया । बादल जैसे हवाका स्पर्श पारे ही पिघलकर भरने लगते हैं, उसी तरह अनाथ गरीब बालकके मुहसे स्नेहको ए बात सुनते ही कमलाको छाती भर आई । कुछ कहनेको उसने कोशिश की, पर गला रुक आया । दुखिनहृदय उमेश कैसे सान्त्वना दे, उसको उठ समझ ही मैं न आया । अन्तमें, बहुत देर तक चुप रहकर अचानक वह बोल उठा—“जीजी-बाई, तुमने जो रुग्या दिया था न, उसमेंसे सात और येंसे बचे हैं ।”

उमकी यह अप्रासादिक बात सुनते ही कमलाकी छाती कुछ हल्को हुई । आँसुओंका थावेग भी कुछ शान्त हुआ । उसने हँसते हुए कहा—“अच्छी बात है, पेसे तू अपने पास हो रख । और, अब जा, तू सो जा ।”

चाँद तब पेंडोंको ओटमें छिप चुका था । थोड़ी देर बाद कमला भी सोने चली गई । विस्तरपर पढ़ते ही उमकी आँख लग गई । सबैरेको धूम जब कमरेका दरवाजा खटखटाया तब भी वह नहीं जगी ।

## २८

श्रान्तिमें ही कमलाका दिन आरम्भ हुआ । उस दिन उसकी वृद्धिने सूरजको का-हुआ देखा, नदीकी धारा भी उसे थकी-हुई मालस हुई, और जदी-तटके ढंभी दूर-पथके पथिकोंकी तरह थके-हुए-से दिखाई दिये ।

उमेश जब कमलाके काममें मदद करने आया, तो श्रान्तकण्ठसे उसने हाँ—“उमेश, तू जा यहाँसे, मुझे तग मत कर ।” उमेश भला यो व्यो नने लगा । उसने कहा—“मैं तग करने थोड़े ही आया हूँ, मसाला बटदे आया हूँ ।”

सवेरे कमलाका चेहरा देखकर रमेशने पूछा था, ‘कमला, तुम्हारी तबीयत आज छ खराब है क्या ?’ इस तरहका प्रश्न कितना अनावश्यक और असङ्गत है त बातको जाहिर करनेके लिए कमलाने सिर्फ एक बार झटकेसे गरदन हिला , और कुछ जवाब बिना दिये ही तुरत रसोईकी तरफ चली गई । रमेश समझ या कि समस्या क्रमशः कठिन ही होती जा रही है । बहुत जल्दी इसका कुछ कुछ अन्तिम समाधान होना ही चाहिए । रमेश मन-ही-मन सोचने लगा कि मनलिनीके साथ एक बार साफ-साफ बात हो जानेपर ही कर्तव्य तय हो कता है ।

काफी सोच-विचारके बाद वह हेमको चिट्ठी लिखने बैठा । बहुत देर तक प्रख-लिखकर काटता रहा । इतनेमें, “आपका शुभ नाम ?” सुनकर वह चौक डा । देखा, प्रौढ़ उमरके एक सज्जन हैं, मूँछोंपर सफेदी आ चुकी है, सिरपर ल कभी थे, अब नहींके बराबर हैं । रमेश एकान्त-चित्तसे चिट्ठी लिख रहा , उससे चित्त हटाकर आगन्तुककी तरफ ध्यान देनेमें क्षण-भरके लिए वह श्रान्त-सा हो गया । आगन्तुकने कहा—“आप ब्राह्मण हैं ? नमस्कार । आपका म रमेश बाबू है न । मैंने पहलेसे ही पता लगा लिया है । फिर भी, देखिये, मारे देशमें नाम पूछना परिचय प्राप्त करनेकी एक पद्धति है ; कुछ खलाल न जीजियेगा । यह भद्रता है । आजकल कोई-कोई इससे नाराज हो जाते हैं । गप अगर नाराज हुए हों, तो बदला ले सकते हैं ! मुझसे पूछिये, मैं फौरन

अपना नाम बता दूँगा, पिताका नाम बता दूँगा, बाबा तकका नाम भलें मुझे कोई आपत्ति नहीं।”

रमेश हँस दिया, बोला—“मेरा गुस्सा ऐसा कुछ खतरनाक नहीं, आपका अकेलेका नाम जानकर ही मैं खुश हो जाऊँगा।”

‘मेरा नाम है त्रिलोक चक्रवर्ती। पछांदमें जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँके लोंग मुझे ‘चचा’ कहा करते हैं। आपने तो इतिहास पढ़ा है? भारतवर्षके भरत देश चक्रवर्ती सप्रट, वसे ही मैं हूँ सारे पथिम-भारतका ‘चक्रवर्ती-चचा’। आप तो उधर ही चल रहे हैं, वहाँ जायेंगे तो मेरा परिचय आपसे छिपा न रहेगा। लेकिन, यह तो बताइये, आप जा कर्हा रहे हैं?”

रमेशने कहा—“अभी तक तय नहीं कर पाया कि कहाँ जाऊँगा।”

त्रिलोक—“तय करनेमें आपझे देर लगती है, पर जहाजमें चढ़ते बजे आपने काफी फुरती दिखाई थी?”

रमेश—“उम दिन रघोन्द उत्तरकर देखा कि जहाज सीढ़ी दे रहा है। तब मैं समझ गया कि मेरा मन स्थिर होनेमें देर हो सकती है, पर जहाज छूटनेमें देर नहीं। लिहाजा उस कामको फुरतीसे कर डाला।”

त्रिलोक—“नमस्कार महाशय! आपपर मेरी भक्ति बढ़ गई। आप और हममें बहा-भारी अन्तर है। हमलोग पहले तय करते हैं, पीछे जहाजपर चढ़ते हैं, कारण हमलोग बहुत ही डरपोक हैं। आपने जाना तो तय कर लिया, पर कहाँ जायेंगे तय नहीं किया, यह कैसी बात। ‘घरसे’ आपके साथ हैं न!”

‘घरसे’ का मतलब रमेश समझ गया; किन्तु जवाबमें ‘हाँ’ कहते हुए वह दुविधामें पड़ गया। रमेशको चुप देखकर चक्रवर्तीने कहा—“मुझे मार्द कीजियेगा। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि ‘घरसे’ आपके साथ है। दमरके लिहाजसे मैं उन्हे ‘बहू-रानी’ कहनेका हक रखता हूँ, इसमें शायद आपझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं भूखके मारे इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा था कि देया, बहू-रानीने रसोइं चढ़ा दी है। मैं पहुँच गया, और बोला, ‘वैष्णी, मुझे देखकर सङ्गोच करनेकी जरूरत नहीं; मैं पथिम भरतका एकमात्र चक्रवर्ती चाचा हूँ।’ अहा, बहू-रानी तो बहू-रानी ही हैं, साक्षा त् अन्नपूर्णा! मैंने कहा

"बेटी, जब कि रसोई-घरपर दखल जमा ही चुकी हो, तो कगड़े ऊस अज्ञसे तो बचित न रखना । बेटी मेरी जरा-सा मुसकरा दी, समझ गया, आश लग गया । अन्नपूर्णा प्रसन्न हैं, अब कोई चिन्ता नहीं । वैसे तो हमेशा साड़त देखकर घरसे निकलता हूँ, पर ऐसे शुभ-मुहूर्तमें तो पहले कभी नहीं निकला । इतना तत्त्व सौभाग्य । आप कुछ लिख रहे थे, मैं आपका समय नष्ट नहीं करता नाहता । अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं बहुरानीभी थोड़ी-पहुत मद्दत बढ़ाव दें । यहारे रहते वे क्यों अपने कर-कमलोंमें चिसटा-चम्पच धारण करें ? नहीं नहीं, आप लिखिये, आपको उठनेकी जहरत नहीं ; मैं परिच्छय करना खूब जानता हूँ ।"

इतना कहकर चक्रवर्ती-चचा वहांसे सीधे रसोईकी तरफ चल दिये । और कमलसे जाकर बोले—“वाह, खुशबूसे ही मेरा मन चचल हो गठा है, खाने बैठूँगा तो न-जाने क्या हालत होगी ! तरकारी कमालनी बनेगी इसमें शक नहीं ; लेकिन एकआध चीज़ मेरे हाथकी भी खानी पड़ेगी केटी । तुम सोचती होगी, यह कैसी बात । लेकिन मेरे हाथकी कढ़ी खाकर देराजा । खटाई बेसनकी तुम चिन्ता न करो, चक्रवर्ती-चाचामें ‘सर्वत्र पूज्यते’ के गुण कम नहीं हैं । जरा ठहरो, मैं अभी सब जुगाड़ किये लाता हूँ ।”

इतना कहकर वे चले गये ; और थोड़ी देरमें वापस आकर बोले—“अभी जाप्रथा है, खाओगी तब न कहोगी कि हाँ, चक्रवर्ती-चाचाने कोई चीज़ खिलाई । तुम उठो बेटी, हाथ-मुँह धोओ जाकर । काफी दिन चढ़ गया है । सङ्कोच बैलकुल मत करो । मुझे सब आता है । तुम्हारी चाचीकी तबीयत बराबर बदौवाराब ही चलती रहती है न, इसीसे मुझे रसोईके काममें सिद्धहस्त होना पड़ा गया है । बूढ़ीकी बात सुनकर हँस रही हो, बेटी, लेकिन हँसी मत समझना, वन-तोले-पाव-रत्ती ठीक कह रहा हूँ ।”

कमलाने हँसते हुए कहा—“मैं आपसे कढ़ी बनाना सीख लूँगी ।”

चक्रवर्ती—“अरे वाह रे ! अपनी विद्या भी कहीं किसीको इतनी जल्दी नहीं जाती है ! एक ही दिनमें सिखाकर विद्याका महत्व अगर नष्ट कर दू, तो वही वीणापाणि मुझसे अप्रसन्न नहीं हो जायेगी । दो चार दिन इस बूढ़ीकी सेषामद करनी होगी । मुझे कैसे खुश किया जा सकता है इसकी तुम चिन्ता-

न करो, मैं खुद ही सब बता दूँगा। पहली बात तो यह है कि मैं पान कुछ ज्यादा खाया करता हूँ, लेकिन सुपारी उसमें खूब बारीक पड़नी चाहिए। मुझे बश करना आसान काम नहीं, पर, वेटीके हँसमुख चेहरेने काम बहुत-कुछ आसान कर दिया है। और ऐसे छोकड़े, तेर नाम क्या है ?”

उमेशने कुछ जवाब नहीं दिया। भीतर-ही-भीतर वह यह सोच रहा था कि कमलाके स्नेह-राज्यमें यह बूँदा कहाँसे आ गया उमेश हिस्सा छीनने ? उसे चुर देखकर कमलाने जवाब दिया—“इसका नाम उमेश है।” चक्रवर्तीने कहा—“लड़का अच्छा है। तुरत इसे बशमें नहीं लाया जा सकता, मैं समझ गया हूँ; पर देख लेना, वेटी, इससे मेरी पटरी बैठ जायगी। हाँ तो, अब देर न करो। मेरे काममें देर नहीं लगेगी; मिनटोंमें सब चीज़ तैयार मिलेगी।”

कमला जो एक तरहकी शून्यता अनुभव कर रही थी, इस वृद्धके जानेसे उसके मनकी वह शून्यता जाती रही। और, रमेश भी कुछ निश्चित हुआ। शुरू-शुरूमें, कई महीने तक रमेशने जब कमलाको अपनी स्त्री समझ रखा था, तबकी उसकी वाधाहीन घनिष्ठना और अबके बरतावमें इतना ज्यादा अन्तर हो गया है कि वालिका कमला भी उसे समझ गई है, और इससे उसके हृदयको काफी ठेस पहुँचो है। इस बीचमें अकस्मात् चक्रवर्ती आगमनसे कमला और रमेश दोनोंको बड़ा-भारी सहारा मिल गया।

दोपहरको कमला अपने कमरेके सामने दरवाजेके पास जा खड़ी हुई। वह चाहती है कि चक्रवर्तीके दोपहरके ठलुआ बत्तपर वह अकेली दखल जाने ले। चक्रवर्ती उसे देखते ही बोल उठे—“नहीं वेटी, यह अच्छी बात नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए।”

कमला समझ हो न सकी कि क्या अच्छी बात नहीं; और इससे वह आश्चर्यमें पड़कर सकुचित हो उঠी। चक्रवर्तीने कहा—“ये जूते क्यों पहने हैं ?” रमेश वही पहलेसे ही मौजूद था। उससे बोले—“रमेश बाबू, मैं आपका ही काम मालम होता है। कुछ भी कहिये, यह आप अधम कर रहे हैं। देशकी मिट्टीको इन चरणोंके सर्वांसे विवित रखना ठीक नहीं; इससे देश-

मिट्टी हो जायगा । रामचन्द्र अगर सीताको 'दासन का बूट पहनाते, तो क्या आप समझते हैं कि लक्ष्मण चौदह साल वनमें बिता सकते थे ? हरगिज नहीं । मेरी बातपर हँस रहे हैं ! शायद पसन्द नहीं आईं ! बात कुछ ऐसी ही है । आपलोग जहाजकी सीटी सुनते ही चचल हो उठते हैं, कहाँ जाना है उगेर सोचे ही सवार हो जाते हैं । ऐसा अनिश्चित मन ही तो आपलोगोंलो गलत राते ले जाता है ।"

रमेशने कहा—“चचा, आप ही तय कर दीजिये न, हमें कहाँ जाना चाहिए । जहाजकी सीटीसे आपकी सलाह कहीं ज्यादा पक्की होगी ।”

चक्रवर्तीने कहा—“यह देखिये, आपकी विवेकबुद्धिने कितनी जट्ठी उन्नति की । ऐसी कोई लम्बी जान-पहचान नहीं, फिर भी । तो सुनिये, गाजीपुर चले चलिये । चलोगी बेटी, गाजीपुर २ वहाँ गुलाबकी खेती होती है ; और वहाँ तुम्हारा यह वृद्ध भक्त भी रहता है ।”

रमेश कमलाके मुँहकी तरफ देखने लगा । कमलाने उसी वक्त गरदन हिलाकर अपनी सम्मति दे दी ।

इसके बाद उमेश और चक्रवर्ती दोनोंने मिलकर लजिजत कमलाके कमरेमें सभा जमा दी । रमेश एक लम्बी सांस छोड़कर बाहर चला गया । जहाज बूँबू तेजीसे चल रहा था । शरदूङ्घटुकी धूपसे चमकते हुए दोनों तटोंका शान्तिमय वैचित्र्य स्वप्नकी तरह धाँखोंके सामने परिवर्तित होता चला जा रहा था । कहीं धानके खेत हैं तो कहीं नावोंसे शोभित घाट, कहीं बाजार है तो कहीं रेती-ही-रेती चमक रही है, कहीं प्राचीन बटकी छायाके नीचे पार जानेवालेष्यात्री बैठे हैं तो कहीं गाँवकी चौपालमे बैठे लोग गपशप कर रहे हैं । शरद सुबक्ती दोपहरीकी इस सुमधुर निस्तब्धतामें पासके कमरेके भीतरसे जब संपर्शणमें कमलाका स्निग्ध कौतुकहास्य रमेशके झानोमें आकर प्रवेश करने लगा । तो उसके मनमें न-जाने कैसी एक ठेस-सी लगी । सब-कुछ कैसा सुन्दर है, किंतु कितना दूर है ! रमेशके वेदनामय जीवनमें यह कैसा परिहास है ! गरेश के कितना विच्छिन्न है । ..

२६

कमलाकी अभी वहुत कम उमर है। किसी तरहका सशय, आशङ्का वेदना उसके मनमें स्थायी होकर नहीं बैठ पाती। रमेशके व्यवहारके समग्रे इधर कुछ दिनोंसे उसे विचार करनेका समय ही नहीं मिला। खोत जद रुकावट पाता है वही कूड़ा-करकट आ जमता है। कमलाके चित्त-स्रोतका सह प्रवाह रमेशके आचरणसे सहसा एक जगह रुक गया था; और वही वह, भैं बनाकर, वहुत-सी बातोंके चक्करमें बार-बार चक्कर काट रहा था। दृढ़ चक्रतीर्ति साथ पाकर आज उसका हृदयखोत, रसोई बनाकर, खिला-पिलाकर, समस्त वाशाँ को पार करके फिर अपनी सहज गतिसे चलने लगा, भंवर मिट गया, जोकु कूड़ा जमा था और धूम रहा था, सब वह गया। और इस तरह वह अपने सारी चिन्ताओंसे छुट्टी पा गई।

आश्विनके ये सुन्दर दिन नदी-पथके विचित्र दृश्योंको रमणीय बनाते हु दनमें कमलाके डस प्रतिदिनके गृहिणी-पनको, मानो सुनहरे चित्रपर अर्द्ध एक-एक सरल कविताके पृष्ठकी तरह पलटते जा रहे हैं। काम-काजके उत्साह दिन शुरू होता; और हँसी-खुशीमें वह पूरा हो जाता।

उमेश अब स्तीमर फेल नहीं करता; और उसकी टोकनी भी ऊरब भरी आती है। छोटी-सी घर गृहस्थीमें उमेशकी यह सबेरेकी टोकनी कौतूहलकी चीज बन गई। टोकनी आते ही, “अरे, यह क्या। मूर्छी फली। अरे, धनिया, पालक, सौया, यह सब कहाँसे जुगाड़ कर लाया? देखो, चाचा, क्या-क्या उठा लाया है। इतना सब बनायेगा कोन? इस शोर-गुल शुरू हो जाता। जिस दिन रमेश मौजूद रहता, उस दिन इ आनन्दोच्छासमें जरा विन्न पढ़ जाता। उससे चोरीका सन्देह किन्तु निजा रहा जाता। कमला उत्तेजित होकर कहने लगती—“वाह, मैंने तुम्हें पैसे दिये हैं!”

रमेश कहता—“इससे टसकी चोरीकी सहूलियत दूरी है वह तुम्हें ऐसे भी लगता है और मार-मरकानी भी.”

इसके बाद वह उमेशको पास बुलाकर उससे उहता—“अब्दा, हिसाब तौ ना देखूँ ?”

हिसाब ठीक मिलता नहीं। पहली बारके हिसाबके साथ दूसरी बारके इसाबमें फर्क पड़ जाता; और जोड़ लगानेपर अभासे खर्चकी रकम नहँ गती। लेकिन, इससे उमेश जरा भी विचलित न जोता। वह कहता—“अगर मैं हिसाब ही ठीक रख सकता तो मेरी ऐसी दशा ही बयो हाती? किरणी भी तो मुनीम गुमास्ता हो सकता था! बगो, ठीक है न, चक्रवर्तीं बाबा?”

चक्रवर्ती—“रमेश बाबू, खानेके बाद आप इसका न्याय करियेगा। तभी एक न्याय न कर सकेंगे। फलद्वाल मैं इस छोकडेको उत्साह दिये बगैर नहीं रह सकता। उमेश बेटा, सब्रह करनेकी विद्या होई आसान विद्या नहीं। बहुत ज्ञ मिलेंगे जो इस विद्यामें पारदर्शी हो। लाजिङ सभी करते हैं; पर फल कितने होते हैं! रमेश बाबू, 'गुणिषु प्रभोदम्', गुणियोंको पाका खुश जीवा चाहिए। गुणीकी मर्यादा मैं समझता हूँ। जिन चीजोंका मौसम नहीं सी चीजें गजर-दम जाकर जुगाड़ कर लाना कोई सामूली जात है। महाशय, सन्देह करनेमें क्या है? सभी कर सकते हैं, लेकिन सब्रह हजारमें कोई एक न कर सकता है।”

रमेश—“चचा, यह अन्न नहीं हो रहा है। उत्साह देकर आप अन्याय र रहे हैं।”

उसे

चक्रवर्ती—“छोकडेमें ही विद्या ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत जितनी, वह भी उत्साहके आवेगमें अगर नष्ट हो जाय तो बढ़े खेदकी बात गयी, कमसे कम रुखें हुए हमलोग जहाजमें हैं।” और उमेशसे लेइ—“सुन, कल श्लोलमें कमल पत्ते लेते आना; और मिले तो करेले भी, ममता! ये सब नर्सित होकर बालिए बहुत लाभदायक हैं। उमेश, तू जा, अपने कामसे लक्ताव रखकर इस देर हो जायगी।”

इस तर क्या खबर है? ऐतना ही सन्देह करता और डाटता-डपटता, रमेश उत्तमा रमेशके मुँहकी तरफ पना हो उठता। उसपर चक्रवर्ती भी उसकी रु हो इन्हें सिर्फ कहानी सुननेके जरा-कुछ अलग-सा हो गया। रमेश एक

तरफ अपनी सूखम विचार-शक्तिके साथ अकेला है, दूसरी तरफ कमल और चक्रवर्ती तीनों अपने कर्मसूत्रमें स्नेहसूत्रमें और आमोद-प्रमोदके घनिष्ठरूपसे एक हैं। चक्रवर्तीके आनेके बादसे, उनके उत्साहके संबंध उत्तापसे रमेश कमलाको पहलेकी अपेक्षा ज्यादा उत्सुकतासे देख रहा है, उसके शुटमें नहीं मिल पाता। बड़ा जहाज जैसे किनारे से लगाना है किन्तु पानी कम होनेसे उसे दूर ही लगर ढालकर ताकना पड़ता है, छोटी-छोटी नावें आसानीसे किनारे लग जाती हैं, रमेशकी भी ठीक कंदशा हुई।

पूनोके एक्टव्याध रोज पहले, एक दिन सवेरे उठकर देखा गया कि काले बादलोंसे आँकाश ढा गया है। हवा इधर-उधर मारी-मारी फिर रह कभी ओङ्का-सा पानी बरस जाता है तो कभी थम जाता है और धम। आती है। वीच-गगामें आज नाव नहीं हैं; दो-एक जो दिखाई देतीं जल्दी ही किनारे लगनेके लिए उत्कण्ठित हो रही हैं। पानी भर्ते लियाँ आज घाटमें ज्यादा देर न लगाकर जल्दी-जल्दी घर लौट रही हैं। पानीपर बादलोंसे छन्न-छनकर कहीं-कहीं धूप पढ़ रही है, और क्षण-इस तटसे लेकर उस तक, तन्म. नदीका सारा शरोर काँप-काँप उठता है।

जहाज अपनी रफ्तारसे चल रहा है। उपर्याधी-मेहकी भाँवा आरक्ष कमलाका रसोईका काम चलने लगा। चक्रवर्ती यह आकाशकी तरफ देख बोले—“वेटी, ऐसा करो, जिससे उस बक्स रस “अरेजनानी पड़े। तुम चदा दो, इतनेमें मैं पूँछी बनाये लेता हूँ।” इसे जुगा

आज बहुत टेरसे रसोई उठी। हवाकी बनायेगा शः बढ़ने लगा। फूल-फूलकर ऊपरको आने लगी। सूरज नमौजूद रहता, मालूम नहीं पर जहाजने जल्दी ही लगर टाल दिये। शाम चोरीका सन्देह चुरे-हुए से सज्जिपातके विकारकी फीकी हँसीकी तरलगती—“वाह, मंत्रादीनीओं चमकने लगा। और फिर, यह जोरेसे इस पर्याँ होने लगी।

कमल एक बार पानीमें डब जूकी है;

सहलिगत दूरी है।

ैं कर सकती । रमेशने आकर उसे तसली दी—“जहाजें कोई डर नहीं, लाला ! तुम निश्चन्त होकर सो सकती हो । मैं बगलके कमरें पागता गा ।”

दरवाजे के पास आकर चक्रवर्तीने कहा—“लक्ष्मी-बेटी, लौटे छ नहीं । आंधीके बापकी मजाल क्या जो तुम्हें छू भी जाय ।”

आंधीके बापकी मजाल कहाँ तक है, यह बताना ज़रूर कठिन है ; किन्तु आंधीकी मजाल कितनी है सो कमलासे छिपी नहीं । वह जल्दीसे उठकर बाजे के पास जाकर बोली—“चाचाजी, तुम कमरेमें भीतर घैठ जाओ ।”

चक्रवर्तीने सङ्कोचके साथ कहा—“अब तो तुमलोगोंका सोनेका वक्त हो गा, बेटी, अब मैं—”

कमरेके भीतर आकर उन्होंने देखा कि रमेश नहीं है । उन्हें आश्चर्य हो ; बोले—“रमेश बाबू ऐसे आंधी-मेहमें कहाँ चले गये ? साग-सब्जी नेकी तो उनकी आदत नहीं ।”

“कौन, चचा हैं क्या ? यह रहा मैं, बगलके कमरेमें ।”

चचाने बगलके कमरेमें झाँककर देखा कि रमेश विस्तरपर धाव-लेटा पड़ा ; और बत्तीके उजालेमें किताब पढ़ रहा है । उन्होंने कहा—“बहू-रानी यहाँ फिली डरके मारे परेशान हैं और आप वहाँ पढ़े हैं ! अजी, किताबको तो जनसे डर नहीं लगता, उसे अभी रख भी दिया जाय तो उसका कुछ नहीं आड़ेगा । आइये इस कमरेमें ।”

कमलाने अनिवार्य आवेगमे आकर अपनेको भूलकर जल्दीसे चक्रवर्तीका प्रपकड़ लिया ; और रुँधे हुए कण्ठसे बोली—“नहीं नहीं, चाचाजो ! नहीं ।” आंधीके कलोलमें कमलाकी यह बात रमेशके कानों तक नहीं पहुँची ; तु चक्रवर्ती विस्मित होकर बापस चले आये ।

रमेश किताब रखकर इस कमरेमें चला आया, और बोला—“कहिये गा साहब, क्या खबर है ? कमलाने शायद आपको—”

कमला रमेशके मुँहकी तरफ न देखकर जल्दीसे बोल उठी—“नहीं नहीं । तो इन्हें सिर्फ कहानी सुननेके लिए बुलाया है ।”

धटनासे मन-ही-मन आजका मिलान कर लिया । बोले—“कल रातको साथ इसी कमरेमें सो गये थे ?”

रमेश असल सवालका जवाब न देकर बोला—“कैसा तूफान शुरू हुआ है बताइये तो ! रातको आपको नींद कैसी आई ?”

चक्रवर्तीने कहा—“रमेश वाबू, मैं बैवकूफ-सा मालूम देता हूँ, मेरी जैन भी वैसी ही होती हैं ; फिर भी इतनी उमर बीत चुकी, मुझे बड़े-बड़े दृश्य विषयोंको चिन्ता करनी पड़ी है और बहुतोंका हल भी किया है । लेकिन अब देखता हूँ, आप ही सबसे ज्यादा दुरुद्ध हैं ।”—

क्षण-भरके लिए रमेशका चेहरा सुर्ख हो उठा, दूसरे ही क्षण उन्हें अपनेको सम्भालकर मुस्कुराता हुआ बोला—“दुरुद्ध होना हमेशा अपराध ही वात हो, सो वात नहीं, चचा साहब ! तेलगू भाषाका ‘वर्णपरिचय’ दुरुद्ध है पर त्रैलङ्घन वालके लिए वह पानीके समान सरल है । जिसे न समझ सके उन्हें चट्टे दोपी करार देना ठोक नहीं । और, अक्षर वगैर समझे, उसपर बार बार आंख फेरनेसे ही वह समझमें आ जायगा, ऐसी आशा करना भी ठीक नहीं ।

चक्रवर्तीने कहा—“मुझे माफ करना रमेश वाबू । मेरे साथ जिसके घनिष्ठताका खास कोई सम्बन्ध नहीं, उसे समझनेकी कोशिश करना ही पृष्ठ्य है । परन्तु, दुनियामें क्वचित्-कभी एकआव हो ऐसे आदमी मिलते हैं दृष्टिपात होते ही जिनके साथ सम्बन्ध स्थिर हो जाता है । गवाह चाहें तो आप इस जहाजके दक्षियल सारेनसे पूछ देखिये । बहुरानीके साथ उमर आत्मीय-सम्बन्ध उसे अभी तुरत मजूर करना होगा । न करे तो उसे शुस्तमान ही न कहूँगा । ऐसी हालतमें अचानक बीचमें तेलगू-भाषा के भ्रमके, तब तो पूरी मुसोधत ही समझिये । वेमतलघ नाराज होनेसे तो का नहीं चलनेका ! जरा विचार कर देखिये ।”

रमेशने कहा—“विचार कर देखा है, इसीसे तो नाराज नहीं हो रहा देखिन, मैं चाहे नाराज होऊँ या न होऊँ, आप चाहे दुख पायें या न पायें तेलेगू-भाषा तेलेगू ही रह जायगी ; प्रकृतिका ऐसा ही निष्टुर नियम है । कहते हुए उसने एक गहरी साँस ली और चुप हो रहा ।

इस बीचमें, रमेश सोचने लगा था कि गाजीपुर जाना चाहिए या नहीं ? उसने सोचा था कि अपरिचित जगहमें रहनेके लिए, इस ट्रूके साथ और उसके काम आयेगा। किन्तु अब उसे मालग्रह दोने लगा और परिचयमें वेधाएँ भी हैं। कमलाके साथ उसका सम्बन्ध अगर आलौचना और अंधानका विषय बन गया, तो किसी दिन कमलाके लिए वह पीढ़ादायक हो जाएगा। इससे अच्छा यह है कि जहाँ सभी अपरिचित हों, जहाँ ओहें कुछ बाला नहीं, वहीं जाकर रहना चाहिए।

गाजीपुर पहुँचनेके एक दिन पहले रमेशने चक्रवर्तीसे कहा—“जाना, पुर प्रैक्टिसके लिहाजसे मुझे कुछ कम जचता है, फिलहाल मैंने काशी बैही स्थिर किया है।”

रमेशकी बातमें निःसशयका स्वर सुनकर चक्रवर्ती हँस दिये, बोले—“यह प्रस्थिर करना हुआ ! बार-बार भिज्ञ-भिज्ञ प्रकारकी बात तथा झरनेको स्थिर नहीं कहते, स्थिर उसका नाम है जो एक जगह स्थिर रहे। खें, यदी, काशो जाना फिलहाल आखिरी ‘स्थिर’ है न ?”

रमेशने सक्षेपमें जवाब दिया—“जी हाँ।”

चक्रवर्ती कुछ जवाब न देकर चले गये ; और चौज-वस्त वांधनेमें लग। इतनेमें कमलाने आकर कहा—“चाचाजी, आज क्या मेरे साथ अड़ी शी है ?”

चक्रवर्ती—“झगड़ा तो दोनों ही वक्त हुआ करता है, पर एक दिन भी गौत नहीं सका।”

कमला—“आज सवेरेसे तुम मुझसे बचते क्यों फिर रहे हो ?”

चक्रवर्तीने कहा—“तुमलोग तो, बेटी, मुझसे भी बढ़कर भागनेको शर्में हो। अब मुझे तुम कुछ नहीं कह सकतीं।” बातको कमला समझ की, वह उनके मुँहकी तरफ देखती रही। चक्रवर्तीने कहा—“रमेश ने तुमसे कुछ कहा नहीं क्या ? उन्होंने काशी जाना तय किया है।”

सुनकर कमलाने ‘हाँ’ ‘ना’ कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने “चाचाजी, तुमसे नहीं बनेगा ; लाओ, मैं तुम्हारा बक्स जचा दूँ।”

काशो जानेके सम्बन्धमें कमलाकी इस उदासीनतासे चक्रवर्तीके हृगहरी चोट पहुँची । वे मन-द्वी-मन सोचने लगे, ‘अच्छा ही हुआ, मेरे इस उमरमें नया जाल बिछानेसे फायदा ?’ इतनेमें, कमलासे काशी वात कहनेके लिए रमेश आ पहुंचा । बोला—‘मैं तुम्हें वहाँ हड़ रहा कमला चक्रवर्तीके कपड़े-लत्ते तह करके रख रही थी । रमेशने कहा—“इस भरतवा हमारा गाजीपुर जाना न हो सकेगा । मैंने तय किया बनारस जाकर वहाँ प्रैक्टिस करूँगा । तुम्हारो क्या राय है ?”

कमला काम करते-करते नोची नजर किये-हुए ही बोली—“नहं गाजीपुर जाऊगी । मैंने अपनी चीज-वस्तु सब बांध-दू धकर तैयार कर ली

कमलाके इस बिना-दुविधाके निश्चित उत्तरसे रमेशको बड़ा ताज्जुब बोला—“तुम बया अकेली ही चली जाओगी ?”

कमलाने चक्रवर्तीके मुँहकी तरफ स्तिरधटिष्ठे देखते हुए कहा—‘वहाँ चाचाजी हैं तो सही !’

कमलाके इस जवाबसे चक्रवर्ती चल और सकुचित हो उठे ; वो “नहीं, बेटो, तुमने अगर अपने चाचाके प्रति इतना पक्षपात किया तो आदूके लिए मैं असह्य हो उठूँगा ।”

इसके जवाबमें भी कमलाने यही कहा—“मैं गाजीपुर जाऊँगी ।” कहनेके दृगसे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि वह किसीकी सम्मतिकी रसती है ।

रमेशने कहा—“चचा, तो फिर गाजीपुर ही जाना तय रहा ।”

ओधी-मेहके बाद, उस दिन रातको चार्दिनी खूब साफ निकली थी । देक्षपर आरम्भकरसी ढाले पढ़ा-यदा सोचने लगा, ‘इस तरह कब तक रुकता है ?’ ब्रह्मगः बिद्रोही कमलाको लेकर उसके जीवनकी समस्या देखती जा रही है । इस तरह पाप रहकर दूरत्वकी रक्षा करना बड़ा है । अब अक्षया छोड़ देनो चाहिए । कमला ही मेरो स्त्री है, मैंने उस्त्री जानकर ही प्रहण किया था । मन्त्रोचारण-पूर्वक विवाह नहीं हुआ तथा यालसे सद्गुच फरना अन्याय होगा । यमराजने उस दिन कमलाको

में मेरे पास लाकर उस निजा नहीं। छाया ऐसी कोई कीमती चीज नहीं कर पुरोहित ससारमें और कौन ?

हेमनलिनी और रमेशके बोच एक थे। तुमने इतने दिन कैसे लगा दिये ?” और अविश्वास दूर करके रमेश आगर विजन्हाल, घरमें जो अतिथि आये हैं चा करके हेमनलिनीके पास खड़ा हो सकता है। उन्होंने अतिथियोंका परिचय तो उसे ढर मालूम होता है; जीतनेकी कोई आशंका नया नहों है, अकसर वह अपनी सफाई देगा। और अगर वह सचाई प्रमाणाभासिनों तैयार नहीं तो बातें जन-साधारणके सामने ऐसी भद्दी और कमलाके लिए “हैं ?”

पहुँचानेवाली होंगी कि मनमें उसकी कल्पना करना भी पीढ़ाउनकी बात लए, मनमें कमज़ोरी लाकर अब दुष्प्रिया करना ठीक नहीं, कमलाको अपने ग्रहण करना ही सबसे अच्छा है। हेमनलिनी भी उससे घृणा करती है; यह घृणा ही उसे किसी योग्य वरको हृदय-समर्पण करनेमें मदद देगी। यह सोचकर उसने एक गहरी सांस ली, और उनके साथ दी उसने पनी दुष्प्रिया भी छोड़ दी।

### ३९

रमेशने उमेशसे पूछा—“क्या रे, कहाँ चला ?”

उमेशने कहा—“मैं जीजी-बाईके साथ जा रहा हूँ।”

रमेश—“मैंने तो तेरे लिए काशीका ट्रिक्ट कदाचा है। यह तो गाजीपुर। हम तो अब काशी नहीं जा रहे हैं।”

उमेश—“मैं भी नहीं जाता काशी।”

रमेशके मनमें ऐसी आशका नहीं थी कि उमेश उनलोगोंके साथ स्थायी रूप से रहेगा। किन्तु लड़केकी अविचलित दृढ़ता देखकर रमेशको दग रह जाना था। उसने कमलासे पूछा—“कमला, उमेश भी अपने साथ जायगा क्या ?”

न सक्कुलाने कहा—“नहीं तो वह कहाँ जायगा ?”

मेश—“क्यों, काशीमें उसकी नानी रहती है न ?”

मला—“नहीं, वह हमारे ही साथ रहना चाहता है। उमेश, तू के साथ-साथ रहना; नहीं तो परदेसमें इधर-उधर भटक जायगा।”

काशो जानेके सम्बन्धमें कमलाकी इस उट्टा तोका फैसला कमला नुद गहरी चोट पहुँची । वे मन-ही-मन सोचने की कमला पहले नप्रतासे स्त्री इस उमरमें नया जाल विछानेसे फायदा वह स्वाधीन हो गई है । लिखा वात कहनेके लिए रमेश आ पहुँचा बगलमें दयाकर उसके साथ जानेको तो कमला चक्रवर्तीके कथड़े-लत्ते न किसी तरहको चर्चा नहीं हुई ।

इस मरतवा हमारा गाँड़िल्ले के घीचमें एक जगह चक्रवर्ती-चचाका छोटा बनारस जाकर वहीं लैपोछे आमका बाग है, और बगलमें पक्षा फुआ । सामाजिक

कमला व्हा कुएके पानीसे गोभी और छीमोका खेत सींचा जाता है । गाजीपुर जा दिन कमला और रमेश उस बगलेमें ही ठहरे । चक्रवर्ती लोगों

हाकिया करते हैं कि उनकी स्त्री हरिभामिनीको तबीयत ठीक नहीं रहती, बेफन्तु उन्हें देखकर ऐसा नहीं मालूम हुआ कि वे बीमार या कमजोर हैं । उनकी उमर कम नहीं, पर चेहरेपर सामर्थ्य और मजबूती भलकही है । सामनेके कुछ चाल सफेद हो गये हैं, बाकीके सब काले हैं । उनपर बुझाये मानो डिक्की तो पा ली है, पर दखल अभी नहीं पाया । असलमें बन जाते हैं कि यह दम्पती जब तरुण थी, तब हरिभामिनीको मैलेरियाने सूख जोड़ जकड़ लिया था । आब-हवा बदलनेके सिवा और कोई उपाय न देय चक्रवर्ती गाजीपुरके स्कूलमें हैट-मास्टरी कर ली ; और तबसे वे वहीं रहने ली । स्त्री सम्पूर्णतः म्वस्य होनेपर भी चक्रवर्तीको उनके स्वास्थ्यपर जग भी विश्वास नहीं है ।

अतिथियोंको घाहरके कमरेमें विठाकर चक्रवर्ती साहब भीतर गये ; और आवाज दी—“मुनती हो !”

‘मुनती हो’ तब प्राचीर-वेष्टित आगनमें बैठी रामकौलसे आटा पिसवा रखे थे ; और साय-साय छोटे-बड़े नानाप्रकारके भाँझोंमें अचार और स्टाइंक रखा घममें सुनने रह रही थी । चक्रवर्तीने भीतर आकर कहा—“यह काठ पहने लगी है, अलवान तो थोड़ लिया होता ।”

हरिभामिनी—“तुम्हें हमेशा वर ही लगा रहता है । ठट है कहाँ, धूम नेगे रीठ तो जली जा रही है ।”

चक्रवर्ती—“यह भी अच्छा नहीं। छाया ऐसी कोई कीमती चीज नहीं। दुर्लभ हो।”

हरिभामिनी—“अच्छा, देखा जायगा। तुमने इतने दिन कैसे लगा दिये?”

चक्रवर्ती—“यह सब पोछे सुनना। फिलहाल, घरमें जो अतिथि आये हैं की सेवाकी तयारी करना है।” इतना कहकर उन्होंने अतिथियोंका परिचय ग। उनके घर इस तरहके अतिथियोंका समागम यह नया नहों है, थकसरा हुआ करता है। मगर, सत्त्वीक अतिथिके लिए हरिभामिनी तैयार नहीं, उन्होंने कहा—“वाह जी वाह, अपने यहाँ इतने कमरे कहाँ हैं?”

चक्रवर्तीने कहा—“पहले परिचय तो होने दो, उसके बाद कमरोंकी बात बी जायगो। शशी कहाँ है?”

हरिभामिनी—“वो अपनी लड़कीको नहला रही है।”

चक्रवर्ती जल्दीसे जाकर कमलाको भीतर ले आये। कमलाने हरिभामिनीके छुए। हरिभामिनीने उसे पुचकारा, और अपने पतिसे कहा—“देखा, रा बिलकुल अपनी विधु सरोखा है न।”

विधुमुखी इनकी बड़ी लड़कीका नाम है। वह अपनी सुसरालमें हलाहावादी है। चक्रवर्ती मन-ही-मन हँस लिये, वे समझते हैं कि कमलाके साथ कुछ भी सादर्श नहीं, पर हरिभामिनी रूप-गुणमें बाहरकी किसी लड़की जीत मजूर नहीं कर सकती। शशिमुखी उन्होंके घर रहती है, और इस तुलनामें उसकी हार हो सकती है, इसलिए अनुपस्थितकी उपसा देकर गीने अपनी जय-पताका फहरा दी।

हरिभामिनीने कहा—“इनलोगोंके आनेको मुझे बड़ी खुशी हुई। अपने मकानकी मरम्मत हो रही है। यहाँ इनलोगोंको बड़ी तकलीफ होगी। इन्तजाम करो तो ठीक हो।”

बाजारमें चक्रवर्तीका एक छोटा-सा मकान है, पर असलमें उसे दूकान ना चाहिए, वहाँ घर-गृहस्थोंके लायक सुविधा नहीं। किन्तु चक्रवर्तीने दूठका कोई प्रतिवाद नहीं किया, जरा हँसकर बोले—“वेटी अगर मेरे रहनेमें तकलीफ ही समझती तो अपने घर इन्हें मैं लाता ही क्यों?

(स्त्रीसे) खर, और-सब पीछे देखा जायगा । तुम अब उयादा ठण्ड न लगाए कुछ ओढ़ लो ।” इतना कहकर वे रमेशके पास बाहर चले गये ।

इरिभामिनी कमलाका विस्तृत परिचय लेने लगी—“तुम्हारे पति कहे होंगे ? काम शुरू किये कितने दिन हुए ? कितना रोजगार हो जाता है अभी बकालत शुरू नहीं की ? तो खर्च कहाँसे चलता है ? तुम्हारे सम्पत्ति छोड़ गये होंगे ? नहीं मालूम ? तुम हो कौमी ! सुमरालझोँ खबर ही नहीं रखती ? घर-खचके लिए पति तुम्हें महीनेमें कितने रुपये हैं ? जब कि सासु नहीं हैं तो घरका सारा भार तुम्हें अपने हाथमें ले ले चाहिए । तुम कोई नन्हीं-सी बच्ची थोड़े ही हो । मेरा तो बड़ा दम जो-कुछ रोजगार करता है, सब विभुके हाथमें साँप देता है ।” इत्यादि वाज प्रश्न करके थोड़ी ही देरमें उन्होंने कमलाको ‘भोली लड़की’ साक्षित कर दिया और इससे, कमला भी समझ गई कि रमेशकी अवस्था और इतिहासके समांग में वह कितना थोड़ा जानती है, और उनके सम्बन्धके देखे उससे अशानता कितनी अमर्जनत और लज्जाजनक है । वह सोचने लगी, आज रमेशके नाय अच्छी तरह घातचीत करनेका उसे कभी भौका हो नहीं पिल रमेशको द्वी होकर भी वह उसके विषयमें कुछ नहीं जानता । यदृ बात उसे अद्यगुनन्मो मालूम हुई ; और मारे गरमके वह गड़-गड़ गई ।

इरिभामिनीने फिर शुरू किया—“यह, देख, तुम्हारे कहे ! यह नोना उतना अच्छा नहीं । मायबेसे कुछ गहने नहीं मिले ? शाव नहीं हैं ? उसका, लड़कीको कही कोइ इम तरह विदा करता है ? तुम्हारे पतिने दूषु नहीं दिया ? मेरा बदा दामाद हर दूसरे महीने विभुको कोईनन्हीं नोज घनया ही देता है ।” ये गवाल-जगह चल ही रहे थे कि इन शशिगुरी अपनी दो गालझी घरोंका हाथ पहुँचे वहाँ आ पहुँची । शशिगुरी रंग माविला है, मुँह ऊद्या-सा, मुट्ठीमें आने लायक ; आँगें चमकशर, लूं चौंहा, चेहरा देखते हो मालूम हो जाता है कि उसमें अधिक बुद्धि और अपरिजुनिकी उमों नहीं । शशिगुरीकी छोटी लड़की कमलाके गमने के होकर दण-भर उठे गौरवे देनकर बोल उठी—“मौमी !” उसने ब

शिशिमुखोंका सादृश्य विचारकर 'मौसी' कहा हो सो बात नहीं। एक खास उमरको  
दें। कोई भी लड़कों अगर उसे अप्रिय न लगो, तो उसको वह अनायास हो 'मौसी'  
होकर देतो है। कमलाने उसी क्षण उसे गोदमें उठा लिया। हरिभासिनीने  
रहेशिमुखोंका परिचय देते हुए कहा—“इसके पति भी बड़ील हैं, अभी हाल  
ही में काम करना शुरू किया है।”

शिशिमुखोंने कमलाके मुँहकी ओर देखा, कमलाने भी उसके सुँहब्बों तरफ  
आरेखा, और उसी क्षण दोनोंमें सखीका सम्बन्ध हो गया। हरिभासिनी  
हमतिथि-सत्कारकी तैयारी करने चली गई। शिशिमुखीने कमलाका हाथ पकड़के  
हाथ—“आओ बहन, मेरे कमरेमें आओ।”

योद्धोंही दरमें दोनोंमें घनिष्ठता हो गई। शिशिमुखीके साथ कमलाकी  
उमरका जो पार्थक्य है वह सहसा नजरमें नहीं आता। शिशिमुखीका कुल  
प्रेलकर छोटा-मोटा संशिष्म भाव है; और कमला ठीक उससे उलटी है,  
नायतन और हाव-भावमें वह अपनी उमरसे आगे बढ़ गई है। व्याहके बाद  
उसके ऊपर सुसरालका कोई भार न होनेसे हो या और-किसी कारणसे हो,  
खेते-देखते वह बिना किसी सकोचके बढ़तो चली जा रही थी। उसके चेहरेपर  
तरहका स्वाधीन तेज था। उसके सामने जो-कुछ भी आता है, उसपर  
में से कम मन-हो-मन प्रश्न करनेमें उसके कोई रुकावट नहीं थी। सुसरालको  
चूप रहो”, “जो कहा है सो सुनो”, “बहुओंको ज्यादा चतुराइ दिखानेकी  
रुत नहीं” इत्यादि बातें उसे नहीं सुननी पड़ीं। इसीसे शायद वह सिर  
चुंचा करके सोधी खड़ी हो सकती है, उसको सरलतामें सवलता भौजूद है।

शिशिमुखीकी लड़की उमा उन दोनोंका पूरा ध्यान अपनी तरफ लीचनेकी  
धूषर कोशिश करती रही, फिर भी नई सखियोंमें परस्पर बातोंका सिलसिला  
जम उठा। इस बातचीतमें कमलाने अपनी तरफ काफी कमी महसूस  
हो। शिशिमुखीके अन्दर कहनेको बहुत-सो बातें हैं, कमलाके पास कुछ नहीं।  
कमलाके जोवनके चित्रपटपर उसके दाम्यत्यका जो चित्र अब तक अकित हुआ  
वह पेन्सिलकी रेखाओंके सिवा और कुछ नहीं, उसमें अभी स्पष्टता और  
रेस्फुटताकी कमी है। कमला अब तक इस शृन्यताको साफ-साफ समझ

नहीं पाए थी, और न उसके लिए उसे अवकाश ही मिला था। अपने हृदयमें उसे अभाव महसूस जहर हुआ है, पर उस अभावका रूप क्या है ऐ उसे नहीं मालूम था। कभी-कभी विद्रोही भाव भी आया है, किन्तु उसका अर्थ उसमें नहीं आया। मित्रताके आरम्भमें ही शशिमुखोने जब अपने पतिर थाँतें बताना शुरू किया तो जिस सुरमें उसके छद्यके सब तार बैधे हुए। उनपर डँगलियाँ पहते ही वे उसी सुरमें बज उठे, और तब कमलाने देखा वे उसके अपने हृदयमें बैधे सुरकी कोई झल्लार ही नहीं; पतिकी थाँतें वह का बताने, बताने लायक ऐसी चात ही क्या है। सुखमा बोझ लेकर शशिक उत्तिदाम जहाँ जोरोंसे घहता जा रहा है, कमलाकी रीती नाव वहाँ जमीनसे है लगी हुड़े है।

शशीका पति विपिन गाजीपुरमें आवगारी-विभागमें काम करता है चक्रवर्तीकी दो लड़कियाँ हैं। बड़ी लड़की सुमरालमें है। छोटीको वे इधरसे दर न दे सके कि फिर उनके पास रह ही कौन जायगा? इसलिए उन्होंने एक गरीब लड़केसे उसका व्याह कर दिया, और उसे अपने पास ही रख यहीं नोकरी लगा दी है। विपिन उन्हींके घर रहता है। घात करते-करते सहमा शग्नी बोल उठी—“तुम यहीं बैठना जरा, मैं अभी आईं।” और हृष्ण ही उण जरा-ना सुसकराकर काशन भी बता दिया—“वे नहा-धोकर तयार हैं ना-पीकर आफिस जायेंगे, उन्हें बिदा कर आऊँ।” कमलाने आर्थर्यके शाप पूछा—“वे नहा-धोकर तयार हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?” शशीने कह—“हँसी कर्यों उद्धाती हो। जैसे सबको मालूम होता है, वैसे ही मुस्ते हो गया। तुम ‘उन’के पंगोंको आहट कैसे जान जाती हो?” उतना कहकर वह कमलाकी ठोकी हिलाकर, मिरका पना राम्हालमर, लड़कीको गोदमें लेफर बढ़ासे गया। पग-पतिही भाषा टतनी महज है, कमलाको इस बातका अब तक पत नहीं था। वह उपनाम बैठी जगलेके बाहर देखती हुड़े न-जाने क्या-कर सोनती रही। डगलेके बाहर अमराटके ऐदृशी लालियाँ फूलोंसे न्या नड़े हैं और उनपर मामुसमियोंका बेला-ना लग गया है।

३२

गगाके किनारे खुली जगहमें अलग मकान लेनेको कोणिश चल रही है। भेशको गाजीपुरकी अदालतमें नियमानुसार प्रवेशाविकार पानेके लिए और अपने कामकी चोज-वस्त लानेके लिए एक बार कलकत्ता जाना पड़ेगा, किन्तु उसे कलकत्ता जानेकी हिमत नहीं पड़ती। कलकत्ताकी एक गलीका चिन्न उसके मनमें उदित होते ही उसकी छाती धड़कने लगती है। अभी तक गहाका जाल ढटा नहीं है, और इधर कमलाके साथ पति-पत्नीका सम्बन्ध प्रम्पूर्णरूपसे स्वीकार करनेमें देर करनेसे काम नहीं चल सकता। इसी अधेन-बुनमें उसका कलकत्ता जाना बार-बार स्थगित होने लगा।

कमला चक्रवर्तीके अन्त-पुरमें ही रहती है। बगलेमें कमरे कम शेनेसे रभेशको बाहरकी बैठकमें ही रहना पड़ता है। कमलासे मिलनेका उसे पौकों ही नहीं मिलता। इस अनिवार्य विच्छेदके विषयमें शशिमुखी बार-बार कमलासे अपना दुःख प्रकट करने लगी। कमलाने कहा—“बहन, क्यों तुम तनी फड़फड़ती रहती हो? ऐसी क्या बात है जिसके बिना चैन नहीं पड़ेगा?”

शशोने हँसते हुए कहा—“अहा हा! ऐसी क्या बात है, सो क्यों मैं हीं समझती? मनमें जो बीत रही है सो मैं जानती हूँ।”

कमलाने पूछा—“अच्छा बहन, सच बताओ, दो-चार दिन अगर विपिन गवू तुमसे न मिले, तो क्या तुम—”

शशिमुखीने गवके साथ कहा—“हाँ हाँ, दो-चार दिन बिना मिले उन्हें पड़ेगा न!”

इतना कहकर वह विपिन बाबूके अधैर्यके सम्बन्धमें किसे सुनाने थगी। आहके बाद पहले-पहल बचपनमें विपिनने बड़े-बूढ़ोंका व्यूह भेदकर अपनी गलिका बधूसे मिलनेके लिए कैसी-कैसी तरकीबें निकाली थीं, कब-कब वे असफल रहीं और कब-कब चोरी पकड़ी गई, दिनमें मिलनेको मनाहीका दुःख मेटानेके लिए भोजन करते समय आईनेमें कैसे चार आँखें होती थीं, ये सब बातें कहते-कहते पुरानी स्मृतियोंके आनन्दमें शशिमुखीका चेहरा हास्योज्ज्वल

हो उठा । उसके बाद जब आफिस जानेका किस्सा शुरू हुआ तो दोनोंकी हृदय-वेदना और जब-तब आफिससे भाग आनेकी बातें करते-करते वह बहुतसे किससे सुना गई । एक बारका किस्सा है कि समुक्तके किसी कामसे कुछ दिनोंके लिए विपिनको पटना जाना पड़ा था ; तब शशीने उससे पूछा, ‘पटनामें तुम अकेले रह सकोगे ?’ विपिनने गर्वके साथ कहा था, ‘क्यों, अकेले रहनेमें मुझे दर लगता है क्या ?’ इससे शशीको बड़ी ठेस लगी थी, उसने झटकर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जानेके पहले, रातको, वह जरा भी दुःख प्रकट नहीं करेगी । किन्तु उसकी वह प्रतिज्ञा ऐन वक्तपर आँसुओंमें ऐसी वह गई कि उसका फिर कहीं पता ही न लगा । और दूसरे दिन विपिन जब जानेको तैयार हुआ तो अचानक उसका ऐसा सिर दुखने लगा कि यात्रा स्थगित रखकर डाक्टरकी शरण लेनी पड़ी, और अन्तमें दवा नालीमें डालकर किस तरह रोग दूर हुआ, यह कहते-कहते शाम हो गई । इतनेमें सहसा दूसरे किसीके पैरोंकी आहट सुनकर वह चंचल हो उठी । विपिन आफिससे लौटा है । बातचीतकी इस तंत्त्वजीवनतामें भी शशीके कान इसी आहटकी बाट देख रहे थे ।

कमलाके लिए ये बातें विलकुल आकाश-कुसुम ही हीं सो बात नहीं । इस तरहका आभास उसे कुछ-कुछ मिला है । पहले-पहल कई महीने तक रमेशके साथ प्रथम-परिचयके रहस्यमें इष्टी तरहकी एक रागिणी बजा करती थी । उसके बाद, स्कूलसे निकलकर कमला जब दुबारा रमेशके पास आई तब कभी-कभी ऐसी तरगोने अपूर्व सनीत और रमणीय नृत्यसे उसके हृदयपर आधात किये हैं, जिसके ठीक मानी वह शशिमुखीके इन किस्सोंसे समझ रही है । पर उसका यह सब कुछ दृटा-फूटा है, उसमें धारावाहिकता कुछ भी नहीं । मानो उसे किसी एक परिणाम तक नहीं पहुँचने दिया गया । शशिमुखी और विपिनमें जो एक आश्रिता खिचाव है, वैसा खिचाव रमेश और कमलामें कहीं है ? इधर जो कई दिनोंसे उन दोनोंका मेल नहीं हो रहा है, उससे उसके मनमें अस्थिरता कहीं पैदा हो रही है ? और रमेश भी क्या उसे देखनेके लिए बाहर घैठा-घैठा तरह-तरहकी तरकीबें मोच रहा होगा ? उसे विश्वास नहीं होता ।

इस बीचमें, जिस दिन रविवार आया, उस दिन शशो जरा-कुछ परेशानीमें पड़ गई। उसे अपनी नई सखीको दिन-भरके लिए बिलकुल अकेली छोड़नेमें शरम मालूम होने लगी, और नहीं छोड़ती है तो आजको छुट्टी बिलकुल व्यर्थ चली जाती है। इतना बड़ा खाग उससे करते नहीं बनता। दूसरे, रमेश बाबूके इतने पास रहते हुए भी कमला जब कि मिलनसे बचित है तब छुट्टीके उत्सवका पूरा आनन्द लेनेमें उसका हृदय व्यथित होने लगा। किसी तरह रमेशसे कमलाका मेल हो जाता तो वह सुखसे छुट्टी बिता सकती।

इन सब विषयोंमें बड़े-बूढ़ोंसे सलाह-मशविरा नहीं किया जा सकता। किन्तु चक्रवर्ती-चचा सलाह-मशविराके भरोसे रद्दनेवाले आदमी नहीं। उन्होंने घरमें प्रचार कर दिया कि आज वे किसी जरूरी कामसे बाहर जा रहे हैं। रमेशको समझा गये कि आज उनके घर बाहरका कोई नहीं आनेवाला, वे बाहरका फाटक बन्द करके चले जा रहे हैं। और यह सवाद अपनी लड़कीको भी सुना गये। सवादका गूढ़ अर्थ समझना शशीके लिए कठिन न था।

नहानेके बाद शशीने कहा—“आओ बहन, तुम्हारा जूँड़ा वाँध दूँ।”

कमलाने कहा—“क्यों, आज इतनी जल्दी काहेकी है?”

शशी—“सो पीछे बताऊँगी, पहले जूँड़ा वाँध दूँ।” कहकर कमलाको अपने सामने बिठा लिया; और बड़े समारोहके साथ उसका जूँड़ा वाँधने लगी। बहुत देर तक केश-विन्यास होता रहा। उसके बाद कपड़े पहननेके विषयमें जबरदस्त बहस छिड़ गई। कमलाकी कुछ समझ ही में न आया कि शशी उसे एक खास रंगीन साढ़ी पहनानेके लिए क्यों इतनी जिद कर रही है? अन्तमें, शशीको खुश करनेके लिए उसे वह साढ़ी पहननी ही पढ़ी।

दोपहरको खाना-पीना हो जानेके बाद शशी अपने पतिके कानमें कुछ कहकर थोड़ी देरके लिए छुट्टी ले आई। उसके बाद कमलाको बाहरको बैठकमें भेजनेके लिए वह उसके पीछे पड़ गई।

इसके पहले कमला रमेशके पास अनेकों बार बिना किसी सँझोचके यों ही गई है। इस सम्बन्धमें समाजमें लज्जा दिखानेका कोई विवान है, इतना सोचनेका उसे कभी अवसर ही नहीं मिला। परिचयके आरम्भमें ही रमेशने

उसकी लज्जा दूर कर दी थी , और निर्लज्जता का दोष देकर धिकार देनेवाली साधिन भी उसके आसपास कोई नहीं थी । किन्तु आज, शशिमुखोङ्गा अनुरोध पालन करना उसके लिए दुःसाध्य हो उठा । पति के पास शशी जिस अधिकार से जाती है उसे वह जान-गई है । कमला उस अधिकार का गौरव जब कि अपने में अनुभव ही नहीं कर रही, तो दीनभाव से आज वह कैसे जाय ?

कमला जब किसी भी तरह राजी नहीं हुई तो शशीने समझा, रमेश से वह रुठी हुई है, यह मानिनी का मान है । क्यों न हो, कई दिन बीत गये, रमेश बाबू क्या किसी भी बहाने से एक बार उससे भिल नहीं सकते थे ?

शशी की माँ उस समय खा-पीकर अपने कमरे का दरवाजा बन्द करके सो गई थीं । शशीने विपिन से कहा—“रमेश बाबू को तुम आज कमला का नाम लेकर भीतर बुला लाओ । बापूजी कुछ नहीं कहेंगे, और माको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा ।” विपिन जंसे सकोचशील आदमी के लिए इस तरह का दौख करना किसी भी हालत में सचिकर नहीं हो सकता ; फिर भी, छुट्टी के दिन खासकर किये-जानेवाले इस अनुरोध की वह उपेक्षा न कर सका ।

रमेश तब बाहर की बैठक में जाजिम पर चित्त पढ़ा हुआ ‘पायोनियर’ अखबार पढ़ रहा था । पाठ्य विषय खतम करके, काम के अभाव में जब वह विज्ञापनों की तरफ ध्यान दे रहा था तब अचानक विपिन को आते देख वह प्रसन्न होकर उठ घैठा । साथी के लिंदाज से विपिन कोई पहले दरजे की चीज नहीं, फिर भी, विदेश में दोपहर का बक्स काटने के लिए रमेशने उसे परम-लाभ के रूप में ही ग्रहण किया, बोल उठा—“आइये विपिन बाबू, आइये, बंठिये ।”

विपिन बैठा ‘नहीं, खदान-खदान ही सिर पर हाथ फेरता हुआ थोला—“आपको भीतर वे जरा बुला रहे हैं ।”

रमेशने पूछा—“कौन, कमला ?”

विपिन थोला—“हाँ ।”

रमेश कुछ आश्चर्य में पढ़ गया । हाली कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह कमला को खाके स्पर्श में ही ग्रहण करेगा, किन्तु फिर भी, उसका स्वभावतः दुष्किंचित् करनेवाला मन, उसके पहले, इवर कई दिनों से विश्राम कर

रहा था, इसलिए वह ऐसी बुलाहटके लिए तैयार नहीं था। अपनी कल्पनामें कमलाको गृहिणीके पदपर अभिषिक्त करके उसने अपने मनको नानाप्रकारके भावी सुखके आश्वाससे उत्तेजित भी कर लिया था, किन्तु प्रथम-आरम्भ ही उसके लिए दुरुह हो रहा था। कुछ दिनसे कमलासे जितनी दूर रहनेका उसे अभ्यास हो गया था, सहसा उसे कैसे तोड़े, उसकी कुछ समझमें नहीं आ रहा था; और इसीलिए किसी तरहकी ज्यादतो करनेकी उसे कोई जल्दी नहीं थी।

'कमला बुला रही है' सुनकर रमेश सोचने लगा, कमलाको मुस्लसे कोई जरूरी काम होगा। फिर भी, जरूरी कामकी पुकार होनेपर भी, उसके मनमें एक तरहकी हिलोर उठने लगी। 'पायोनियर' छोड़कर जब वह विपिनके पीछे-पीछे भीतर जाने लगा—मुच्चे उस मधुकर-गुज्जित कार्तिकके अलस-दीर्घ जनहोन मध्याह्नमें एक तरहके पत्ते बड़ेके आभासने उसके चित्तको चश्चल कर दिया।

विपिन कुछ दूरसे कमरा दिखाकर चलता बना। कमलाने समझा था कि शशी उसके विषयमें निराश होकर विपिनके पास चली गई है। और इसलिए वह खुले दरवाजेकी चौखटपर बैठी सामनेके बगोचेको तरफ देख रही थी। शशीने न-जाने कैसे कमलाके भीतर और बाहर प्रेमका एक मोठा सुर बाँध देया है। कुछ-गरम हवासे बाहर पेड़के पत्ते जैसे मरमराकर काँप उठते हैं, कमलाकी छातीके भीतर भी उसी तरह गहरी साँसोंकी हवासे अव्यक्त वेदनाका एक अपूर्व स्पन्दन शुरू हो गया है।

इतनेमें रमेशने कमरेमें आकर जब उसे पुकारा, 'कमला !' तो वह चौंक कर तुरत उठ खड़ी हुई। उसके हृदयका रक्त तरङ्गित हो उठा। जो कमला इसके पहले कभी भी रमेशसे विशेष नहीं शरमाई, आज वह अच्छी तरह मुँह उठाकर उसकी तरफ देख भी न सकी। उसको लोलकियाँ सुर्ख हो उठीं। प्राजके साज-सिगार और भाव-आभाससे रमेशने कमलाको नई मूर्तिमें देखा। उहसा कमलाके विकाशने उसे 'आश्चायमें डाल दिया, वह मन्त्रमुग्ध-सांडा-खड़ा देखता रहा, और दूसरे ही क्षण धीरे-धीरे कमलाके पास खड़ा होकर पृष्ठस्वरमें बोला—“कमला, तुमने मुझे बुलाया है ?”

कमला चौंक उठी, और अनावश्यक उत्तेजनाके साथ बोली—“नहीं-नहीं, मैंने नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाने लगी!”

रमेशने कहा—“बुलानेमें दोष क्या है कमला?”

कमला दूजी प्रवलताके साथ बोली—“नहीं, मैंने नहीं बुलाया।”

रमेशने कहा—“तो अच्छा ही है। तुम्हारे बुलानेके पहले ही मैं आ गया। अब क्या मुझे अनादरसे लौट जाना पड़ेगा?”

कमला—“तुम यहीं आये हो, सब जान जायेंगे तो नाराज होंगे। तुम जाओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया।”

रमेशने कमलाका हाथ दबाते हुए कहा—“अच्छा, तुम बाहर मेरे कमरेमें चलो। वहाँ कोई भी नहीं है।” नवूक्रे

कौपती-हुई कमलाने जल्दीसे रस्फेंद नहीं, ये दृढ़ाकर अलग कर दिया और घगलके कमरेमें भागकर भीतरसे दरवाजा बन्द कर लिया। रमेशने समझा, यह सब-कुछ घरको किसी तरणीका घट्यन्त्र है; और वह पुलकित-चित्तसे बाहरकी घैठकमें चला गया। चित पहुँच फिर एक बार वह ‘पायोनियर’ पढ़नेकी कोशिश करने लगा, किन्तु मानो कुछ भी समझमें नहीं आये। उसके हृदयाकाशमें भावोंके रग-विरगे बादल इधरसे उधर उड़ते फिरने लगे।

गशीने आकर बाहरसे दरवाजा खटखटाया। किसीने दरवाजा नहीं खोला। तब उसने दरवाजेकी झिलमिली उठाकर हाथ बढ़ाकर साकिल खोल दी। कमरेमें घुसकर उसने देखा, कमला जमीनपर आँधी पढ़ी दोनों हथेलियोंपर मुँह रखे रो रही है। देखकर वह दंग रह गई। ऐसी क्या घात हो सकती है जिससे कमलाको इतनी गहरी टेस लगी हो? जल्दीसे उसके पास जाकर दिनध कण्ठसे उसने कानमें पूछा—“क्यों बहन, तुम्हें क्या हो गया, रो क्यों रही हो?”

कमलाने कहा—“तुमने क्यों उन्हें भीतर बुलाया? यह तुम्हारा बद्दा-भारी अन्याय है।”

कमलाके इस आकस्मिक आवेगकी प्रवलताको समझना दूसरोंके लिए तो बठिन है ही, नुद उसके लिए भी लासान नहीं। इस बीचमें उसके अन्दर

कितनी गुस वेदनाओंका सञ्चार हुआ है, कोई नहीं जानता। कमला आज अपने कल्पना-लोकमें पूरे अधिकारके साथ बैठी थी। रमेश अगर खुब आसानीसे उसमें घुस सकता, तो वह दोनोंके लिए अत्यन्त सुखकर होता। किन्तु उसे जो बुलवाया गया, इससे सब मटियामेट हो गया। छुट्टीके दिनोंमें स्कूलमें उसे कैद कर रखनेकी कोशिश, स्टोमरमें रमेशकी तरफसे उपेक्षा-भाव, इन सब बातों ने उसके मनकी गद्दराईमें खलबली पैदा कर दी थी। रमेश खुद आता तो भी वह मिलन होता और बुलानेपर आया तो भी मिलन हो हुआ, ऐसा वह नहीं समझती। असल बात क्या है, सो गाजीपुर आनेके बाद वह थोड़ हो दिनमें सघट समझ गई है। किन्तु, शशीके लिए ये सब बातें समझना मुश्किल है। कमला और रमेशके बीच सचमुचका कोई व्यववान हो सकता है, शशी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने बड़े प्यारसे कमलाका सिर अपनी गोदमें रखते हुए पूछा—“क्यों बहन, रमेश बाबूने क्या तुमसे कोई कढ़ी बात कह दी है? शायद ‘वे’ उन्हें बुलाने गये थे इसलिए नाराज हो गये होंगे? तुमने कह क्यों नहीं दिया कि यह सब मेरी करतूत है?”

कमलाने कहा—“नहीं-नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर, क्यों तुमने उन्हें बुलवाया?”

शशी दुःखित होकर बोली—“अच्छा, मुझसे गलती हो गई बहन, माफ करो।”

कमला चटसे उठकर उसके गलेसे लिपट गई, बोली—“जाओ बहन, तुम जाओ, विपिन बाबू गुस्सा हो रहे होंगे।”

बाहर बैठकमें अकेला लेटा हुआ रमेश कुछ देर तक ‘पायोनियर’ पढ़नेकी शैया कोशिश करता रहा, और फिर उसे झटकेसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसके बाद उठके बैठ गया, और अपने आपको कहने लगा, ‘नहीं, अब नहीं। कल ही कलकत्ता जाकर तैयार हो जाऊँगा। कमलाको स्त्रीके रूपमें स्वीकार करनेमें जितनी ही देर हो रही है, उतना ही उसपर अन्याय हो रहा है।’ और इस तरह, रमेशकी कर्तव्य-गुद्धि आज अचानक जाग उठी, और वह अपने सम्पूर्ण सशय और सारी दुष्प्रधाओंको एक ही छलांगमें लाँधकर पार हो गया।

पूरा नहीं हुआ। वगला बहुत दिनोंसे बन्द पड़ा था, इस बहुत देरसे खड़े दिन वो-पोछकर दरवाजे-जंगले खुले रखे बगेर वह र-  
लिहाजा, उस दिन भी उन्हें चचाके घर ही रहना  
मन आज कुछ भारी ही रहा है। आज वह तबीयत ठीक नहीं क्या ?  
कि आज उसके एकान्त घरमें सध्याप्रदे  
हास्यके मामने वह अपने परिपूर्ण चाचाजीको नहीं देख रही, कहाँ गये  
जब उसने और-भी दो-चार दिनुद्दुया हैं न, जीजोको टेख आनेके लिए मारे  
कामसे इलाहाबाद चला गयुछ दिनोंसे जीजीको तबीयत खराब चल रही  
. क आयेंगे ?”

भरमें लौट आयेंगे। वगला सजानेमें तुम दिन-भर  
दूसरे दिन। आज तुम बड़ी उदास मालूम हो रही हो। जल्दी खा-  
विपिन खा-पी अच्छा है।”

कमलाशिमुखीसे मनकी सब बात कह सकती तो कमला जी जाती, पर क-  
नीरु नहीं, कैसे कहे ? ‘जिसे अब तक मैं अपना पति समझ रही थी, वा  
पति नहीं’ वह बात और चाहे किसीसे कहे या न कहे, पर शशिमुखों  
द्वारगिज नहीं कही जा सकती।

कमलाने अपने कमरेमें जाकर किवाड़ बन्द कर लिये, और बत्तीके पास  
जाकर फिर उस चिट्ठीको पढ़ने लगा। चिट्ठी जिसके लिए लिखी गई है, उसमें  
उसमें नाम नहीं, पता नहीं, किन्तु वह है लड़कों ही। रमेशके साथ उसके  
साथ ही थी, और कमलाकी बजहसे ही वह छूट गड़े, वह बात चिट्ठी  
साफ जाहिर है। जिसे चिट्ठी लिखी गड़े है, उसे रमेश सम्पूर्ण हृदयसे चाहत  
है, और देवके फेरसे कमला न-जाने कहासे आकर उसके सरपर सबार हो गई  
जिससे उसपर दवा करके उसे अपना यह प्रेमका बनवन हमेशाके लिए तोड़-  
पड़ रहा है – इन सब बातोंका भी चिट्ठीमें उल्लेख है।

उस दिन नदीकी गोदमें रेतीपर पहले-पहल उनका जो मिलत हुआ था  
तबसे लेहर गाजीपुर आने तककी सारीकी स्मृतियाँ कमलाके मनमें बह  
काटने लगी। जो कुछ अस्पष्ट था, आज वह सबका सब स्पष्ट हो गया।

इतनेमें दरवाजेके पास उमेश आ खड़ा हुआ। पहले तो वह थोड़ा साँसा-खखारा, किन्तु उससे भी जब कमलाका ध्यान आकर्पित न हुआ तो उसने धोरेसे पुकारा—“जीजी-बाई !” कमला दरवाजेके पास चली आई। उमेशने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा—“जीजी-बाई, आज सिद्धो बाबूकी लड़कीके ब्याहमें कलकत्तासे नाटक खेलनेवाले आये हैं !”

कमलाने कहा—“अच्छी बात है, तू देख आना ।”

उमेश—“कल सवेरे क्या फूल चुन लाने होंगे ?”

कमला—“नहीं, जहरत नहीं ।”

उमेश जब जाने लगा तो अचानक कमलाने उसे बुलाया—“ओ उमेश, सुन जा। नाटक देखने जा रहा है, ये ले, पांच रुपये ।”

उमेश ताज्जुबमें पढ़ गया। ब्याहके घरमें नाटक है, उससे पांच रुपयेका क्या सम्बन्ध ? बोला—“जीजी-बाई, शहरसे तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या ?”

कमलाने कहा—“नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपने पास रस, खर्च-पातीके काम आयेंगे ।”

हतबुद्धि उमेश जाना ही चाहता था कि कमलाने फिर उसे बुलाकर कहा—“क्यों रे, तू क्या इन्हीं कपड़ोंसे नाटक देखने जायगा ! लोग क्या कहेंगे ?”

लोग उमेशकी पोशाकके सम्बन्धमें ज्यादा आशा रखते हैं या उसे देखकर किसी तरहकी चरचा करते हैं, उमेशकी ऐसी कोई धारणा नहीं थी, और इसीलिए धोतीकी शुभ्रता और चोला बगेरहके अत्यन्त अभावके सम्बन्धमें वह पूरा उदासीन था। कमलाका प्रश्न सुनकर कुछ बोला नहीं, सिर्फ जरा मुसकरा दिया। कमलाने दो जोड़े साड़ीके निकालकर उसके सामने पटकते हुए कहा—“ये ले, तू पहनना, जा ।”

साड़ीको बहारदार चौड़ी किनारी देखकर उमेश अत्यन्त उत्सुक हो उठा। उसने कमलाके पाँवोंके पास सिर टेककर प्रणाम किया, और हँसो दबानेको व्यथ कोशिशमें सारे चेहरेको विकृत करता हुआ चला गया। उमेशके चले जानेपर कमलाने आँसू पोङे, और खिड़कीके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई।

कुछ देर बाद शशिमुखीने आकर कहा—“क्यों वहन, चिन्हों मुझे नहीं दिखाओगी ?”

मुझे खूब याद है, तूने मुझसे पूछा था, 'मा कहाँ है ?' मैंने कह दिया, 'मेरी अपने चापूजीके पास गई है ।' तेरे जन्मनेसे पहले ही तेरी माके पिताजी मृत्यु हो गई थी । तू उन्हे जानती नहीं थी । मेरी बात सुनकर तू कुछ समझ न सकी, मेरे मुहको तरफ देखती रही । थोड़ी देर बाद तू मुझे अपने माके सूने घरकी तरफ ले जानेके लिए मेरा हाथ पकड़कर खोचने लगी । तेरे पिलास था कि मैं तुझे वहाकी शृण्यताके भीतर तेरी माका कुछ सन्धान कर सकता हूँ । तू समझती थो कि तेरा बाप बड़ा-भारो आदमी है ! यह बात कभी तेरे मनमें भी नहीं आई कि जो असल बातें हैं उनके सम्बन्धमें तेरा बड़ा भारी बाप बच्चोंसे भी गया-बोता है । आज भी मैं सोचता हूँ कि हम कितने असर्वथ हैं, कितने लाचार हैं ! इश्वरने बापके मनमें स्नेह दिया है, किन्तु कितनो कम क्षमता दी है ।"—कहते हुए उन्होंने हेमके माथेपर अपना दाहन हाथ रखकर आयद मन-ही-मन आशीर्वाद दिया, और चुप हो गये ।

हेमनलिनी अपने पिताके उस कल्याणवर्षी कांपते हुए हाथको अपने दाहने हाथमें रखकर उसपर हाथ फेरने लगी । और बोली—“माकी मुझे बहुत कम धुँवली-सी याद है । मुझे याद आता है, दोपहरको वे विस्तरपा पढ़ी किताब पढ़ती थीं । मुझे उनका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इमलियामें उनके हाथसे किताब छीन लेनेको कोशिश करा करती थी ।”

इससे, फिर उन दिनोंकी बात छिह्न गई । मा कैसी थीं, क्या करती थीं तब क्या होता था, इन सब बातोंको चरचा होते-होते सूरज ढूब गया और आङ्गारका रंग मैले तांवे जैसा हो गया । चारों तरफ शहरके कर्म-जोगी कोलाहल है, उम कोलाहलमें एक गलीके मकानकी छतपर एक कोनेमें बैठे और नवोना दोनों मिलकर, पिता और मुत्रीके चिरन्तन स्निग्ध सम्बन्ध मध्याकाशको स्त्रियमान छायामें अश्रुमिक्त माधुरीको प्रस्फुटित करने लगे ।

ठीक इसी समय, जीनेमें योगेन्द्रके परोक्षी आहट सुनकर दोनोंका इरहा आलाप उत्तोष क्षण बन्द हो गया, और दोनोंके दोनों चक्षित होकर उठ चढ़े, योगेन्द्रने आकर दोनोंके मुहको तरफ तीव्र दृष्टि देत्या, और कहा—“ममा आजकल छतपर दी लगती है मालम होता है ।”

योगेन्द्रने कहा—“इस बातको याद करके, ‘अच्छो चोज’ भी तुम्हें कभी अत नहों कहके वापस न कर दे, मेरा यहो आशेवादि है।”

बहुत दिन बाद आज अननदा बाबूको चायको टेबिलपर बात बोतका सहज प्रसिला जम उठा। सावारणतः हेमनलिनी शान्तभावसे हस्ता करतो हैं। तु आज उसको हँसो बातचातके ऊर खिल खिल उठनो है। हमो हँसोमें ऐसे उसने कहा—“वापूजी, अक्षय बाबूको हरकत तो देखिये, कहे दिनोंके शारी गोलियाँ नहीं खाएँ, फिर भी उनकी तबोयत शिलकुठ दुष्ट है। इंजरा भी कृतज्ञता होतो, तो कम-से-कम दर्द तो होता।”

योगेन्द्रने कहा—“गोली-हराम और किसे कहते हैं?”

अननदा बाबू अत्यन्त खुश होकर हँसने लगे। बहुत दिन बाद आज फिर उनकी गोलियोंकी शोशीपर लोगोंका कटार शुड हुआ, इसे उन्हाने अपने वारिक स्वास्थ्यका लक्षण समझा। आज उनके मनसे एक तरदफ़ा बोक्स सा र गया। बोले—“यह कैसो बात है! आइमोके विश्वासपर हस्तक्षेर करना नहीं। मेरे गोल्याहरो-दलमें एकमात्र अक्षय ही वाकी बचा है, उसे तुमलोग बहकाये दे रहे हो।”

अक्षयने कहा—“इसका कोई डर नहीं, बाबू साहब! अक्षयका क्षय करना न नहीं।”

योगेन्द्रने कहा—“वेसे ही जैसे जालो सिक्केका क्षय असान नहीं! क्षय को कोशिश की नहीं कि पुलिसके पजेमें फँसे।”

तरह हास्पालायके जादूने मानो अननदा बाबूको चायकी टेबिलपरसे खोपीका भूत उतार दिया। आजको यह चायकी सभा जल्दी भज्ज नहीं करेंगे, अत आज यथासमय हेम बाल नहीं बांध सको थी, इसलिए उसे उठ जास्ता। और तब अक्षयको भी एक खास कामको याद उठ आई और वह पाया।

दोने कहा—“वापूजी, अब देर करना ठीक नहीं। जल्दी हो ब्याहका रना चाहिए।” सुनकर अननदा बाबू लड़केके मुँहकी तरफ देखते योगेन्द्रने कहा—“मेशसे सम्बन्ध ठूट जानेसे समाजमें बढ़ो-भारी

जानाकूसी चल रही है; इस बातको लेकर मैं अब और कहा तक लोगोंसे लड़ता फिरु? सब बातें अगर खुलासा रहनेकी होतीं तो लड़नेमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। किन्तु हेमके लिए मुँह खोलना भी असम्भव है; अब तो हाथापाईके सिवा और-कोई चारा नहीं। उस दिन अखिलको चावुक लगाने पढ़े थे; मुझ या कि वह जो मुँहपर आता है वही कहता फिरता है। जल्दीसे अगर हेमका व्याह हो जाय तो सारा झगड़ा ही भिट जाय, और मैं भी सारी दुनियाँकी आत्मीय ठठाकर चिनोती देनेसे बाज आऊँ। मेरी बात सुनो, अब देर मत करो।”

अन्नदा—“किससे व्याह दूँ?”

योगेन्द्र—“सिर्फ एक आदमी है, जो इतना काण्ड और इतनी उधमशाजी के बाद भी व्याह करनेको राजी हो सकता है। नहीं तो, अब लड़का मिलना मुश्किल हो दूँ।”

अन्नदा—“कौन है वह?”

योगेन्द्र—“अक्षय। उसे गोली खानेको कहो तो गोली भी खा सकता है, और व्याह करनेको कहो तो व्याह भी कर सकता है।”

अन्नदा—“तुम्हारा दिमाग खालब हो गया है क्या। अक्षयसे व्याह करनेको हेम कभी राजी हो सकतो है।”

योगेन्द्र—“तुम अगर चीचमें कुछ गहरड़ी न करो, तो मैं हेमको राजी करा सकता हूँ।”

अन्नदा यावू व्यस्त हो उठे। बोले—“नहीं योगेन, नहीं, तुम हेमको समझते नहीं। तुम डराकर, तकलीफ देकर उसे बेचैन कर दोगे। कभी टसे कुछ दिन स्वस्थ रहने दो। उसने बहा कष उठाया है, बैचारीको जरा सौंप देने दो। ज्यादके लिए कभी काफी समय पहा हुआ है।”

योगेन्द्रने कहा—“मैं उसे जरा भी तकलीफ नहीं दूँगा। जहाँ तक सावधानी और नरमाईसे काम निकाला जा सकता है, निकालूँगा। तुम्हारा मैं यह स्वाल है कि मैं यिन्हा कामहेको कोई काम ही नहीं कर सकता?”

योगेन्द्र अवोर-प्रहृतिका आदमी है। उस दिन शामको हेम उसी ही बाल बांधकर निरुनी रथों दी योगेन्द्रने उसे दुलालर कहा—“हेम, एक बह

सुनना ।" सुनते ही हेमका कलेजा काँप उठा । वह योगेन्द्रके पीछे पीछे जाकर उसके कमरे में बैठ गई । योगेन्द्रने कहा—“हेम, बापूजीकी तनदुरुस्ती कितनी बिगड़ गई है, देख रही हो ?”

हेमके चेहरेपर उद्देश्यकी छाया-सी पड़ गई ; वह कुछ बोली नहीं ।

योगेन्द्र कहने लगा—“मेरा कहना है कि इसका प्रतिकार होना चाहिए ; नहीं तो, वे सख्त बीमार पड़ जायेंगे ?”

हेमनलिनी समझ गई, पिताके इस अस्वास्थ्यके लिए सारा अपराध उसीके सिर मढ़ा जा रहा है । वह सिर मुकाये हुए अपनी साढ़ीकी किनारी खींचने लगी । कुछ बोली नहीं । योगेन्द्र कहता गया—“जो हो गया सो तो हो ही गया ; बीती हुई बातपर जितना ही पछताती रहोगी उतनी ही दमलोगोंकी शरमिन्दगी बढ़ती जायगी । अब भी बापूजीके मनचो अगर पूरी दरह स्वस्थ रखना चाहती हो, तो जितनी जलदी हो सके, सारीकी सारी मिछली गतोंको जड़से खत्म कर देना होगा ।” इतना कहकर वह जवाबको उम्मीदमें हमनलिनीके मुँहकी तरफ देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा ।

हेमने शरमाते हुए कहा—“इन सब बातोंको लेकर मैं बापूजीको कभी भी ऐशान नहीं कहूँ गी ।”

योगेन्द्र—“तुम तो न करोगी, मान लिया । लेकिन, इससे तो आदमीकी जान नहीं रुक सकती ।”

हेम—“इसका मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ ?”

योगेन्द्र—“चारों तरफ तरह-तरहकी जो चरचा हो रही है उसे बन्द करनेका सिर्फ एक ही उपाय है ।”

योगेन्द्रने अपने मनमें जो चात तय कर रखी है उसे समझते ही हेम ख्वासे बोल उठी—“फिलहाल बापूजीको साथ लेकर बाहर कहीं चला जाय तो सो रहे २ दो-चार महीने बाहर घूम आनेसे सबकी तनदुरुस्ती भी ठीक हो जायगी, और चरचा भी बन्द हो जायगी ।”

योगेन्द्रने कहा—“उससे भी पूरी कामयाबी नहीं हो सकती । जब तक ऐजोको यह नहीं मालूम हो जाता कि तुम्हारे मनका क्षोभ बिलकुल दूर हो

गया है, तब तक उनके मनमें काँटा चुभता ही रहेगा, तब तक वे हरपि स्वस्थ नहीं हो सकते।”

देखते देखते हैमनलिनीकी आँखोंमें असू भर आये। जल्दीमें उसने आँ पौछ ढलौं, और कहा—“मुझे क्या करनेको कहते हो?”

योगेन्द्रने कहा—“मेरी बात तुम्हें जहर कठोर मालम होगी, मैं जान हूँ; लेकिन सब तरफसे आगर मगल चाहो, तो जल्दसे जल्द तुम्हें व्याह कर होगा।” हैम स्तव्य होकर बैठो रहो। योगेन्द्र अपने अधैर्यको सम्माल : सका; बोल उठा—“हैम, तुमलोग कल्पनाके द्वारा छोटी-छोटी बातोंको बहु घड़ी करके देखा करती हो। तुम्हारे व्याहके सम्बन्धमें जो गढ़वाल हुई है ऐसी गढ़वाल कितनो ही लङ्कियोंके जीवनमें हुआ करती है, और फिर व्या हो जानेके बाद वह मिट भी जाती है। नहीं तो, घरमें बात-बातपर उपन्यास बनाते रहनेसे आदमी जो बैसे सकना है? ‘आजोवन मन्यासिनी बनकर छतपा बैठके आकाशकी तरफ देनती रहूँगी, किसीको सिद्ध्याचारिताको स्वृद्धि हृदय-मन्दिरमें स्थापित करके उसकी पूजा करती रहूँगी’, इन सब बातोंसे माझ रचना तुम्हारे लिए लज्जाजनक भले ही न हो, पर हमें तो मारे शरमके ग जाना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके, किसी भद्र गृहस्थके घर व्याह करने अपने इम काव्यको खतम कर डालो। इसीमें सबको भलाई है, समझो!”

लेगोंकी दृष्टिमें हैमका जीवन जो काव्य बना जा रहा है, इम बातों का अन्दो तरह समझती है, और इमकी लज्जा उसके लिए कितनी पीड़ादायक है सो वहो जानती है। योगेन्द्रके व्यग-वाक्य उसके हृदयमें शूलको तरह तुम गये। उसने कहा—“भाई माहव, मैंने यह कथ कहा है कि मैं सन्याम लूँगी, व्याह नहीं कहूँगी।”

योगेन्द्रने कहा—“अगर ऐसा नहीं है तो व्याह करो। मगर हाँ, तुम अगर यह कहो कि मुझे तो स्वर्गीजपका इन्द्र ही चाहिए, उसके सिवा मुझे और कोई परमन्द नहीं, तब तो मन्यास हो लेना पड़ेगा। मंसारमें इच्छानुग्रह क्या क्या मिलता है? जो मिलता है, मनको उसीके अनुकूल बना लेना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ, इसीमें मनुष्यका यथार्थ महत्त्व है।”

हेमने कहा—“भाई साहब, तुम मुझसे ऐसी चुभनेवालों वाले क्यों करते हो ? मैंने क्या तुमसे पसन्दके बारेमें कोई बात कही है ?”

योगेन्द्र—“कही तो नहीं ; लेकिन मैं देख रहा हूँ, विना-कारण और अन्यायपूर्वक तुम किसी-किसी हितैषी बन्धुपर साफ तौरसे विटेप जाहिर करती रहती हो । लेकिन यह बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि इस जीवनमें जितने आदमियोंसे तुम्हारा परिचय हुआ है, उनमें सिर्फ एक आदमी ऐसा पाया गया है जो सुखमें दुखमें, मान-अगमानमें तुगहारे प्रति अपने हृष्यको स्थिर रख सका है । इसोलिए मेरे मनमें उसके प्रति आफी श्रद्धा है । तुम्हें सुखी करनेके लिए वह अपना जीवन दे सकता है । ऐसा पति अगर चाहो तो उसे ढूँढनेमें भटकना नहीं पड़ेगा । और अगर काव्य हो रचना चाहती हो तो—”

हेमनलिनी उठके खड़ी हो गई, और बोली—“मुझसे तुम इस तरह बात न करो । बापूजी मुझे जैसी आज्ञा देंगे, जिससे व्याह करनेको बहेगे, मैं उनकी आज्ञाका पालन करूँगी । अगर न करूँ, तब तुम जो जीमें आये सो कहना ।”

योगेन्द्र उसी क्षण नरम पड़ गया, बोला—“हेम, नाराज न होओ, बहन ! तुम तो जानती हो, मेरा मन खराब हो जानेसे दिमाग ठीक नहीं रहता, जब जैसा मनमें आता है, कह बैठता हूँ । मैं क्या बचपनसे तुम्हें नहीं जानता, लज्जा तुम्हारे लिए कितनी स्वाभाविक है और बापूजीसे तुम कितना मोह करती हो !” इतना कहकर योगेन्द्र अननदा बाबूके कमरेमें चला गया । अननदा बाबू इस बातकी कल्पना कर-करके कि योगेन्द्र अपनी बहनको न-जाने कैसे-कैसे उत्पीड़ित कर रहा होगा, अत्यन्त उद्विग्न हो रहे थे, और भाई-बहनकी बातचीतके बीचमें पहुँच जानेके लिए उठना ही चाहते थे कि इतनेमें योगेन्द्र आ पहुँचा । अननदा बाबू उसके मुँहकी तरफ देखने लगे । योगेन्द्रने कहा—“बापूजी, हेम व्याहके लिए राजी हो गई है । तुम समझते होगे कि मैंने उसे बर्दस्ती राजी किया होगा । मैंने कतई जोर नहीं दिया । अब तुम अगर उसे कह दो, तो वह अक्षयसे व्याह करनेमें कोई आपत्ति नहीं करेगी ।”

अननदा बाबूने कहा—“मुझे कहना पड़ेगा ?”

योगेन्द्र—“तुम नहीं कहोगे तो क्या वह खुद कहने आयेगो कि मैं

अक्षयसे व्याह कहूँगो ।” अच्छा, अपने मुँहसे कहनेमें तुम्हें अगर सङ्कोच है, तो मुझे आज्ञा दो, मैं उससे तुम्हारी आज्ञा कह दूँगा ।”

अनन्दा बाबू अत्यन्त चक्षल हो उठे, बोले—“नहीं-नहीं, मुझे जो कुछ कहना दोगा, मैं खुद ही कहूँगा । पर इतनो जल्दबाजो करनेको क्या जस्त है ? मेरी रायसे और-भी कुछ दिन जाने दो ।”

योगेन्द्रने कहा—“नहीं बापूजी, देर करनेसे तरह-तरहके विघ्न आ सकते हैं । इस स्थितिको जगादा दिन तक बनाये रखना ठोक नहीं है ।”

योगेन्द्रको जिदके आगे घरके किसीका कोई बस नहीं चलता, वह किस पातपर अङ्ग जाता है उसे पूरा किये बर्गेर नहीं मानता । इसलिए अनन्दा बाबू मन-ही-मन उससे ढरते हैं । उन्होंने बातको फिलहाल दबा देनेके लिए कहा—“अच्छा, मैं कहूँगा ।”

योगेन्द्रने कहा—“कहूँगा नहीं, बापूजी, आज ही कहनेका ठीक मोक्ष है । वह तुम्हारा आज्ञाको प्रतीक्षामें बढ़ाये हैं । आज ही, जैसा भी हो, फैसला कर लालो ।” अनन्दा बाबू उठे सोचने लगे । योगेन्द्र बोला—“बापूजी, अब सोचनेवाला नहीं चलेगा । एक बार तुम हेमके पास चलो तो सही ।”

अनन्दा बाबूने कहा—“योगेन, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ ।”

योगेन्द्रने कहा—“अच्छा, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ ।”

अनन्दा बाबूने बैठकसे जाकर देरा कि विलकुल अँधेरा है । मालम हुआ, जल्दीसे बोइे कोनसे उठ नश्शा हुआ, और दूसरे ही क्षण एक अस्त्रसे भोग कष्ट पोल टाठा—“बापूजी, बत्ती तुम्ह गई है, नीकरसे कहे आती हूँ, जला देगा ।”

बत्ती तुम्हनेका कारण अनन्दा बाबूमे छिपा न रहा ; उन्होंने कहा—“रुदे दो बैटी, यत्तीकी क्या जस्त है ।” कदते हुए वे अँधेरेमें ही अन्दाजसे रैम्हे पास आँकर उठ गये । हेमने कहा—“बापूजी, अपने शरीरका तुम जरुर रसाल नहीं कर रहे हो ।”

अनन्दा बाबू बोले—“उसका एक विशेष कारण है, बैटी, शरीर शिलहुन ठोड़ है, ऐसीसे उम्हा सशाल नहीं चरता । तुम अपने शरीरको तरफ तो देखो, इधर तुम्हारा रक्षण्य धनुत गिर गया है ।”

हेमनलिनी दुःखित होकर बोली—“तुम सब मिलकर एक ही बात कह रहे हो, यह वही बेजा बात है बापूजो ! मेरी तबीयत विलकुल ठोक है, तुमने क्षे शरीरको लापरवाही करते कब देखा बताओ भला ? अगर तुम्हारा खयाल । कि मुझे अपनी तनदुरुस्तोंके लिए कुछ करना चाहिए, तो मुझसे कहते क्यों हीं ! मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी है, बापूजो ?” अन्नके शब्द कहते रहे हेमका कण्ठ दूना आतंसा सुनाइ दिया ।

अन्नदा बाबू अत्यन्त चचल और व्याकुल हो उठे, बोले—“वरायर मानो, वेटी ! तुम्हें कभी कुछ कहनेको जल्हरत ही नहीं पड़े । तुम मेरो मा हो, इसोसे तुम मेरे मनको बात जान जाती हो, और उसोंके अनुसार सब काम या करतो हो । मेरे अन्त करणका आशीर्वाद अगर व्यर्थ न गया तो ईश्वर मैं जरूर चिर-सुखों करेंगे ।”

हेम—“बापूजी, मुझे क्या तुम अपने पास नहीं रखोगे ?”

अन्नदा—“क्यों बिटिया, क्यों नहीं रखूंगा ।”

हेम—“जब तक भाई साहबकी वहू नहीं आती, कमसे कम तब तक तो ही सकती हूँ ! मेरे बिना तुम्हारी देख-भाल कौन करेगा ?”

अन्नदा—“हुह, मेरो देख भाल ? तू निरी बावली बिटिया है ! मेरी ब-भालके लिए तुम्हे इतनी चिन्ता ! मेरी इतनी कीमत बढ़ा दी, ऐं ।”

हेम—“बापूजी, बड़ा अंधेरा है, बत्तों ले आऊ ।” कहतो हुई गई और लके कमरेमेंसे हाय-बत्तों लाकर एक तरफ रखती हुई बोली—“इधर कई गोंसे शामको मैं तुम्हे अखबार पढ़के नहीं सुना सकी । आज सुनाऊंगी ।”

अन्नदा बाबू उठ खड़े हुए, बोले—“अच्छा, बैठ जरा, मैं थामो आकर रता हूँ ।” इतना कहकर वे योगेन्द्रके पास पहुँच गये । सोचा या कि वे इसे कहेंगे, ‘आज बात नहीं हो सको, कल करेंगे’, पर ज्यों ही योगेन्द्रने ग, “क्या हुआ बापूजी, च्याहकी बात क्या हो ?” त्यों ही चटसे उनके मुहसे कल गया—“हाँ, कहो है ।”

उन्हें ढर था कि कहों वह खुद जाकर हेमको व्यथित न कर डाले ।

योगेन्द्रने कहा—“जरूर वह राजो हुई होगो ?”

अननदा घावू घोले—“हाँ, एक तरहसे राजी ही समझो।”

योगेन्द्रने कहा—“तो मैं अक्षयसे कह आऊ ?”

अननदा घावू घष्टहा से गये, घोले—“नहीं नहीं, अअयसे अपी कुठ मत कहो। समझे योगेन, इतनी जब्दगजो करनेसे सब गढ़ड हो जायगा। अपो किसीसे कुछ कहनेको जरूरत नहीं। घन्कि अभी हमलोग तुछ दिन पट्टाहरे तरफ कहीं घूम आवें तो अच्छा, उसके बाद सब ठोक हो जायगा।”

योगेन्द्र उनकी बातका कोई जवाब न देकर चला गया। और सोबा अक्षयके घर पहुचा। अक्षय उम समय एक थांगरेजी महाजनी किताब लेख ‘हुक्मीपिंग’ सोख रहा था। योगेन्द्रने उसको किताब-कापी सब छोनकर अप्पा फेंक दी, और बोला--“यह सब पीछे करना, अभी तुम अपने व्याहका दिन सुधवाओ जाकर।” अक्षयने कहा--“तो, कहते क्या हो !”

### ३६

दूसरे दिन, सबेरे उठकर हेमनलिनी जर दाथ-मुँह धोकर अपने कमरेरे बाहर निकली, तो लेता कि उसके बायूजो अपने कमरेमें तिक्कीके पाप आएम कुरमीपर चुपचाप बढ़े हैं। कमरेमें असबवय जयादा नहीं। एक कोनेमें राट है और दूसरे कोनेमें एक थलमारी, दोबारपर उनकी स्वर्गीय पन्नीकी धुँधली सी एक तगबोर टगो है और उसके सामनेकी दीवारपर उन्होंके हाथका रेशमगर ऊनमा बड़ा क्रममें मझा हुआ गुलदस्ता लड़क रहा है। स्त्रोंको जीमित दशामें थलमारीमें उनकी छोटी-भोटी शौकरी चीजें जैसे रखी थीं, आज भी वे धैर्यमें बेसी ही रखी हैं।

पिता के पीछे नड़े होकर सफेद बाल तोहनेके छतसे उनके माधेपर फैलन उपर्युक्त नलाने हुए हेमने कहा—“बायूजो, चलो आज मर्वेर-सर्वेर चाम पी लो। उमके बाद तुम्हारे कमरेमें जाकर तुम्हारी पहलेसी यातें सुनूंगी। वे यातें सुनके यहाँ लट्ठो लगी हैं।”

हेमनलिनीने नम्बरपरमें अननदा घावूको बोधकिं थाप्रश्न ऐसी प्रगार ही ठटी है कि चाह यीनेके लिए इस तात्त्वाजिके मानी गमनतेमें उन्हें जरा भी

देर न लगो । और-कुछ देर बाद अश्य चायकी टेविल आ घेरेगा, इसलिए हेम चाहतो है कि जल्दीसे चाय पी-पाकर वह पिताके एकान्त कमरेमें बैठकर उनसे बातें करे, इसे वे तुर्गत समझ गये । शिकारीके भयसे भयभीत हरिणोकी तरह उनकी कन्या जो सर्वदा त्रस्त रहती है, इस बातसे उन्हें गहरी चोट पहुँचो ।

नीचे जाकर देखा कि नौकरने अभी तक चायका पानी नहीं चढ़ाया । उसपर वे सहसा गुस्सा हो उठे । उसने यह समझानेकी बहुत कोणिश की कि आज वे निर्दिष्ट समयके पहले ही आ गये हैं, किर भी, उन्होंने अगता यही बत जाहिर किया कि 'नौकर आजकल बाबू हो गये हैं, उन्हें जगानेके लिए आदमी रखने पड़ेगे ।'

नौकर भट्टपट चायका पानी ले आया । अन्नदा बाबू दूसरे दिन जैसे बातें करते हुए धीरे-धीरे आरामसे चाय-रस पान करते हैं, आज वैसा न करके उन्होंने जल्दीसे प्याला खत्म कर दिया । हेमने कुछ आश्वर्यके साथ कहा—“बापूजी, आज वया तुम्हें कहीं जाना है ?”

अन्नदा बाबूने कहा—“नहीं तो ! जाड़ेके दिनोंमें जल्दी-जल्दी चाय पीनेसे पसोना आ जाता है और शरीर जरा हलका हो जाता है ।”

किन्तु, अन्नदा बाबूके शरीरमें पसोना आनेके पहले हो योगेन्द्र अश्यके साथ वही आ पहुंचा । आज अश्यके पहलान्तरमें जरा निशेपना थी । हाथमें चौदीकी मूठवाली छड़ो है, ऊरको जेबमें घड़ीको चैत लटक रही है, और वायें हाथमें ग्राउन कागजमें लिपटी हुई कोई किताब है । ओर-ओर दिन अश्य जहाँ बैठता है, आज वहाँ न बैठकर वह हेमनलिनीके पासकी कुम्हीपर बैठा, और हसता हुआ बोला—“आपलोगोंकी घड़ी आज तेज चल रही है ।”

हेमनलिनीने अश्यकी तरफ देखा नहीं, ओर न उसकी बातका कोई जवाब हो दिया । अन्नदा बाबूने कहा—“हेम, चलो बैठी, ऊर चलें । मेरे गरम करहोंको जरा बूपमें डाल दो ।” योगेन्द्रने कहा—“बापूजी, धूर भागी थोड़े ही जा रही है, इतनी जल्दी क्या है ?” और हेमसे बोला—“हेम, अश्यको एक प्याला चाय पिलाओ, मुझे भी देना, लेकिन अतिथिको पहले ।”

खल रहा है उसे चलने दो । इसके मानी यह नहीं कि तुम लड़का हाथ से निछल जाने दो ।”

योगेन्द्र—“मेरे हाथ समटें ही अगर लड़का हाथ से निछल जाता, तो वात ही क्या थी । लेकिन, नलिनाद्वारा क्या चाहते लिए राजा होगे ?”

अद्यय—“आज ही राजा हो जायेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । परं समय आनेपर क्या नहीं होता ? योगेन, मेरो वात सुनो । बल नलिनाद्वारा एक जगह भाषण होगा, उसमें तुम हेमतलिनिको ले जाना । दाक्टरमें घोलनेको अच्छी जक्कि है । स्त्रियोंका चित आकर्षित करनेमें यह शक्ति मामूला नहीं । हाथ-हाथ, अबोध अपलाएँ इस वातको समझनी ही नहीं कि वकान्पतिको अपेक्ष श्रोता-पति कहीं ज्यादा अच्छा होता है ।”

योगेन्द्र—“लेकिन, नलिनाद्वारा इतिहास तो बताओ, सुन रक्खूं ।”

अद्यय—“दरो योगेन, इतिहासमें अगर बुछ नुक्ख हो भी, तो टारार ज्यादा दिमाग न खपाना । थोड़ेसे तुक्ससे दुलंभ चोज सुलभ हो जाती है । मैं तो उसे लाभ ही समझता हूँ ।”

अद्ययने नलिनाद्वारा जो इतिहास बताया उसका साक्षात् स्वप्न यह है :— नलिनाद्वारे पिता राजवारम फरीदपुराकी तरफ रहनेकाले छोटे-मोटे जमीदार थे । तीस-चत्तोस सालकी उमरमें उन्होंने ब्राह्मणर्म प्रथण किया था । पर उनको स्त्री किसी भी तरह धर्म-परिवर्तनके लिए राजा नहीं हुए । और आचार-तिनाके समर्थनमें वे अत्यन्त सावनोंसे पतिसे बचप्रर चलने लगे, जोकि राजवारम पायुके लिए कठई चुम्पचर नहीं हुआ । बादमें उनके पुत्र नलिनाद्वारे धर्म-प्रवार थे दत्ताह और अपनी भाषण-शृंगारमें ब्रह्मणमाजमें फाफी प्रतिष्ठा पाएँ । वे सरकारी दाक्टर नियुक्त होकर नाना झानोंमें रहे, और उन्होंने अपने चर्चाप्रसी निर्मितता, चिकित्साकी निपुणता और मत्कार्यकी वर्मठतासे काफी नाम पाया । इस बोनमें ऐसा एक पटना हो गये कि जिसको कमो किसीने बत्तना भी नहीं बो सके । ब्रह्मणमें राजवारम एक विवरणमें ब्राह्म श्रवनेके लिए उन्मत्त-गी हो रहे । कोई भी उन्हें न रोक सका । राजवारमने कहा, येरो वर्तमान एकी मेरी गदार्थ सहभस्तियों नहीं हैं, जियेके साथ धर्म मत ध्वन्तर और दृदण्ड

ल हुआ है उसे खीके रूपमें प्रदृशन न करना अन्याय होगा ।' और उन्होंने वै-साधारणके धिक्कारकी जरा भी परवाह न करके उस विधवासे हिन्दू-मतानुसार बाह कर लिया ।

इसके बाद, नलिनाशकी मा घर छोड़कर काशी जानेको तंयार हुई, तो लेनाक्ष रगपुरकी ढानटरी छोड़कर घर चला आया, और मासे बोला, 'मा, भी तुम्हारे साथ काशी जाकर रहेंगा ।' माने रोते हुए कहा, 'वेटा, तुम गोंके साथ मेरा तो कुछ मेल नहीं खायेगा, तू क्यों भूठभूठका तकलीफ प्रयेगा ।' नलिनाशकी कहा, 'तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी बेमेल नहीं होगा ।' तरह नलिनाशकी अपनो पति-परित्यक्ता माको सुखो बरनेका दृढ़ सकल्प कर गया, और उनके साथ काशी चला गया । माने कहा, 'वेटा, घर क्या सूना बना रहेगा ? तू ब्याह नहीं करेगा ?' सुनकर नलिनाशकी मुसीबतमें पड़ गया । बोला, 'क्या जहरत है मा, हम तुम बड़े मजेमें हैं ।' माने समझा, लेनने उनके लिए बहुत-कुछ त्याग किया है, पर शायद वह ब्रह्मसमाजके हर ब्याह नहीं करना चाहता । व्यथित होकर माने कहा, 'वेटा, मेरे लिए तू न्दगो-भर सन्यासी बना रहे, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता । तेरा जहाँ चाहे, तू ब्याह कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।' नलिनने दो-एक दिन च-विचारकर कहा, 'तुम जैसी चाहती हो, मैं वैसी हा बहू तुम्हें ला दूँगा । इतुम्हारो सेवा किया करेगो । ऐसो बहू मैं हरगिज नहीं ला सकता जिसकी पर तुमसे अलग हो और उससे तुम्हें कष्ट पहुँचे ।' उसके बाद नलिनाशकी बहूकी शरणमें बद्धाल चला आया ।

इसके बाद बोचका इतिहास जरा विद्वित हो गया है । लोग कहते हैं, नरूपसे किसी गांवमें जाकर वह किसो अनाथाको ब्याह लाया था, और ब्याहके दृष्टि वह स्त्री मर भी गई ।' और कोई-कोई इसमें सन्देह भी प्रकट करते । किन्तु अक्षयका मत है कि ब्याहकी सज तेंशारी कर चुकनेके बाद, अन्तमें लिनाशकी साहस खो देठा, और उसने ब्याह नहीं किया । उछ भी हो, अक्षयके तसे अब वह जिस-किसीको भी पसन्द करके ब्याह करेगा, उसकी माको उसमें ई आपत्ति नहीं होगी । हेमनलिनी जैसी लड़की नलिनाशको और मिलेगी

अच्छा भी । और किर, मुंहपर साफ-साफ कहनेसे भी मैं नहीं ल  
अन्नदा बाप् उतावले होकर घोल उठे—“योगेन, तुम पागल तो न  
गये ? तुम्हें लक्ष्य करके मैं क्यों कहने लगा । मैं क्या तुम्हें नहीं जानता  
इसके बाद भूरि-भूरि प्रशंसा करके योगेन्द्र नलिनाक्षका ग्रन्थन्त  
लगा । अन्तमें बोला—“माझे चुत्ती करनेके लिए नलिनाज्ञ आचारके साथ  
सबत होकर काशीमें रह रहा है । इसीलिए बायूजी, तुम जिन्हें ‘लोग’  
हो, वे उसके घारेमें तरह-तरहको घाँतें उड़ाया करते हैं । किन्तु मैं  
लिए नलिनाज्ञकी प्रशंसा ही करूँगा । क्यों हेम, तुम्हारी क्या राय है ?”  
हेमने कहा—“मेरी भी यही राय है ।”

योगेन्द्र—“हेम मुझसे सहमत होगी, मुझे इसमें जा भा सन्देह है  
बायूजी, तुम्हें मुरी करनेके लिए हेमको ल्याग स्वीकार करनेका काई  
मिल जाय तो यह जी जाय, हम बातको मैं क्या नहीं समझना ।”

अन्नदा बाबूने स्लेह-कोमल हँसी हेसते हुए हेमके मुँहकी तरफ  
हेमका लड्डासे रक्षित चेहरा नोचेको भुक गया ।

### ५१

सभा भाज दोनेके बाद अन्नदा बाबू हेमनलिनीके साथ जब घर लौ  
कान नहीं हुई थी । अन्नदा बाबू चायको टेबिलपर बैठने ही घोल उठे—  
बहुत ही शान्त आया ।” इससे ज्यादा वे कृष्ण नहीं बोल सके, उनके  
मार्जोंका एक स्रोत-सा धृष्ट रहा था ।

थाज चाय पीनेके बाद ही हेम थीरे-से ऊपर चली गई, अन्नदा  
इसपर दुउ लगाल ही नहीं । सभामें नलिनाज्ञका भागण मुनक्कर, उस  
चुम्पार दुमड़ों देखकर अन्नदा बायूको यदी रुग्नी हुई । इस तरणवर्गमा  
मानो रागवान्ना अम्बाज-लागण उठके बैद्यरेपर ज्योंका ल्लौं बना हुआ है ।  
दोस्ता था कि उसकी अन्तरामासे मानो अन्न-मग्नताज्ञा गाम्भीर्य जर्म  
पूर्वज्ञ श्रोताओंके नित्यही धनायधि ही अम्भी तरक र्म.न रहा ही ।

नलिनाज्ञ हेमपरका विषय था ‘भूति’ । उन्दोने कहा था, “मस्तमें

कुछ खोया नहीं उसने कुछ पाया ही नहीं। यों हो जो-कुछ हमारे हाथ उसे हम पूरी तरह नहीं पाते, ल्यागके द्वारा जब हम उसे पाते हैं तभी वह हमारा अन्तरका धन हो उठता है। जो-कुछ हमारी वास्तविक, उसके सामनेसे हट जाते हो जो आदमी उसे खो चैठता है, वह। असलमें उसका ल्याग करके हो उसे अधिक पाया जा सकता है, शक्ति मानव-चित्तमें पूरी-पूरी मौजूद है। हमारा जो-कुछ चला जाता सम्बन्धमें अगर हम नम्रतासे हाथ जोड़कर कह सकें कि 'मैंने दे ना त्यागका दान, अपना दुःखका दान, अपने आँसुओंका दान', तो क्षुद्र हो उठता है, अनित्य नित्य हो जाता है, और, जो हमारे व्यवहारका गत्र था, वह पूजाका उपकरण बनकर हमेशा हमारे अन्तःकरणके देव-ज्ञ-भण्डारमें सञ्चित रहता है।" — ये सब वातें आज हेमनलिनीके इयको घेरे हुए उसपर चोट कर रही हैं। छतपर नक्षत्रदीप आकाशके चुपचाप बढ़ गई। उसका सम्पूर्ण मन आज भर गया है, सम्पूर्ण प्रौर समस्त जगत्-ससार आज उसके लिए परिपूर्ण है।

से लौटते समय रास्तेमें योगेन्द्रने कहा—“अक्षय, तुमने लड़ा तो बताया! यह तो पूरा सन्यासी है। उसकी आधी वातें तो मेरी में नहों आईं।”

पने कहा—“रोगोंको अवस्था समझकर औषधकी व्यवस्था की जाती लिनी रमेशके ध्यानमें मग्न हैं, उस ध्यानको सन्यासीके बिना हम जैसे गेग कैसे भङ्ग कर सकते हैं? जब भाषण हो रहा था तब तुमने शी तरफ नहीं देखा था?”

—“देखा क्यों नहीं। देखते हो समझ गया कि उसे बहुत अच्छा अन्नदूर, भाषण अच्छा लगनेसे ही कोई भाषणक्तत्त्वके गलेमें वरमाला ले मालूम हुआ जा सकता है?”

मैं ठगाया जागण हम जैसे किसीके मुहसे निकलता तो क्या अच्छा वकी रक्षाके लिए श्रीगेन्द्र, तपस्वियोंपर औरतोंका विशेष खिचाव होता है कहा है वह द्वाने तपस्याको थी, खुद कालिदाम अपने काव्यमें लिख

गये हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ योगेन्द्र, और किसी भी पात्रको उकरोगे तो हेम मन-ही-मन रमेशसे उसकी तुलना करेगी; और उस कोई भी नहीं ठिकेगा। किन्तु, नलिनाक्ष साधारण आदमी-सा नहं उसके साथ किसीको तुलना कर देखनेकी वात मनमें उठेगी ही नहीं। और-किसी युवकको हेमके सामने ले जाओ, वह तुरत तुम्हारा उद्देश्यगी, और उसका सम्पूर्ण मन विद्रोही हो उठेगा। अगर नालना जरा कौशलके साथ यहीं ला सको, तो हेमके मनमें किसी तरहका सन्दर्भ उठेगा। उसके बाद, क्रमशः श्रद्धासे लेकर वरमाला तक किसी तरह पार लगानेमें कठिनाई नहीं होगी।”

योगेन्द्र—“कौशल मुझसे ठीक तौरसे करते नहीं बनेगा, कहना लिए आसान है। लेकिन एक बात है, लड़का मुझे तो पसन्द नहीं ३

अक्षय—“देखो योगेन, तुम अपनी जिद करके सब नटियामेट सब सुविधाएँ एकसाथ नहीं मिल सकतीं। जैसे भी हो, रमेशकी चिन्त मनसे बगैर निकाले कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम शारोरिकः ठीक कर लोगे ऐसा दयाल भी मत करना। मेरी सलाहपर अगर ठीक चलो, तभी काम बन सकता है।”

योगेन्द्र—“असल बात यह है कि नलिनाक्ष मेरे लिए जरा-कुछ दुर्बोध्य है। ऐसे लोगोंसे व्यवहार करनेमें मुझे डर लगता है। कहीं हो कि चूल्हेमेंसे निकलकर भट्टोमें जा पड़ूँ।”

अक्षय—“भाई, तुमलोग अपने दोषसे जले हो, और अब ला देखते ही आतङ्कसे सिहर उठते हो। रमेशके विषयमें तुमलोग ५ किलकुल अन्धे हो रहे थे, ‘ऐसा पात्र मिलना मुश्किल है।’ छुरके जानता हो नहीं।’ ‘दर्शनशास्त्रमें द्वितीय गङ्गाचार्य और लक्ष्मी व उत्तम व उत्तम होते सरस्वतीका उन्नीसवाँ सदोका पुरुष-सक्षरण है।’ किन्तु अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ‘धत्युच्च-आदर्श’ वाले मैंने घुत देखे हैं। लेकिन मेरे लिए वहाँ जब नहीं थी। तुमलोग समझते थे कि मुझ जैसे अयोग्य हूँ वह इसी

कामानसिक परिश्रम करते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर अच्छी दवा शायद ही देखती है ! आप उसे अगर नलिनाक्ष बाबूको—”

योगेन्द्र यकायक कुरसी छोड़कर उठ खड़ा हुआ ; बोला—“आह ! अक्षय, तुम सुझे टिकने न दोगे । हद हो गई ! मैं चल दिया ।”

## ४२

पहले अनन्दा बाबूका जब स्वास्थ्य खराब रहता था तब वे डाक्टर और वैद्यकी नाना प्रकारकी दवाएँ, खासकर गोलियाँ, बराबर खाया ही करते थे । किन्तु अब दवाओंके विषयमें उनमें कोई उत्साह ही नहीं पाया जाता । और, अपने स्वास्थ्यके सम्बन्धमें अब वे चरचा भी नहीं करते ।

आज वे जब असमयमें आरामकुरसीपर लेटे-लेटे सो गये, तब जीनेमें आपरोक्षी आहट सुनकर हेमनलिनो अपने हाथकी ऊन-सलाई रखकर भाईको सिंघान करने दरवाजेके पास जा खड़ी हुई । ढेखा कि उसके भाईके साथ नलिनाक्ष बाबू आ रहे हैं । जल्दीसे वह दूसरे कमरेमें भागना ही चाहती थी किंतु योगेन्द्रने उसे बुलाकर कहा—“हेम, नलिनाक्ष बाबू आये हैं, आपसे इनसे उम्हारा परिचय करा दूँ ।”

हेम ठिठकके खड़ी हो गई, और नलिनाक्ष बाबू उसके सामने आते ही, उनके मुँहकी तरफ बगैर देखे ही, उसने उन्हें नमस्कार किया । इनमें अनन्दा बाबूको आँख खुल गई, और उन्होंने पुकारा—“हेम !” हेमने पास आकर दुसरमें कहा—“नलिनाक्ष बाबू आये हैं ।”

योगेन्द्रके साथ नलिनाक्षके भीतर आते ही अनन्दा बाबू व्यरत भावसे रेठ खड़े हुए, और आदरके साथ उन्हे अपने सामने विठाकर कहने लगे—“आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पवारे । हेम, कहाँ जा रही हो चेती, यहाँ बैठो । नलिनाक्ष बाबू, यह मेरी लड़की है, हेम । हम दोनों उस दिन आपका भाषण सुनने गये थे, सुनकर बड़ो तृप्ति हुई । आपने जो यह कहा था कि ‘हम जिसे यथार्थमें पाते हैं उसे हरगिज नहीं खो सकते, जो यथार्थमें नहीं मिला वही खो सकता है ।’ इसका अर्थ बड़ा गहरा है । क्यों हेम ?

भीतरसे उन्होंने जो-कुछ प्रकट किया है, मेरे लिए आज वह नया लाभ है सावित हुआ है। जो आदमी स्वयं कपटी है, वह सच्चो चीज देगा कहाँसे द्वांना जैसे बनाया नहीं जा सकता, उसी तरह सच्चे ज्ञानकी बात भी बनाई नहीं जा सकती। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं खुद जाकर उन्हें साधुवाङ् अभिनन्दित कर आऊँ।”

अक्षयने कहा—“मुझे डर होता है कि उनका शरीर टिकेगा या नहीं?”

अनन्दा वावू चबल हो उठे, बोले—“क्यों, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता क्या?”

अक्षय—“रहना तो नहीं चाहिए, दिन-रात वे तो अपनी माधना और शास्त्रालोचनामें ही लगे रहते हैं; स्वास्थ्यकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं!”

अनन्दा वावू—“यह बड़ा अन्याय है! शरीर नष्ट करनेका हमें कोई अधिकार नहीं, कारण, शरोरको हमने नहीं बनाया। मैं अगर उन्हें अपने पास पाता तो थोड़े ही दिनोंमें जहर उनका स्वास्थ्य ठीक करनेकी व्यवस्था कर देता असलमें, स्वास्थ्य-रक्षाके कुछ सहज नियम हैं, उनमें पहला यह है कि—”

योगेन्द्र वीरज खो बैठा, बीचमें ही बोल उठा—“वापूजी, झूठमूठको तुम्हें इतनी चिन्ता क्यों करते हों। नलिनाक्ष वावूका स्वास्थ्य तो मैंने काफी अच्छा देखा है। बल्कि उन्हें देखकर तो मैं यही समझ रहा हूँ कि साधुत्व-चीज है स्वास्थ्यकर है। मेरा तो मन करता है कि एक बार इसको परीक्षा कर देखूँ।

अनन्दा वावूने कहा—“नहीं योगेन्द्र अक्षय जैसा कि कह रहा है, वे अगर हो तो स्वास्थ्य कैसे टिक सकता है। हमारे देशमें बड़े-बड़े लोग अक्स कम उमरमें मर जाया करते हैं; ये लोग अपने शरोरकी उपेक्षा करके देशव चुकसान करते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। योगेन्द्र, तुम नलिनाः वावूको जैसा समझते हो, वे कौसे नहीं हैं; उनमें असल चीज मौजूद है। उन अभीसे सावधान कर देना हमारा कर्तव्य है।”

अक्षय—“मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। आप अगर उन्हें अच्छे तरह समझ सकें, तो अच्छा हो। मेरा तो खयाल है कि आपने मुझे परोक्षां समय जो जड़ीका अर्क दिया था, वह काफी ताकतवर है। जो लोग निरन्तर



वास्तवमें किस चीजको हमने अपनाया है और किसे नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब वह हमारे पास से हट जाती है। नलिनाक्ष बाबू, आपसे मैं एक अनुरोध है, कभी-कभी आप आयें और हमलोगोंसे आलोचना कर जायें तो हमारा बड़ा उपकार हो। हमलोग बाहर कहीं जाते नहीं, आप जब भी आयेंगे, मुझे और हमको घर ही में पायेंगे।”

नलिनाक्षने शरमती-हुई हेमनलिनीके मुँहकी तरफ एक बार देखकर कहा—“मैं सभामें बढ़ी-बढ़ी बातें कह आया हूँ, उसका खयाल करके आपलोग मुंह बड़ा-भारी गम्भीर आदमी न समझ लीजियेगा। उस दिन विद्यार्थियोंने पीछा ही नहीं छोड़ा तो व्याख्यान देने जाना पड़ा। अनुरोधसे बचनेकी मुझमें जरा भी ताकत नहीं। लेकिन, वहाँ ऐसी-ऐसी बातें कह आया हूँ कि दुबारा अनुरुद्ध होनेकी कोई आशका ही नहीं रही। विद्यार्थियोंने साफ-साफ कह दिया है कि मेरे भाषणका चारह-आना हिस्सा उनकी समझ ही में नहीं आया। योगेन बाबू आप भी तो वहाँ भौजूद थे; आपको सतृष्णदृष्टिसे घड़ीकी तरफ ताकते के मेरा मन विचलित न हुआ हो, सो बात नहीं।”

योगेन्द्रने कहा—“मैं ठीकसे समझ नहीं रहा था, यह मेरी बुद्धिका दोहरा सकता है, उसके लिए आप कुछ खयाल न कीजियेगा।”

अनन्दा बाबू—“योगेन, सभी उमरमें सब बातें समझमें नहीं आतीं।”

नलिनाक्ष—“और सब समय सब बातें समझनेकी जहरत भी नहीं।”

अनन्दा बाबू—“लेकिन, नलिनाक्ष बाबू, आपको मेरी एक बात रखा होगी। इश्वर आप जैसे आदमियोंको संसारमें काम करनेके लिए भेजते हैं लेकिन इसका यह भतलव नहीं कि शरीरका कुछ खयाल ही न किया जाय आपको स्वास्थ्यको तरफसे इतना लापरवाह न होना चाहिए। जो दाता उन्हें इस बातका मदा स्मरण रखना चाहिए कि मूलधन नष्ट न होने पाये, न तो दान करनेकी शक्ति ही नष्ट हो जायगी।”

नलिनाक्ष—“आपको अगर कभी मुझे अच्छी तरह जाननेका अवसर मिल तो देखियेगा कि मैं ससारकी किसी चीजकी ही उपेक्षा नहीं करता। दुनिया बिलकुल भिन्नारी-सा आया हूँ, वहें कष्टोंसे और घुटोंको अनुकूलता पाकर य

शरीर-मन धोरे-धीरे बनकर तैयार हुआ है। मेरे लिए ऐसी नवाबी शोभा नहीं दे सकती कि मैं लापरवाही करके उसे नष्ट कर दूँ। जिसे आदमी बना नहीं सकता, उसे तोड़नेका हमें अधिकार भी तो नहीं।"

अनन्दा बाबू—“बहुत ठीक वात कही आपने! आपने ऐसो हो कुछ बातें उस दिनके भाषणमें भी कही थीं।”

योगेन्द्र—“आपलोग बैठिये, मैं जा रहा हूँ, मुझे जरा काम है।”

नलिनाश्व—“योगन बाबू, मुझे लेकिन आप अमा कीजियेगा। मेरी तरफसे इतना आप निश्चय समझिये कि वातोसे लोगोंको परेशान करना मेरा स्वभाव नहीं। अच्छा तो अब मैं भी उठता हूँ। चलिये, कुछ दूर आपके साथ ही चला जाय।”

योगेन्द्र—“नहीं-नहीं, आप बैठिये। मेरी वातका कुछ खयाल न करें। मैं कहीं भी ज्यादा देर तक स्थिर नहीं बैठ सकता।”

अनन्दा बाबू—“नलिनाश्व बाबू, योगेनके लिए आप चदल न होइये। वह इसी तरह जब खुशी आता है और जब खुशी चला जाता है; उसे पकड़ रखना मुसिकल है।”

योगेन्द्रके चले जानेपर, अनन्दा बाबू बोले—“आप यहाँ हैं कहाँ?”

नलिनाश्व बाबूने हँसकर कहा—“मैं खास तौरसे कहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। मेरे जान-पहचानके यहाँ बहुतसे लोग हैं, वे मुझे खीच-तानकर इधर उधर ले जाया करते हैं। मुझे वह बुरा भी नहीं लगता। लेकिन, आदमीको चुपचाप रहनेकी भी जहरत होती है। इसके लिए योगेन बाबूने मेरे लिए आपको बगलवाला मकान ठोक कर दिया है। गली सुनसान भी है, अच्छी है।”

इस सवादसे अनन्दा बाबूने बहुत ज्यादा खुशी प्रगट की। पर, वे अगर लक्ष्य करके देखते तो देख रेते कि इस वातको सुनते ही हेमनलिनोका चेहरा क्षण-भरके लिए वेदनासे विवर्ण हो गया। इसी बगलवाले मकानमें रमेश था।

इतनेमें ‘चाय तैयार है’की खबर पाकर सब मिलके नीचे चायके कमरेमें चले गये। अनन्दा बाबूने कहा—“बेटो, नलिनाश्व बाबूको एक प्याला चाय बना दो।”

नलिनाश्वने कहा—“नहीं अनन्दा बाबू, मैं चाय नहीं पीऊँगा।”

अज्ञदा—“यह क्या बात नलिनाश्व बाबू ! एक प्याला चाय, — न हो तो थोड़ी-सी मिठाई, नमकीन, कुछ तो लिजिये ।”

नलिनाश्व—“मुझे माफ कीजिये ।”

अज्ञदा—“आप डाक्टर हैं, आपसे अब मैं क्या कहूँ ! मध्याह-भोजनके तीन-चार घण्टे बाद चायके बहाने थोड़ा-सा गरम पानी पी लेना हाजमाके लिए बहुत अच्छा है। आदत न हो तो, आपके लिए खूब हल्की चाय कर दी जाय ।”

नलिनाश्व एक क्षणके लिए हेमनलिनीके चेहरेकी तरफ देखकर समझ गया कि उसने उसके चाय पीनेके सझोचके विषयमें कुछ अनुमान कर लिया है और उसपर मन-ही-मन वह कुछ विचार भी कर रही है। उसी क्षण उसने हेमकी तरफ देखकर कहा—“आप जो खयाल कर रही हैं, वह ठीक नहीं। आप लोगोंकी चायकी टेबिलसे मुझे जरा भी परहेज नहीं। पहले मैंने बहुत चाय पी है, और चायकी सुगन्धसे अब भी मेरा मन उत्सुक हो उठता है। आप लोगोंको चाय पीते देखकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। लेकिन, आप शायद नहीं जानतीं कि मेरी मा अत्यन्त ‘अचार-विचार’वाली हैं; और मेरे सिवा उनके अपना कोई है नहीं, मैं नहीं चाहता कि माके सामने मैं सकुचित होकर जाऊँ। इसीलिए मैं चाय नहीं पीता। लेकिन आपलोग चाय पीकर जो आराम पा रहे हैं, उसमें मुझे भी हिस्सा मिल रहा है। आपलोगोंके आतिथ्यसे तो मैं बवित नहीं हूँ ।”

इसके पहले नलिनाश्वकी बातचीतसे हेमनलिनीको भीतर-ही-भीतर कुछ चोट पहुँच रही थी। वह समझ रही थी कि नलिनाश्व अपनेको उनलोगोंके सामने यथार्थवप्पमें प्रकट नहीं कर रहा है। वह बार-बार ज्यादा बातें करके अपनेको ढक रखनेकी ही कोशिश कर रहा है। हेमनलिनी नहीं जानती कि प्रथम परिचयमें नलिनाश्व अपने स्वभाविक सझोच-भावको नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए नये आदमियोंके सामने प्रायः वह अपने स्वभावके विरुद्ध जबरदस्ती प्रगल्भ हो उठता है। अपने मनकी अकृत्रिम बात कहते हुए भी सुर वेसुरा हो जाता है और वह उसके अपने कानोंको भी खटकता है। इसीलिए योगेन्द्र जब अधीर होकर उठ खड़ा हुआ, तो उसने भी मनमें एक धिघारन्मा अनुभव

करके उसके साथ भाग चलनेकी कोशिश को थी । किन्तु, जब उसने माको बात कही, तो हेमनलिनो श्रद्धाकी दृष्टिसे उसको तरफ देखे वगैरे न रह सकी, और माका उल्लेख मात्रसे उसी क्षण नलिनाक्षके चेहरेपर जो सरल भक्तिका गम्भीय प्रकट हुआ उसे देखकर हेमका मन आर्द्ध हो उठा । उसका जो चाहने लगा कि नलिनाक्षकी माके सम्बन्धमें उससे बात करे, पर सङ्कोचसे वह कर न सकी ।

अननदा बाबू व्यस्त हो उठे, बोले—“अच्छा, यह बात है ! मुझे मालूम होता तो मैं आपसे चायके लिए अनुरोध ही नहीं करता । क्षमा कोजियेगा ।”

नलिनाक्ष हँसकर बोला—“चाय नहीं पो सका, तो क्या आपके स्त्रीहके अनुरोधसे भी विजित रह जाता ।”

नलिनाक्षके चले जानेपर हेम पिताके साथ ऊपर चली गई, और एक मासिकपत्र उठाकर उसमेंसे एक निवन्ध चुनकर सुनाने लगी । सुनते-सुनते थोड़ी-देरमें अननदा बाबूकी आँख लग गई । कुछ दिनोंसे अननदा बाबूमें इस तरहकी थकानके लक्षण दिखाई देने लगे हैं ।

### ४३

कुछ ही दिनोंमें नलिनाक्षके साथ अननदा बाबूका परिचय घनिष्ठ हो गया । पहले हेमनलिनीने समझा था, नलिनाक्ष जैसे आदमीसे सिर्फ बड़े-बड़े आध्यात्मिक उपदेश ही मिल सकते हैं, ऐसे आदमीसे सावारण विषयकी बातचीत भी चल सकती है इसकी उसे धारणा ही नहीं थी । किर भी, यह ठीक है कि हास्यालापमें नलिनाक्ष उनलोगोंसे अपना दूरत्व बनाये रखता है ।

एक दिन अननदा बाबू और हेमनलिनीके साथ नलिनाक्षकी बातचीत चल रही थी, इतनेमें योगेन्द्र कुछ उत्तेजित होकर बोल उठा—“जानते हो धापूजी, आजकल समाजके लोग हमलोगोंको 'नलिनाक्षके चेले' कहने लगे हैं ! इसपर उस दिन पारसके साथ मेरा खूब संगढ़ा हो गया था ।”

‘ अननदा बाबूने जरा हँसते हुए कहा—“इसमें मुझे तो कोई शरमकी बात नहीं मालूम होती । बल्कि, ज़हाँ सभी गुरु हैं, चेला कोई भी नहीं, उम दलमें

शामिल होनेमें मुझे शरम मालूम होती है। वहाँ शिक्षा देनेको होड़ाहोड़ी शिक्षा पानेका अवकाश हो नहीं रहता।”

नलिनाक्ष—“अब्रदा बाबू, मैं भी आपके दलमें शामिल हू, हमारा चेलोंका दल है। जहाँ हमारे लिए कुछ भी सीखनेकी सम्भावना है वहाँ अपना ओरिया-वसना लेकर पहुँच जाया करेंगे।”

योगेन्द्र अधीर हो उठा, बोला—“नहीं नहीं, यह कोई कामकी बात न हुई, नलिन बाबू, यह बदनामीकी बात है कि कोई भी आपका मित्र या आत्म नहीं हो सकता, जो भी आपके पास आयेगा वही आपका चेला कहलायेग यह कोई हँसीमें उड़ा देनेकी बात नहीं। आप ये मव वाहियात बातें छोड़ दें

नलिनाक्ष—“कौसे रहू, बताइये भो तो ?”

योगेन्द्र—“आप जो प्राणायाम किया करते हैं, सबेरे उठकर सूरजकी ताकते रहते हैं, खाने-पीनेके बारेमें आचार-विचार करना नहीं छोड़ते, इन बातोंसे क्या साधारणजनोंकी दृष्टिमें आप ऊपुटाग-से नहीं लगते ?”

योगेन्द्रके इस स्व-चाक्यसे व्यथित होकर हेमनलिनीने अपना सिर नु लिया। नलिनाक्षने हँसते हुए कहा—“योगेन बाबू, लोगोंकी दृष्टिमें ऊपुट लगना क्या हमेशा दोषकी बात होती है ? ससारमें सत्य हमेशा ऊपुटाग-लगता है, पर इससे क्या मत्यके उपासक उसे छोड़ देते हैं ? मुझे तो आँ होता है कि मैं सबकी दृष्टिसे बचकर अपने घरमें बैठकर एकान्तमें जो अनुष्ठ किया करता हू, उसपर लोगोंकी दृष्टि पड़ती ही क्यों है, और उसपर लं थालोचना करते कैसे हैं ?”

योगेन्द्र—“आप जनते नहीं क्या, जिन लोगोंने ससारकी उच्चतिमा भार अपने ऊपर ले रखा है वे पराये घरमें कहाँ क्या हो रहा है, उस आविकार करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जितनी खबर नहीं मिलती उस पूरी कर लेनेकी उनमें शक्ति है। इसके बिना विश्वके सुधारका काम चल सकता है ? इसके अलावा एक बात और है, नलिन बाबू, पांच आदमी कामको नहीं करते, आँखोंसे थोकल होनेपर भी उसपर लोगोंकी नजर प दी है ; और जो काम सभी-कोई करते हैं उसपर किसीकी निगाह ही न

दौड़ती। यहाँ देरा हो में पालती आ रही थी। नलिनाथको सावनाका अनुसरण जान गई है। हेम उसने शुद्धाचार और निरामिष भोजन ग्रहण किया तब उसके सुधारका भार नहीं रिंग तृप्ति हुई। अपने कमरेमेंसे उसने दरी-कारपेट बगैरह उठा

हेमका चेहरा देकी ओटमें एक तरफ अपने विस्तर लगाये। उस घरमें और थी कि इतनेमें नलिनीहीं रखी। कमरेका फर्श वह रोज अपने हाथसे धो-पौछकर शाम छतपर टहलते; नहानेके बाद सफेद पवित्र वस्त्र पहनकर सामने एक फूलका इसके लिए आपको दूपर बैठ जातो, खुली हुई खिड़कियोंसे बाहरका प्राणश भीतर इसीलिए लज्जित होनेकाकाशसे, धाकाशसे, बायुसे वह अपने अन्तःकरणका अभिषेक

अन्दरा—“इसके हादा बावूसे सम्पूर्णरूपसे हेमनलिनीका साथ देते नहीं बनता आपत्ति प्रकट नहीं को, बल्कि द्वारा हेमके चेहरेपर जो एक परितृप्तिकी दीपि प्रकट किये थे।”

“ज्ञानका मन स्तिरव हो-हो जाता। अब नलिनाथ

योगेन्द्र—“मैं लेकिन इन-सब बातोंका नीनपर बैठे-बैठे ही तीनोंमें बातचीत रूपमें सोच-विचारकर चलनेवाले साधारण आ-

दिक्षितका भी सामना नहीं करना पड़ता। मुझेकहता रहता है, “यह सब वाहियात छिपे-छिपे कोई अद्भुत किया करनेसे कोई खासो भयानक पवित्र कर डालोगे तो मैं समझता हूँ कि इससे मनका सामड़स्य नष्ट होन

जस्तरसे ज्यादा झुक जाता है। लेकिन, आप मेरी वस्त्रन्त व्यथित और कुण्ठित मैं अत्यन्त साधारण आदमी हूँ, इस पृथ्वीपर मैं बिलकुल बाज्जी बातपर नाराज हो हूँ; जो लोग किसी तरहसे ऊचे मञ्चपर चढ़ जाते हैं, टेल बिना भी नलिनाथका उन तक पहुँचना मुश्किल है। और मुझ जैसे, ऐसे असख्य हेसने एक लिद्दाजा, आप सबको छोड़कर अगर किसी अद्भुत-लोगमें रहने लगेंगे तानेको भी आपको असख्य ढेलोंकी मार सहनी पड़ेगी।”

पीर एक

नलिनाथ—“ढेले भी तो नाना प्रकारके हैं। कोई हूँ जाते हैं तो भी है, दाग बना जाते हैं। अगर कोई कहे कि ‘यह पागल है, लड़कपन कर रहा है’, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब कोई यह कहता है कि ‘यह राख्स साधु बनकर साधकपना छाँट रहा है, गुरु बनकर चेले इकट्ठे करता फिरता है’, तब अगर उसे हँसीमें उड़ानेको कोशिश की जाय, तो फिर उसके लिए



कि सभामें आपका भाषण है, त्यों ही हम दोनों वहाँ पहुँच गये। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इन सब बातोंको याद रखियेगा, नलिन बाबू। इससे आप समझ जायेगे कि हमें आपको निःसन्देह रूपसे आवश्यकता थी। हम आपके सदा कृतज्ञ रहेंगे।"

नलिनाश—“आप भी इस बातको याद रखियेगा कि आपलोगोंके सिवा और किसीसे भी मैंने अपने जीवनकी गूढ़ बातें नहीं कहीं। सत्यको प्रकट कर सकना हो सत्यकी चरम शिक्षा है। सत्यके प्रकाशकके लिए जिस बातकी जबरदस्त कमो थी, वह आपलोगोंसे ही पूरी हुई है। इसलिए मुझे भी आपलोगोंके सहयोगकी कितनी जबरदस्त जहरत थी, इस बातको आप भी न भलियेगा।"

हेमनलिनो कुछ भा नहीं बोली, वह खिड़कीमेंसे जो धूप कमरेमें आ रही थी उसीकी तरफ चुपचाप बैठी देख रही थी। नलिनाश जब चलनेके लिए उठ खड़ा हुआ तब उसने कहा—“काशो पहुँचते ही आप अपनी माला समाचार दीजिएगा, हमलोगोंको उनकी चिन्ता है।"

जाते वक्त हेमने नलिनाशको फिर ढोक देकर प्रणाम किया।

## ४४

इधर कई दिनोंसे अक्षय लापता था। आज, नलिनाशके काशी चले जानेके बाद, योगेन्द्रके साथ चायकी टेबिलपर उसके दर्शन हुए हैं। अक्षय इस बातको जानता था कि हेमके मनमें रमेशको स्मृति कितनी जाग्रत है इस बातके समझनेका सिर्फ एक ही तरोका है, और वह यह कि वह अक्षयके प्रति कितना विराग दिखाती है। आज उसने देखा, हेमनलिनीका चेहरा प्रगान्त है; उसे देखकर उसके चेहरेका भाव जरा भी विकृत नहीं हुआ। स्वाभाविक प्रसन्नताने साथ हेमने अक्षयसे कहा—“इधर कई दिनोंसे आपको देखा नहीं?"

अक्षयने कहा—“हमलोग क्या प्रतिदिन देखनेके योग्य हैं?"

हेम हँसती हुई बोली—“योग्यताके अभावमें अगर हम परस्पर मिलना-जुलना बन्द कर दें, तब तो हमसेसे वहतोंको 'एकान्तवाम'का व्रत लेना पड़ेगा।"

योगेन्द्र—“अक्षयने समझा था कि वह अकेला विनय दिखाकर सारी वहांडुरी हुद ही ले लेगा, लेकिन हेम उसपर भी बाजी मार ले गई। उसने सम्पूर्ण मनुष्यजातिकी तरफसे विनय दिखाकर सामने एक समस्या भी रख दी। लेकिन, मेरा इस सम्बन्धमें जरा-कुछ वक्तव्य है। असलमें हम-जैसे साधारण आदमी ही प्रतिदिन मिलने-जुलनेके योग्य होते हैं, और जो असाधारण हैं उनका तो क्वचित्-कभी ही दर्शन होना अच्छा है। इसीलिए तो वे वन-जगल और पहाड़-गुफाओंमें रहते हैं। लोकालयमें अगर वे स्थायीरूपसे रहने लगते तो अक्षय-योगेन्द्र आदि अत्यन्त साधारणजनोंको शहर छोड़कर वन या पहाड़ोंमें शरण लेनी पड़ती।” योगेन्द्रके इस कथनमें जो व्यग या उसे हेम समझ गई और वह उसके चुभ भी गया। किन्तु उसका उसने कुछ जवाब न देकर तीव्र प्याले चाय बनाकर क्रमसे अननदा बाबू, अक्षय और योगेन्द्रके सामने रख दिये।

योगेन्द्रने कहा—“तुम चाय नहीं पीओगी ?”

हेमनलिनी जानती थी कि अब उसे योगेन्द्रसे बातें सुननी पड़ेंगी, फिर भी उसने शान्त दृढ़ताके साथ कहा—“नहीं, मैंने चाय छोड़ दी है।”

योगेन्द्र—“अब बाकायदा तपस्या शुरू कर दो मालूम होता है। चायके पत्तियोंमें शायद आध्यात्मिक रेज काफी नहीं है, जो-कुछ है सब हर्द-बहेद्दर ही होगा। क्या मुसीबत है। हेम, इन-सब वाहियात बातेको छोड़ो। ऐसा प्याला चाय पीनेसे ही अगर तुम्हारा योग-यज्ञ भङ्ग होता हो, तो हो जाने दो। इस संसारमें खूब मजबूत चीज ही जब नहीं ठिकती, तो ऐसी-ऐसी क्षणभणु बातोंका इस दुनियामें क्या ठिकाना, जहाँ हलकी-हलकी बातोंके आधारपर दैनमाजको एकसाथ मिलकर रहना पड़ता है।” इतना कहकर योगेन्द्रने अपने हाथसे एक प्याला चाय बनाकर हेमके सामने मरका दी। हेमने उससे हाय न लगाते हुए अपने पितासे कहा—“यादूजी, आज तुम सिर्फ चाय ही पीओगे। कुछ खाओगे नहीं ?”

अननदा बाबूका स्वर और हाथ कांपने लगे, बोले—“बेटी, मैं गच कहद हूँ, इस टेबिलपर अब मुझे कुछ भी नहीं रुचता। यहुत देरसे मैं योगेन्द्र जाते सह लेनेको कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मेरे शरीर और मन भी

ऐसी हालत है कि मुँह खोलते ही क्याका क्या निकल जाय, कोई ठीक नहीं ! पीछे मुझ ही को पछताना पड़ता है ।"

हेम अपने पिताके पास जा खड़ी हुई, और बोली—“वापूजी, तुम रज न किया करो। भाई-साहब मुझे चाय पिलाना चाहते हैं, यह तो अच्छी ही बात है, मैंने इसमें कुछ बुरा नहीं माना। नहीं वापूजी, तुम्हें कुछ खाना हो पड़ेगा, खाली-पेट चाय पोनेसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जायगी।” कहते हुए हेमने नाश्तेकी तश्तरी उनके सामने सरका दी। अन्नदा बाबू धीरे-धीरे खाने लगे।

हेम अपनी कुरसीपर आकर बैठ गई। योगेन्द्रका दिया-हुआ प्याला उठाकर वह मुँहसे लगाना ही चाहती थी कि अक्षय चटसे बोल उठा—“माफ कीजियेगा, अपना प्याला आपको मुझे देना पड़ेगा, मेरी चाय खत्स हो चुकी है।” और, योगेन्द्रने उठकर हेमके हाथसे प्याला ले लिया, और पितासे बोला—“मुझसे बड़ी गलती हो गई वापूजी, मुझे माफ कीजिये।”

अन्नदा बाबूसे कुछ जवाब देते न बना, देखते-देखते उनकी दोनों आँखोंसे आँसू ढलक पड़े। योगेन्द्र अक्षयको साथ लेकर बाहर चला गया। अन्नदा बाबू नाश्ता करके उठे और हेमका हाथ पकड़कर काँपते-हुए पैरोंसे ऊपर चले गये।

उसी दिन रातको अन्नदा बाबूके पेटमें बड़े जोरका दर्द हुआ। डाक्टरने आकर परीक्षा की, और कहा—“इनके यकृतमें खराबी है। अभी रोग ज्यादा बढ़ा नहीं है। अभीसे अगर कहीं स्वास्थ्यकर जगहमें ले जाकर साल छें-महीने रखा जाय, तो बिलकुल ठीक हो सकते हैं।”

दर्द घटने और डाक्टरके चले जानेपर अन्नदा बाबूने कहा—“चलो हेम, हमलोग कुछ दिन काशी रह आवें।” ठोक यही बात हेमके मनमें भी आ रही थी। नलिनाश्तके जाते हो वह अपनी सावनाके सम्बन्धमें कुछ कमज़ोरी अनुभव कर रही थी। नलिनाश्तको उपस्थितिसे उसको सावनामें बड़ी-भारी दद मिलती थी। उसके चेहरेमें हो ऐसी एक स्थिर निष्ठा और प्रशान्त उत्तमताको दीसिथी कि वह हेमके विश्वासको प्रतिक्षण मानो विकशित किये खत्ती थी। नलिनाश्तकी अनुपस्थितिसे हेमके उत्साहपर मानो एक म्लान ग्रयासी आ पड़ो, और शायद इसीलिए आज वह दिन-भर नलिनाश्तके बताये

हुए अनुष्टानोंको जबरदस्ती और देर तक पालती रही । किन्तु उससे ऐसी एक थकान और निराशा आई कि उससे अपने आंसू रोके न सके । चायसे टेबिलपर ढृढ़ताके साथ उसने अतिथ्य करना जुह किया था, किन्तु उसके मनमार जो भारी बोझ था वह बना ही रहा । किर उसे पूर्व-स्मृतिको बेदना जोरोंसे मताने लगी, और उससे उसका मन मानो गृहदीन-आश्रयदीनको तरह द्वादशर कर उठा । इसोलिए, जब उसने पिताके मुँहसे काशी जानेको बात सुनी तो वह व्यग्र होकर बोल उठी—“हीं बापूजी, यहो ठीक रहेगा ।”

दूसरे दिन घरमें बाहर जानेको-सो तैयारियां देखकर योगेन्द्रने पूछा—“क्या, बात क्या है ?”

अनन्दा—“हमलोग पथिम जा रहे हैं ।”

योगेन्द्र—“किस जगह ?”

अनन्दा—“धूमते-धूमते जो जगह पसन्द आ जाय ।” योगेन्द्रसे यक्षयक काशी जानेकी बात कहनेमें वे सकुचा गये ।

योगेन्द्रने कहा—“लेकिन मैं अबको बार तुमलोगोंके साथ नहीं जा सकूँगा । मैंने हेडमास्टरोंके लिए दरखास्त दी है, उसके जवाबके लिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा ।”

## ४५

रमेश सबेरे ही इलाहाबादसे गाजोपुर आ गया । रास्तेमें जगदा आदमी नहीं थे, और जाड़ेकी जड़ताए रास्तेके पेड़ मानो अपने पत्तोंके आवरणमें डिये खड़े थे । सकानोंपर सफेद कुहरा ऐसा लग रहा था जैसे विशालकाय राजहमिनों अपने-अपने अण्डोंपर बैठी उन्हें से रही हों । ऐसे निर्जन-पवसे रमेशका तांगा धीरे-धीरे उसके बगलेको तरक चला जा रहा है, और मोटे ओवरकोट्से नीचे रमेशके जो ‘हृदय’ नामकी चीज है, उसकी गति और कंपकपी प्रतिरक्षा भड़ती ही जा रही है ।

बगलेके फाटकपर तांगा रुकते ही रमेश उत्तर पढ़ा । उसने सोना था कि तांगोंकी आवाज सुनने ही कमला जहर आहर घरण्डेमें था रुदी होगी । लगते

हाथसे कमलाके गलेमें पहनानेके लिए इलाहावादसे वह एक कीमती जड़ाऊ हार खरीद लाया था । बक्स समेत उस हारको रमेशने ओवरकोटको जेवेमें निकाल लिया । फाटकके भोतरसे आगे बढ़कर उसने देखा, विष्णु नौकर बरण्डेमें पढ़ा खराटि ले रहा है ; और मकानके दरवाजे सब बन्द हैं । चोट मी खाकर वह वहीं ठिठककर खड़ा हो गया । लैंचे स्वरमें उसने पुकारा—“विष्णु !” उसका ख्याल था कि इस पुकारसे भीतर भी किसीकी आँख खुल जायगी । किन्तु इस तरह जगानेमें उसे जो भीतरी चोट पहुँचो उससे वह व्यथित हो उठा, उसने तो पिछली रात जागकर ही काटो है ।

दो-तीन बार आवाज देनेपर भी जब विष्णु नहीं जगा तब उसे धक्के देकर जगाना पढ़ा । विष्णु जागकर उठ बैठा और हतबुद्धि-सा होकर रमेशके मुँहकी तरफ देखता रह गया । रमेशने पूछा—“तेरो बहूजी कहाँ हैं ?”

विष्णु पहले तो रमेशकी बातको समझ ही न सका, उसके बाद महसा चौककर बोला—“घर ही मैं हैं बाबू साब !” इतना कहकर वह फिर पढ़ रहा ।

रमेश दरवाजा खोलकर भोतर गया । भीतर जाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं है । कमरे सब सूने पढ़े हैं । फिर भी उसने चिल्ड्राकर पुकारा—“कमला !” किन्तु किसीने जवाब नहीं दिया । बाहर आकर नीमके नीचे तक धूम आया, फिर रसोईघर, नौकरोंकी कोठरियाँ, अस्तवल वगैरह सब देख डाला, कहीं भी कमला नहीं दिखाई दी । तर कुछ-कुछ धूप निकल आई थी, कौए बोल रहे थे, और बगलेके कुएसे पानी भरनेके लिए दो-एक पनिहारिनें भी आने लगी थीं । बगलेके पीछे किसी-एक मकानसे चक्की पीमनेवालियोंका गीत सुनाई दे रहा था ।

रमेश फिर घंगलेके सामने आ खड़ा हुआ ; देखा कि विष्णु फिर खराटि ले द्या है । जरा झुककर उसने विष्णुको भक्कोर डाला, देखा कि उसको सांसमें तोड़ीकी बदबू आ रही है । अबकी बार विष्णु कुछ होशमें आकर भड़भड़ाकर उठके खड़ा हो गया । रमेशने उससे फिर पूछा—“तेरी बहूजी कहाँ हैं ?”

विष्णुने कहा—“घर ही मैं होगी, बाबू साब !”

रमेश—“घरमें तो नहीं हैं ?”

विष्णु—“कल शामको तो यहाँ थो ।”

रमेश—“फिर कहा गई ?”

विष्णु मुह बाये रमेशके चेहरेकी तरफ देखता रह गया ।

इतनेमें चौड़ी किन्नारीको यहारदार माझी पहने-हुए चादर-ओडे उमेश आ पहुँचा ; उसकी ओरें लाल-बुर्ज हो रही थीं । रमेशने उससे पूछा—“उमेश, तेरी जीजो-बाई कहा हैं ?”

उमेशने कहा—“जीजी-बाई तो कल यहाँ आ गई थी ।”

रमेशने पूछा—“तू कहा था ?”

उमेशने कहा—“कल मुझे उन्हेंनि मिठ्ठो बाबूके यहाँ नाटक देखनेकी घुट्ठो दे दी थी ।”

तांगेवालेने आकर कहा—“बाबू सांब, किराया ?”

रमेश जल्दीसे उसी तांगेपर सवार होकर चचाके बगलेको तरफ चल दिया । वहाँ जाकर देखा कि घरके सभी अल्पन्त चश्म हो रहे हैं । रमेशने समझा, शायद कमला अचानक बीमार पढ़ गई है । किन्तु उसका अनुमान गलत निकला । मालूम हुआ कि कल रातको उमा अचानक चीराकर गे उठी थी और उसके हाथ-पर ठण्डे पढ़ गये थे, इसीसे सब चिन्तित हैं । उसके हलाजरमें रात-भर सब परेशान रहे, किसीको नींद नहीं आई । रमेशने समझा, उमाओ तथीयत खारब हो जानेसे जहर कमलाको कल यही बुला लिया गया होगा । उसने विपिनसे पूछा—“कमला शायद उसके पास होगी ? अब उसकी तेजी तथीयत है ?”

कुल रातको कमला यहाँ आई है या नहीं, विपिनको निश्चितहस्ते झुट मालूम नहीं वा, फिर भी अन्दाजसे उसने जगाव दिया—“हाँ, उमाछो वे बहुत जगदा प्यार करती हैं न, इसीसे । डाक्टरका तो कहना है, अब कोई निन्ताका कारण नहीं ।”

कुछ भी हो, अल्पन्त उन्नास और कल्यनाके पूर्ण ठद्धारामें बाना पढ़ जानेसे रमेशका मन अल्पन्त उदास हो गया । बद सोचने लगा, उनके गिलनां देख दो बारक हो रहा है ।

इतनेमें रमेशके बंगलेसे उमेश भी था पहुँचा । यहाँके अन्तपुरमे उसकी अवाध गति थी । और शशी भी उससे स्नेह करती थी । भीतर जाकर वह शशीके कमरेमें घुस ही रहा था कि शशी लड़कीको नौद उचट जानेकी आशङ्कासे जल्दीसे उठकर दरवाजेके पास आ गई ।

उमेशने पूछा—“दीदीजी, जीजी-बाई कहाँ हैं ?”

शशिमुखी ताज्जुबमें पढ़ गई, बोली—“क्यों, तू तो कल उन्हें बगलेमें ले गया था । रातको वहाँ लछमनियाको भेजनेकी बात थी, पर उमाको तबीयत खराब हो जानेसे नहीं भेज सकी ।”

उमेशका चेहरा उतर गया, बोला—“उम बंगलेमें वे नहीं हैं ।”

शशी घबड़ा गई, बोली—“यह क्या बात ! कल रातको तू कहाँ था ?”

उमेश—“जीजी-बाईने मुझे वहाँ रहने कहाँ दिया । वहाँ पहुँचते ही उन्होंने तो मुझे सिद्धो बाबूके यहाँ नाटक देखने भेज दिया था ।”

शशी—“तेरी भी क्या अकल है ! विष्णु कहाँ था ?”

उमेश—“उसे कुछ पता ही नहीं ! कल उसने खूब ताड़ी पी ली थी ।”

शशी—“जा जा, जल्दीसे बाबूको बुला ला ।”

विपिनके आते ही शशीने कहा—“सुनेते हो, यह तो बड़ा गजब हो गया ।”

विपिनका चेहरा फक पढ़ गया, उसने घबड़ाकर पूछा—“क्यों क्या हुआ ?”

शशी—“कमला कल शामको उस बगलेमें गई थी, अब उसका पता ही नहीं लगता कहाँ गई ।”

विपिन—“वे क्या कल रातको यहाँ नहीं आई थीं ?”

शशी—“नहीं जी ! मेरे मनमें आई भी थी कि बुला लू, पर कोई आदमी नहीं था । रमेश बाबू आ गये क्या ?”

विपिन—“हाँ । कमलाको बैगलेमें न देखकर उन्होंने तो यही समस्ता था कि वे यहों होंगी । वे बाहर बैठे हैं ।”

शशी—“जाओ जाओ, जल्दी जाकर पता लगाओ । उमी अभी चो रही है, तबीयत ठीक ही मालूम होती है ।”

विपिन और रमेश दोनों उसी तारेमें बैठकर बगले पहुँचे, और विष्णुके

पीछे पढ़ गये। बड़ी कोशिशके बाद जो-कुछ मालूम हुआ, सबको जोड़ जाइए उसका मतलब यह निकलता है कि कल शामको कमला अकेली गङ्गाकी तरफ गई थी। विष्णु साथ जानेको तैयार था, पर कमलाने उसे एक रुपया देकर यहाँ रहकर पहरा देनेको ऊहा, और अकेली चलो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी पता नहीं। जिस रास्तेसे कमला गगाकी तरफ गई थी, विष्णुने वह रास्ता दिखा दिया।

उस रास्तेसे, थोससे भीगे हुए देतोंके बोचमें होकर, रमेश विपिन और उमेश तीनों कमलाकी रोजमें चल दिये। उमेश चारों तरफ ऐसी व्याकुल हथिये देखने लगा जैसे शिकारीके हाथ फँसी हुई हरिणी अपने घिछुड़े घच्चेको देखनेके लिए फ़इफ़दाती है। गङ्गाके किनारे जाकर तीनों एक जगह रहे हो गये। चारों तरफ गुला हुआ है; रेतोपर सवेरेकी घाम चमक रही है। यथ गौरे सुनने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, पर कहीं भी कोई दिराई नहीं दिया। उमेश न-ब जोर-जोरसे कारने लगा—“जीजी-धाई! ओ जीजी-धाई! कहा हो जीजी-धाई?” उस पारके सुदूर तटमे प्रतिवनि मात्र सुनाई देकर रह गई, कहींसे कोई जवाब नहीं मिला।

दूर दृते दूर दृते उमेशको सहना बहुत दूर सफेद-सो कोई चीज पढ़ी दिनाई दी। दौड़ता हुआ वह उसके पास पहुंचा, देखा कि पानीके नजदीक रमालोंमें बैठा हुआ चामीज गुच्छा पड़ा है। “क्या है रे!”—कहता हुआ रमेश भी बहरा था पहुंचा। देखा, कमलाका ही चामीका गुच्छा है।

जहाँ रमाल पड़ा था, बहाँको गीलो मिट्टीमें देखा गया कि छोटे-छोटे पांवोंके निशान बने हुए हैं। ये निशान तटसे उतरते हुए सीधे पानीके भीतर चले गये हैं। थोड़ो देरमें पानीके मिलकुल पास ही टूसरी एक चीज चमड़ी हुई दिराई दी। चट्टसे उमेशने उसे उठा लिया, देखा कि सोनेकी छोटी-सी एक मेलियन है। रमेश देखने ही समझ गया कि यह उसीका दिया-हुआ उपहार है।

इन तरह इन नभी सनेतरनि जब कि गङ्गाके पानीसी तरफ ही लैंगले उठाएर इगार छिया, तो उमेशसे फिर रहा नहीं गया। यह ‘जीजी-धाई’

'जीजी-बाई' चिलाता हुआ पानीमें कूद पड़ा ; और इधरसे उधर सर्वत्र छुट्कियाँ लगा-लगाकर क्या ढूँढ़ने लगा सो वही जाने ! रमेश हतवृद्धि-सा खड़ा रहा । विपिनने कहा—“उमेश, तू कर-क्या रहा है ? निकल आ ।”

उमेश मुँहसे पानी फेंकता हुआ बोल उठा—“मैं नहीं निकलूँगा, नहीं निकलूँगा । जीजी-बाई, तुम मुझे छोड़के कहाँ चलो गई, मुझे भी लेती जाओ ।”

विपिन डर गया । पर, उमेश पानीमें मछलीकी तरह तैर सकता है, उसके लिए पानीमें छूटकर आत्महत्या करना बहुत मुश्किल था । वह छुट्कियाँ लगाते-लगाते जब खूब हाँफने लगा तब किनारे आकर रेतीपर पड़ रहा, और मछलीकी तरह फड़फड़ाता-हुआ रोने लगा ।

विपिनने निस्तब्ध रमेशको छूटकर कहा—“रमेश बाबू, चलिये । यहाँ खड़े रहनेसे अब कोई लाभ नहीं । धानेमें खवर देकर पता लगाना चाहिए ।”

शशिमुखीके घर उस दिन खाना-पीना सब बन्द हो गया, और शजीने रोने-कर घर भर दिया । गङ्गामें मलाहोंने नाव लेने-कर बहुत दूर तक जाल ढाले । पुलिस भी चारों तरफ खोज करने लगी । स्टेशन जाकर पता लगाया । मालूम हुआ कि ऐसी कोई बगाली स्त्री उस रातको रेलमें नहीं चढ़ी ।

उसी दिन शामको चक्रवर्ती भी आ पहुँचे । कई दिनोंका कमलाका ध्वनिहार और आयोपान्त सब वर्णन सुनकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि कमलाने गङ्गामें छूटकर आत्महत्या कर ली है ।

लछमनियाने दृढ़ताके साथ कहा कि 'इसीलिए वज्री कल रातको अचानक चौखकर बीमार पड़ गई थी । ओमा बुलाकर उसे अच्छी तरह भड़ा देना चाहिए ।'

रमेशकी छातीके भीतर सब सूख-सा गया ; उसमें आँसूकी भाष तक नहीं आई जो उसकी आँखोंमें जरा नमो पहुँचा सके । वह पागल-सा बैठा सोचने लगा, 'एक दिन यही कमला इसी गङ्गाके पानीमेंसे उठकर मेरे पास आ सड़ी रुई थी, और आज, पूजाके पवित्र फूलकी तरह आज वह इसी गङ्गाके पानीमें बैलीन हो गई ।'

सूरज जब झूबने लगा तब रमेश फिर गङ्गाके किनारे उसा जगह पहुँच गया जहाँ रुमालमें बैंधा चाभीका गुच्छा पड़ा मिला था । वहाँ खड़ा-खड़ा वह

उन पदचिह्नोंकी तरफ टकटकी लगाये देखता रहा । उसके बाद, जूते उतारकर धोती समेटके पानीके भीतर घुसा, और जेवर्मेंसे सवेरेवाला नया हार निकालकर दूर पानीमें फेंक दिया ।

इसके बाद रमेश कब गाजीपुरसे चला गया, चचा के घर किसीको इतना होश ही नहीं था कि कोई खबर रखता ।

## ४६

अब रमेशके सामने कोई भी काम नहीं रहा । उसे ऐसा मालूम होने लगा जिसे इस जीवनमें अब वह कोई भी काम न कर सकेगा, और कहीं भी वह स्थायी होकर नहीं बैठ सकेगा । हेमनलिनीकी बात उसके मनमें बिलकुल ही न उठी हो, सो नहीं, पर उसे उसने दूर हटा दिया है । उसने मन हीन्मन कहा है, 'मेरे जीवनमें जो एक जबरदस्त घटनासे गहरो चोट पहुँची है, उसने मुझे हमेशाके लिए ससारके अयोग्य बना दिया है । बिजलीका मारा पेड़ हरे-भरे बगीचेमें रहनेकी आशा ही क्यों करे ?'

रमेश भ्रमण करने निकल पड़ा । कहीं भी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहा । नावपर चढ़कर उसने काशीके घाटोंकी शोभा देखी, दिल्लीमें कुतुबमीनारपर चढ़ा, आगरामें चाँदनी रातमें ताजमहल देखा, फिर अमृतसरमें गुरुद्वार देखकर राजपूतानामें आबूके पहाड़पर मन्दिर देखने गया । इस तरह उसने अपने शरीर और मनको विश्राम नहीं लेने दिया ।

अन्तमें, भ्रमणसे थके इस युवकका अन्तःकरण 'घर'की चाहमें हाहकार करने लगा । उसके मनमें एक शान्तिमय घरकी अतीत स्मृति और एक सम्भावनामय घरकी सुखमय कल्पना वरावर आधात करने लगी । आखिर एक दिन उसका शोकमें सान्त्वना हूँडनेवाला भ्रमण सहसा समाप्त हो गया, और वह एक गहरी साँस लेकर कलकत्ताका टिकट लेकर रेलमें सवार हो गया ।

कलकत्ता जाकर रमेश कोल्हूटोला-वाली उस गलीमें सहसा प्रवेश न कर सका । वहीं जाकर वह क्या देखेगा, क्या सुनेगा, उसका कोई ठीक नहीं । उसके मनमें वरावर यह आशङ्का होने लगी कि वहीं जस्तर कोई जबरदस्त

परिवर्तन हुआ होगा । एक दिन तो वह गलोको मोड़ तक जाकर लौट आया । दूसरे दिन शामको रमेश अपनेको जबरदस्तो उस मकानके सामने ले गया । देखा, मकानके सब दरवाजे जगले बन्द हैं, भीतर कोई है, ऐसा नहीं मालूम हुआ । फिर भी, इस खयालसे कि सुखन नोकर तो जहर होगा, उसने सुखनको आवाज देकर दरवाजा खटखटाया । पर किसीने जवाब नहीं दिया । पछोसी चन्द्रमोहन अपने मकानके बाहर चबूतरेपर बैठे तम्बाकू पो रहे थे, उन्होंने कहा—“कौन, रमेश बाबू ? अन्नदा बाबू तो यहाँ नहीं हैं, सब बाहर गये हुए हैं ।”

रमेश—“कहाँ गये हैं मालूम है ?”

चन्द्रमोहन—“सो तो नहीं बता सकता, पछांहकी तरफ कहीं आद-हवा बदलने गये हैं ।”

रमेश—“कौन-कौन गये हैं बता सकते हैं ?”

चन्द्रमोहन—“अन्नदा बाबू और उनकी लड़की ।”

रमेश—“आपको ठीक मालूम है उनके साथ और-कोई नहीं गया ?”

चन्द्रमोहन—“ठीक नहीं मालूम तो क्या ! जाते समय मुझसे उनकी बात हुई है ।”

रमेशसे अब तो रहा नहीं गया, वह वीरज खोकर कह बेठा—“मैंने एक आदमीसे सुना है कि साथमें नलिन बाबू भी गये हैं ?”

चन्द्रमोहन—“गलत बात है । नलिन बाबू आप बाले मणानमें कुछ दिन रहे थे । वे तो इनके जानेसे कुछ दिन पहले ही यहाँसे चले गये थे ।”

रमेशने फिर बातों-ही-बातोंमें चन्द्रमोहनसे नलिनके सम्बन्धमें योड़ी-बहुत जानकारी हासिल कर लो । उनका नाम है नलिनाश्च चट्टोपाध्याय, पहले डाक्टरी करते थे, अब माके साथ काशीमें ही रहते हैं । रमेश कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सोचता रहा । अन्तमें बोला—“योगेन्द्र कहा है, बता सकते हैं ?”

चन्द्रमोहनने बताया कि ‘योगेन्द्रने विशार्दिपुरके हाई-स्कूलमें नौकरी कर ली है, वहाँ वह हेड-मास्टर है ।’ और पूछा—“रमेश बाबू, बहुत दिनोंसे आपको देखा नहीं, आजकल आप रहते कहाँ हैं ?”

रमेशने, यह सोचकर कि अब छिपाना फूल है, कह दिया—“प्रैक्टिस करने गाजीपुर गया था।”

चन्द्रमोहन—“तो क्या अब वहाँ रहनेका विचार है?”

रमेश—“नहीं, वहाँसे तो चला आया। अभी कुछ तय नहीं किया कि कहाँ रहूँगा।”

रमेशके जानेके छोड़ी देर बाद ही अक्षय आ पहुँचा। बिशाईपुर जाते वक्त योगेन्द्र उसे मकानको देख-भालका भार दे गया था। अक्षय जिस भारको अपने ऊपर लेता है उसकी रक्षा करनेमें वह शिथिलता नहीं करता; इसीसे वह सुविधानुसार चाहे जब आकर देख जाता है कि दो-दो नौकरोंमेंसे एक भी घरपर रहकर खबरदारी करता है या नहीं। अक्षयको देखते ही चन्द्रमोहन बोल डठे—“अभी-अभी रमेश बाबू आकर गये हैं।”

अक्षय—“अच्छा! क्यों आये थे?”

चन्द्रमोहन—“सो तो नहीं मालूम। मुझसे अन्नदा बाबूका सब समाचार ले गये हैं। ऐसे दुष्टले हो गये हैं कि सहसा पहचाननेमें नहीं आते। अगर वे नौकरको आवाज न देते, तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता।”

अक्षय—“अब कहाँ रहते हैं, कुछ मालूम हुआ?”

चन्द्रमोहन—“अब तक तो गाजीपुर थे। अब शायद यहीं चले आए हैं। कहाँ रहेंगे, अभी कुछ तय नहीं कर पाये।”

अक्षय—“अच्छा!” कहकर अपने काममें लग गया।

रमेश वहाँसे लौटकर विस्तरपर पढ़ रहा, और सोचने लगा, ‘भास्य यह कैसा नाटक-सा खेल रहा है! इधर मेरे साथ कमलाका, और उधर नलिनाक्षने साथ हेमनलिनीका यह मिलन, यह तो विलकुल नाटकीय मामला है। इस तरहका उलटा-पुलटा मेल मिला देना अदृष्ट जैसे लापरवाह रचयितासे ही समझ हो सकता है। समारमें वह ऐसो अद्भुत घटनाएँ घटा देता है कि ढरपोक लेखक काल्पनिक कहानीमें भी वसा लिखनेका साहस नहीं कर सकते।’ फिर उसने सोचा, अब जब कि वह अपने जीवनके समस्या-जालसे मुक्त हो गया है, तो जहाँ तक समझ है, अदृष्ट अपने इस जटिल नाटकके अन्तिम अङ्कमें रमेशके लिए कोई भयानक उपस्थार नहीं लिखेगा।

योगेन्द्र बिशाईपुरमें, स्कूलके प्रतिष्ठाता जमीदारके मकानके पास, एक छोटेसे मकानमें रहता है। रविवारके दिन, सवेरे बैठा हुआ वह अखजर पढ़ा था, इतनेमें बाजारके किसी आदमीने आकर उसे एक चिट्ठी दी। लिफाफेके ऊपरके अक्षर देखते ही वह दग रह गया। रमेशने लिखा है, 'मैं बाजारकी एक दूकानपर बैठा हुआ हूँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।'

योगेन्द्र यहायक कुरसी छोड़कर उछल पड़ा। रमेशका अपमान करनेके लए यद्यपि एक दिन उसे मजबूर होना पड़ा था, फिर भी उस बाल्यबन्धुको तने दिन बाद इस दूर-देशमें पाकर उसे वह निराश न कर सका। यहाँ तक के इससे उसके मनमें खुशी ही हुई, और कुतूहल भी कम नहीं हुआ। ग्रासकर जब कि हेमनलिनी यहाँ नहीं हैं तब रमेशसे किसी अनिष्टकी आशक्षा नहीं को जा सकती।

पत्रबाहकके साथ वह खुद ही बाजारकी तरफ चल दिया। दूरसे देखता कि मेश एक मोदीको दूकानमें चीझको पेटोपर चुपचाप बैठा है। योगेन्द्रने तेजीसे आकर उसका हाथ पकड़ लिया; और खोचकर उसे उठाते हुए कहा—“तुमसे ऐतना मुश्किल है। तुम अपनी दुविधामें ही ढूँबे रहे। तुम्हें सोधा मेरे घरपर जाना चाहिए था, सो तो नहीं, यहाँ गुड़-बतासोंमें बैठे हो। चलो उठो।”

रमेश शरमिन्दा होकर जरा हँस दिया। योगेन्द्र रास्तेमें न-जाने क्या क्या कहा चला गया। कहने लगा—“कोई कुछ भी कहे, विवाताको हम कोई नहीं जान सकते। उन्होंने मुझे शहरमें पेंदा किया, वहीं इतना बड़ा किया, औं क्या इस घोर देहातमें लाकर मारनेके लिए?”

रमेशने चारों तरफ टेखकर कहा—“क्यों, जगह तो दुरी नहीं है।”

योगेन्द्र—“मतलब?”

रमेश—“मतलब गान्त एकान्त स्थान है—”

योगेन्द्र—“इसोलिए, मुझ जैसे और एक आदमीको अलग करके इस निर्जनताको और भी जरा बढ़ानेके लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ।”

रमेश—“कुछ भी कहो, मानसिक शान्तिके लिए यह स्थान बड़ा—”

योगेन्द्र—“ये सब बातें मुझसे न कहो। इधर कई दिनोंसे मनकी सुमिश्राल

शान्तिके मारे मेरे प्राण कण्ठमें आ अटके हैं ! मैंने अपनी सारी शक्ति लगाक इस शान्तिको तोड़नेको यथासाध्य कोशिश की है, यहाँ तक कि स्कूलवे सेक्रेटरीके साथ हाथापाई होते-होते बच गई। जर्मांदार साहबको भी अफ मिजाजका मैंने परिचय दे दिया है, अब वे शायद जल्दी मेरे ऊपर हस्तक्षेप करने नहीं आयेंगे। हजरत अगरेजी अखबारोंमें अपनी तारीफ लिखवाक छपवाना चाहते थे; पर मैं स्वतन्त्र विचारका आदमी ठहरा, नकोबो मुझसे दूरगिज नहीं हो सकती, यह बात मैंने उन्हे अच्छी तरह समझा दी है। कि भी मैं जो यहाँ टिका हुआ हू, सो अपने गुणोंके कारण नहीं। यहाँके जायेन साहबने मुझे बहुत पसन्द किया है, इसीसे जर्मांदारको मुझे हटानेकी हिम्मत नहीं पढ़ रही है। जिस दिन गजटमें देखू गा कि जायेण्टका तबादला हो रहा है, उसी दिन विशाईपुरके आकाशसे मेरा हेड-मास्टरीका सूर्य अस्त हुआ समझो यहाँ मेरा एकमात्र मित्र है मेरा पञ्च कुत्ता। और-सबकी मेरे प्रति जैसी दृष्टि है, उसे किसी भी हालतमें ‘शुभदृष्टि’ नहीं कहा जा सकता।”

योगेन्द्रके घर जाकर रमेश एक कुरसोपर बैठ गया। योगेन्द्रने कहा—“नहीं, अब बैठो मत। मुझे मालूम है, प्रातःस्नान नामका तुम्हारा एक धो कुसस्कार है, उसे मृटपट पूरा कर लो। इतनेमें मैं केटली चढ़ाये देता हू आतिथ्यको दुहाई देकर आज और एक बार चाय पी लू गा।”

इस तरह आहार आलाप और विश्राममें दिन बीत गया। रमेश जिस खार बातके लिए यहाँ आया था, योगेन्द्रने दिन-भरमें उसके लिए विलकुल अवकाश ही नहीं दिया। रातको खा-पीकर दोनों जब आरामकुरसीपर बैठे, तब पासवे खेतोंमें सियार बोल उठे, और अंधेरी रात झोगुरोंकी झनकारसे कौपने लगी

रमेशने कहा—“योगेन, तुम जानते हो, मैं तुमसे क्या कहने यहाँ आय हू। एक दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, उस सवालका आज मैं जवाब देने आया हू, आज उसमें कोई भी वाधा नहीं है।” कहकर रमेश कुछ देर तब चुप बठा रहा। उसके बाद धोरे-बीरे आयोपान्त सब बातें उसने कह डाले बीच-बीचमें उसका गला रुक आया, स्वर भी कौप उठा, और कहीं-कहीं दो-एवं मिनटके लिए चुप भी रहा। योगेन्द्र चुपचाप सब सुनता गया। जब सब बातें

मुन लों तब उसने एक गहरी सौंस ली, और कहा—“ये सब बातें अगर उस दिन कहते, तो मैं विश्वास ही नहीं करता।”

रमेश—“विश्वास करनेके कारण उस दिन जितने थे, आज भी उतने ही हैं। इसके लिए तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरा जिस गाँवमें व्याह हुआ था उस गाँवमें तुम्हें एक बार जाना होगा। उसके बाद वहाँसे मैं तुम्हें कमलाको निसाल भी ले चलूँगा।”

योगेन्द्र—“मैं यहाँसे एक कदम भी न हिलूँगा। मैं इसी आरामकुरसी और पढ़ा-पढ़ा तुम्हारी प्रत्येक बातपर विश्वास करूँगा। तुम्हारी सभी बातोंपर विश्वास करना मेरी हमेशाकी आदत है, जोबनमें सिर्फ एक बार उसमें फरक नहीं है, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ।” इतना कहकर योगेन्द्र कुरसों ग्रेइकर रमेशके सामने आ खड़ा हुआ। रमेश भी उठ खड़ा हुआ। और दोनों आत्मवन्धु आपसमें खूब मिल लिये। रमेशने अपने गलेको साफ करते हुए हाँ—“मैं न-जाने कैसे भाग्य-रचित ऐसे एक दुर्श्रेष्ठ मिथ्याके जालमें फँस गया था कि उसमें पकड़ाई देनेके सिवा मुझे और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। आज जो मैं उससे मुक्त हो गया और मेरे लिए अब किसीसे कुछ छिपानेका ही रहा, इससे मुझे प्राण मिल गये। कमलाने क्या समझके क्या सोचन्तर आत्महत्या को, सो आज तक मेरी समझमें नहीं आया, और भविध्यमें भी समझनेकी कोई सम्भावना नहीं। पर, इतना निश्चित है कि मृत्यु अगर इस रहस्ये हमारे दो जीवनोंको इस कठिन गाठको न काट देती, तो अन्तमें हम नों कैसी दुर्गतिमें जाकर पड़ते, उसका खयाल करके अब भी मेरी आत्मा कांप रही है। मृत्युके ग्राससे एक दिन जिस समस्याका अकस्मात् उद्घव हुआ था, आत्मियोंमें ही एक दिन उस समस्याका वैसे ही अकस्मात् अन्त हो गया।”

योगेन्द्र—“कमलाने निश्चितरूपसे आत्महत्या ही कर लो है, उसे तुम असशय होकर विश्वास न कर बैठना। खूब, कुछ भी हो, तुम्हारी तरफसे तो व साफ हो गया। अब मैं नलिनाक्षके विषयमें सोच रहा हूँ।”

इसके बाद योगेन्द्र नलिनाक्षके विषयमें बात करने लगा, बोला—“मैं ऐसे अद्वियोंको अच्छो तरह नहीं समझ पाता, और जिसे समझता नहीं उसे

पसन्द भी नहीं करता । लेकिन दुनियामें ज्यादातर लोग मुझसे ठीक तरह मिलेंगे, वे जिसे नहीं समझते उसीको ज्यादा पसन्द करते हैं । इससे, हेमेन्द्र विषयमें मुझे काफी डर बना हुआ है । जब देखा कि उसने चाय छोड़ दी है मास-मछली भी नहीं खाती, यहाँ तक कि मजाक उड़ानेपर भी पहलेको तरह उसकी आँखोंमें आँसू नहीं आते, तब मैं समझ गया कि स्थिति चिन्ताजनक है । इस बातका मुझे निश्चय है कि कुछ भी हो, तुम्हारी मदद मिलनेपर उसका उद्धार करना ज्यादा कठिन न होगा । लिहाजा, तैयार हो जाओ, दोनों मिलकर सन्यासियोंके विरुद्ध युद्धयात्रा शुरू कर दें ।”

रमेशने हँसते हुए कहा—“यद्यपि वीर पुरुषोंकी श्रेणीमें मेरा नाम नहीं फिर भी, मैं तैयार हूँ ।” योगेन्द्र—“ठहरो, बड़े दिनोंकी छुट्टी आने दो ।”

रमेश—“उसे तो अभी देर है, तब तक मैं अकेला ही आगे क्यों न बढ़ूँ ?”

योगेन्द्र—“नहीं नहीं, यह दरगिज नहीं हो सकता । तुम्हारा सम्बन्ध मैंने ही तोड़ा था, मैं अपने हाथसे उसे जोड़ूँगा । तुम पहलेसे ही जाकर मेरे शुभकार्यपर हाथ मारोगे, सो नहीं होगा । छुट्टियोंको अब रह कितने दिन गंवाएं, दस ही दिनकी तो देर है ।” रमेश—“तो इस बीचमें मैं एक बार—”

योगेन्द्र—“नहीं नहीं, फालतू बात मत करो । दस दिन तुम यहाँ रहो यहाँ भगद्दा करने-लायक जितने भी आदमी थे, सबको एक-एक करके खत्म कर दिया है, अब मुँहका जायका बदलनेके लिए एक मित्रकी जरूरत है ऐसी हालतमें मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता । इतने दिनोंसे रोज शामको मैं सियारोंका ही पुकार सुनता आया हूँ ; अब, मुझे तुम्हारा कण्ठ ही वीणा-विनन्दित-साल्लम हो रहा है । सचमुच, मेरी हालत ऐसी ही शोचनीय हो उठी है ।”

### ४७

चन्द्रमोहनसे रमेशकी खबर पाकर अक्षयके मनमें बहुत-सो चिन्ताएँ पैदा हो गईं । वह सोचने लगा, ‘बात क्या है जो इतने दिन बाद फिर वह यह आया ? गाजीपुरमें प्रैक्टिस कर रहा था, इतने दिनोंसे अपनेको छिपाये हुए थे अचानक क्या हो गया जिससे वह वहाँकी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ चला आया अब तो वह किसी-न-किसी तरह पता लगा ही लेगा कि अबदा बाबू काशी

'क्षैर वहाँ पहुँच जायगा।' सोचते-सोचते अन्तमें उसने गाजीपुर जाना तय किया। वहाँसे पूरी जानकारी हासिल करके फिर काशी जायगा।

एक दिन अक्षय अगहनको दोपहरीमें सुटकेस हाथमें लिये गाजीपुर पहुँच गया। पहले बाजारमें पूछताछ को कि वगाली वकील रमेश धावू कहाँ रहते हैं, किन्तु कुछ पता नहीं लगा। इवर-उधर दौड़-धूप करके और भी बहुत जगह त्रिसन्धान किया, किन्तु रमेश नामके किसी वकीलको वहाँ कोई जानता ही नहीं। अन्तमें वह कच्छरी पहुँचा। एक वगाली वकील अदालतसे घर लौट गया था, उससे पूछनेपर मालूम हुआ कि 'रमेश अब तक तो चक्रवर्ती-चचाके हाँ था, अब वहाँ है या नहीं, पता नहीं। उसकी स्त्रीका पता नहीं लग रहा।' शायद वह गज्जामें ढूबकर मर गई है।'

अक्षय पूछता हुआ चक्रवर्ती-चचाके घरकी तरफ चल दिया। रास्तेमें बोचने लगा, 'अब रमेशको चाल कुछ-कुछ समझमें आ रही है। स्त्री मर गई'; अब वह हेमनलिनीके आगे बेधढक यह साधित करनेको कोशिश करेगा कि सके कभी कोई स्त्री नहीं थी। और हेमको अवस्था ऐसी है कि उसके लिए रमेशको बातपर अविश्वास करना असम्भव है।' जो लोग धर्मके सम्बन्धमें खिरतसे ज्यादा दिमाग लड़ाया करते हैं, भीतर-ही-भीतर वे कितने भयंदर होते हैं, इस बातपर विचार करता हुआ अक्षय अपने प्रति पहलेसे अधिक श्रद्धावान हो गए। चचाके घर जाकर जब उसने रमेश और कमलाकी बात पूछी, तो चचाएँ थीं न गया, वे रोने लगे। बोले—“आप जब कि रमेशके मित्र हैं, तो मेरी भी कमलाको जहार जानते होंगे। मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि कुछ ही र्णोंमें मेरा उससे इतना मोह हो गया था कि लड़कोसे क्या होगा! दो दिनके लिए इतना मोह-जाल फैलाकर लछमो-बेटी मेरी इस तरह मुझे छोड़कर चली गयी, यह किसे मालूम था।”

अक्षय चेहरेपर उदासी लाता हुआ बोला—“ऐसा क्यों हुआ, मेरी कुछ भिकमें नहीं आता। जहर रमेशने उसके साथ दुरा बरताव किया होगा।”

चचा—“आप नाराज न होइयेगा। आपके रमेशको मैं अभी तक नहीं इच्छत सका। इधर बाहरसे तो देखनेमें बहुत ही अच्छा मालूम होता था;

भीतर क्या सोचता था, क्या करता था, भगवान जानें। नहीं तो, कमला जैसी स्त्री, ऐसी सती-लक्ष्मी, उसका अनादर भला कोई कैसे कर सकता है! मेरो लड़कीसे कमलाका बड़ा मेलजोल हो गया था, बड़ा-भारी प्रेम था दोनोंमें, पिछे भी कभी उसने अपने पति के विषयमें उससे एक भी शब्द नहीं कहा। लड़की मेरी समझ रही थी कि कमला मनमें सुखो नहीं है। हार्दिक वेदना उसे खाये जा रही है। मगर पूछनेपर वह भला क्यों बताने लगी। ऐसो स्त्री बहुत ज्यादा कष्ट पानेपर ही ऐसा काम कर सकती है, इतना तो आप समझते ही होंगे। सब बातें सोचता हूँ तो मेरो तो छाती फट्टने लगती है। मेरी फूटों तकदीर तो देखिये, मैं तब इलाहाबाद गया हुआ था। नहीं तो, वेटो मेरी हरगिज मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थो।”

दूसरे दिन सवेरे चचाको साथ लेकर अक्षय बगला देख आया, और गङ्गाके किनारे भी एक चक्कर लगा आया। घर बापस आकर बोला—“देखिये चचा साहब, कमलाने गङ्गामें डूबकर आत्महत्या कर लो है, इस विषयमें आप जितने निश्चिन्त हैं, मैं उतना नहीं हो सका।”

चचा—“आपका क्या ख्याल है?”

अक्षय—“मेरा ख्याल है, वे घर छोड़कर चली गई हैं। उनकी अच्छी तरह खोज होनी चाहिए।”

चचा अक्समात उत्तेजित होकर बोल उठे—“आपने ठीक कहा है, कोई असम्भव बात नहीं।”

अक्षय—“पास ही काशी-तीर्थ है; वहाँ हमारे एक परम मित्र हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कमला उन्होंके यहाँ चली गई हो।”

चचाको इससे बड़ी आशा वैव गई, बोले—“अच्छा। रमेशने तो क्षोई जिक्र नहीं किया कभी। मुझे मालूम होता तो क्या काशी जाकर बिना ढूँढ़ मानता मैं?”

अक्षय—“तो चलिये, एक बार हम दोनों काशी जाकर देखें। आपका तो सब जाना सुधा है, आप वहाँ अच्छी तरह खोज कर सकेंगे।”

चचा इस प्रस्तावपर उत्साहके साथ राजी हो गये। अक्षय जानता था कि

हेमनलिनो उसको बातपर जल्दी विश्वास नहीं करेगो, इसलिए साक्षी-सबूतके तौरपर चचाको साथ लेकर खुशी-खुशी वह काशो चल दिया।

## ४८

शहरके बाहर छावनीको तरफ अननदा बाबूने एक बगला किरायेपर ले लिया, और वे उसोमें रहने लगे। काशो पहुँचते ही उन्हें मालूम हुआ कि नलिनाक्षकी मा क्षेमङ्करीको खांसी-बुखार होते-होते नियोनिया हो गया है। ज्वरमें भी वे, ऐसे जाड़में, रोज गङ्गा नहाती थों, और उसीसे उनकी अवस्था ऐसी सङ्कटापन्न हो उठी है।

कई दिनों तक हेमने उनकी जी-जानसे सेवा-ठहल की, जिससे अष्ट कुछ सेहत है। पर कमजोरी हृदसे ज्यादा है। छुआँकूत ओर पवित्रताला बहुत ज्यादा विचार होनेसे पथ्य-पानी सम्बन्धी हेसकी सेवा उनके कुछ काम नहीं आई। इसके पहले वे अपने हाथका बना हुआ ही खाती थों, अब नलिनाक्ष स्वयं उनका पथ्य बनाता है। खाने पोनेकी सारो व्यवस्था खुद नलिनाक्षको अपने हाथसे करनी पड़ती है, क्षेमङ्करीको इसका बङ्गा रज है। एक दिन वे कहने लगीं, 'मैं तो चली जाती तो अच्छा था, मालूम होता है बाबा विश्वनायने उमलोगोंको कष्ट देनेके लिए ही मुझे बचा लिया है।'

क्षेमङ्करीने अपने सम्बन्धमें काफो कठोरता अवलम्बन कर रखी थी, किन्तु अपने चारों तरफ सफाई और सोन्दण-विन्यास पर उनकी खूब सतर्क दृष्टि थी। हेमनलिनीने यह बात नलिनाक्षसे सुनी थी। इसलिए घर-द्वार सजाने और जारीं तरफ खूब सफाई रखनेमें वह कोई बात उठा नहीं रखती, और खुद भी बहुत साफ-सुधरी रहती है। अबदा बाबू अपने बगलेके बगांचेसे रोज फूल लाया करते हैं, और हेमनलिनी उन्हें क्षेमङ्करीकी रोगशब्द्याके पास नानाप्रकारसे तेज़ रखती है।

नलिनाक्षने अपनो माको सेवाके लिए एक दासो रखनेकी कई घार को शिशों है, पर दूसरोंके हाथकी सेवा लेनेमें वे किसी भी तरह राजी नहीं हुईं। शानी भरने और बासन माजनेके लिए एक नौकरानी थी जहर, पर अपने काममें उन्हें किसी भी वेतनभोगीका हाथ लगाना सहन नहीं होता। जिस हरियाकी

अबदा बाबू व्यस्त होकर बोल उठे—“आप कहतो क्या हैं ! मुझे तो इस तरहको आशा करनेकी भी कभी हिम्मत नहीं हुई । नलिनाक्षके साथ मेरी लड़कोका अगर व्याह हो, तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और क्षण हो सकता है । लेकिन वे क्या—”

क्षेमद्वारीने कहा—“नलिनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । वह आजकलके लड़कों जैसा नहीं है, वह मेरी बात मानता है । और, इसमें जो जवरदस्तीको काँइ बात नहीं । आपको लड़को उसे क्यों नहीं पसन्द आयेगी ? पर, इस कामको मैं जल्दी ही कर ढालना चाहती हूँ । मेरी तबोयत ठीक नहीं रहती, कब क्या हो जाय, कोई ठीक नहीं ।”

उस रातको अबदा बाबू अत्यन्त उत्फुल्ल होकर घर लौटे । उन्होंने हेमको बुलाकर कहा—“वेटी, मेरी काफी उमर हो चुकी, और इधर मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता । तुम्हारी मुझे बहुत चिन्ता है । तुम्हें किसी योग्य वरके हाथ सौपकर मैं निश्चिन्त होना चाहता हूँ । वेटी, मुझसे शरमाना नहीं । तुम्हारी मा नहीं हैं, सारा भार मेरे हो ऊपर है ।”

हेमनलिनी उत्कण्ठित होकर पिताके मुँहकी तरफ देखती रही । अबदा बाबू कहने लगे—“वेटी, तुम्हारे लिए ऐसा एक सम्बन्ध आया है जिसकी खुशी मुझसे रोके नहीं रुकती । मुझे डर लगता है कि कहीं कोई विप्लव न आ पड़े । आज नलिनाक्षकी माने मुझे बुलाकर कहा है कि वे अपने पुत्रके साथ तुम्हारा सम्बन्ध करनेको तैयार हैं ।”

मारे गरमके हेमका चेहरा सुर्ख हो उठा, अत्यन्त सङ्कोचके साथ उसने कहा—“बापूजी, तुम क्या कह रहे हो ! नहीं नहीं, ऐसा भी कहीं होता है ।”

नलिनाक्षके साथ उसका व्याह हो सकता है इस बातकी हेमने कभी कल्पना भी नहीं की थी । अचानक पिताके मुँहसे इस प्रस्तावको सुनकर सङ्कोचसे वह अस्थिर हो उठी । अबदा बाबूने पूछा—“क्यों नहीं हो सकता, वेटी ?”

हेमने कहा—“नलिनाक्ष बाबूसे ! ऐसा भी कहीं होता है ।” दूस तरहके उनरको ठीक युक्तिसङ्गत नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हाँ युक्तिकी अपेक्षा कई चुना प्रबल है ।

हेमसे फिर वहाँ बैठा नहीं गया, वह उठकर बरण्डेमें चली गई।

अबदा बाबू अत्यन्त विमम हो उठे। उन्होंने इस तरहकी बाधाकी करो कल्पना भी नहीं की थी। बल्कि उनको तो धारणा थी कि नलिनाक्षके साथ व्याहका प्रस्ताव सुनकर हेमको खुशी ही होगी। हतबुद्धि वृद्ध पिता अत्यन्त व्यथित होकर बत्तोकी तरफ देखते हुए स्त्रो-प्रकृतिके कल्पनातात रहस्य और हेमकी माके अभावके विषयमें विचार करने लगे।

हेम बहुत देर तक बरण्डेके अंधेरेमें बैठी रही। उसके बाद जब उसने भीतर कमरेकी तरफ देखा, तो उसकी नजर पढ़ी अपने पिताके अत्यन्त हताश चेहरेपर। इससे उसके हृदयको बड़ी गहरी चोट पहुँची। चटसे उठकर वह पिताकी कुरसीके पीछे आ खड़ी हुई, और उनके बालोंमें उगलियाँ फेरती हुई बोली—“चलो वापूजी, खाने चलो, फिर सब ठण्डा हो जायगा।”

अबदा बाबू यन्त्र-चालितकी तरह उठके चल दिये, और खाने बैठ गये। किन्तु अच्छो तरह खा नहीं सके। कुछ दिनसे वे समझ रहे थे कि हेमनलिनीके सम्बन्धमें अब सब वावाएँ दूर हो चुकी हैं। और इससे वे आशान्वित हो उठे थे, किन्तु हेमकी तरफसे ही इतनो बड़ी वाया देखकर उनका कलेजा बैठ गया। फिर वे व्याकुल दीघनिश्वाम छोड़कर मन-ही-मन सोचने लगे, ‘तो हेम अभी तक रमेशको भूल नहीं सकी है।’

और-और दिन भोजन करनेके बाद ही अबदा बाबू सोने चले जाया करते थे, किन्तु आज वे बरण्डेमें आरामकुरसीपर बैठ गये, और बगोचेके सामनेवाली छावनोकी सुनसान सङ्ककी तरफ देखते हुए हेमके विषयमें सोचने लगे। योद्धी देर बाद हेमनलिनी हँसती हुई स्त्रिघस्तरमें बोली—“जापूजी, यहाँ बड़ी ठण्ड है, चलो, भीतर चलके सो जाओ अब।”

अ-नदा—“तुम सोने जाओ बेटी, मैं योद्धी देरमें आऊँगा।”

हेम चुपचाप खड़ी रही। योद्धी देर बाद फिर बोलो—“वापूजी, तुम्हें दोँड़ लग रही है। न-हो-न्तो, बैठकमें हो चलो।”

बैठने अबदा बाबू उठके सोने चले गये।

लङ्घकोहेमनलिनी, इस दरसे कि कहीं उसके कतव्यमें त्रुटि न हो, रमेशको बात

सोच-सोचकर अपनेको पोडित नहीं करती। इसके लिए उसे अपने खिलाफ बहुत ज़म्मना पड़ा है। किन्तु बाहरसे जब खिचाव आता है तो घावको पोड़ा जाग उठती है। हेमसे अपने भविष्य-जोवनके विषयमें आज तक कुछ भी तथ करते नहीं बन रहा है, और इसीलिए वह एक मजबूत सहारा ढूँढ़ रही थी। इतमेंमें नलिनाक्ष मिल गया, और उसे वह गुरु मानकर उसके उपदेश-अनुसार अपनेको चलानेके लिए तयार हो गई थी। किन्तु जब विवाहका प्रस्ताव उसके सामने आया और उसने उसे उसके हृदयके गभीरतम आश्रयसूत्रसे खींचना चाहा तब उसकी समझमें आया कि रमेशका बन्धन उसके लिए कितना कठिन है। और उससे कोई उसे छुड़ाने आता है तो उसका मन व्याकुल होकर उस बन्धनको दूने बलसे जकड़े रहनेको कोशिश करता है।

#### ५

उधर क्षेमद्वारीने नलिनाक्षको बुलाकर कहा—“मैंने तेरे लिए लड़की ठोक कर ली है।”

क्षेमद्वारी—“विलकुल ठीक ही कर लो ?”

क्षेमद्वारी—“नहीं तो क्या ! मैं क्या हमेशा जिन्दा रहूँगी ? मेरी बात सुन, मैंने हेमनलिनीको पसन्द किया है। ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। रग उतना साफ नहीं है, लेकिन—”

नलिनाक्ष—“नहीं नहीं, मा, मैं साफ रगको बात नहीं सोच रहा। पर हेमनलिनीसे कौसे हो सकता है। ऐसा भी कहीं होता है।”

क्षेमद्वारी—“क्यों, क्या हो गया ! इसमें अहंकरणको क्या बात है ?”

नलिनाक्षके लिए इसका जवाब देना मुश्किल है। किन्तु, हेमनलिनी ! अब तक जिसे वह गुहको तरह बिना किसी सङ्कोचके उपदेश देता आया है, अकस्मात उसके साथ विवाहके प्रस्तावसे नलिनाक्षको अत्यन्त लज्जा होने लगी। नलिनाक्षको चुप देखकर क्षेमद्वारीने कहा—“अब मैं तेरी कोई भी आपत्ति नहीं सुननेको। मेरे लिए तू इस उमरमें सब-कुछ छोड़-छाड़कर काशीवासी होकर तपस्या करें रहेगा, यह मुझसे हरगिज न सहा जायगा। अबकी बार जो शुभ दिन अद्दों वह खाली नहीं जायगा, मैं कहे देती हूँ !”

नलिनाक्ष कुछ देर तक चुप रहा फिर बोला—“तो एक बात तुमसे कहता हूँ, मा। पहलेसे कहे देता हूँ, तुम चश्मा न होना। उस घटनाको आज नौ-दस महीने बीत चुके, अब उसमें विचलित होनेकी कोई बात नहीं। पर तुम्हारा जैसा स्वभाव है, कोई अमङ्गल दूर हो जानेपर भी उसका ढर तुम्हें बना ही रहता है। इसीलिए बहुत दिनोंसे कहूँ-कहूँ करते-करते भी मैं तुमसे नहीं कह सका। मेरे उस ग्रहका शान्तिके लिए तुम जितना चाहो स्वस्त्रयन करा सकती हो, पर बेमतलब मनको पोङित मत करना।”

क्षेमङ्गो उद्धिग्न हो उठी, बोली—“क्या मालूम वेदा, तू क्या कहेगा ! पर तेरी भूमिका सुनकर तो मेरा मन बहुत उद्धिग्न हो उठा है। जब तक मैं मौजूद हूँ, तब तक तो अपनेको तुझे इतना ढक्कर नहीं रखना चाहिए। मैं तो दूर हो रहना चाहती हूँ। पर, बात यह है कि बुरी चोजको हुँढना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही सबके ऊपर आकर बंध जाती है। खैर, बुरी हो, भली हो, क्या बात है सो बता, सुन लँ ?”

नलिनाक्ष कहने लगा—“तुम्हें मालूम है मा, पिछले माल माह-फाल्गुनमें मैं रङ्गपुर गया था, घरका इन्तजाम करने। घरकी मध चोज-वस्त बेचकर और बगीचा मकान बगरह सब किरायेपर उठाकर मैं बापस आने लगा, तो रास्तेमें क्या सनक सूझो कि नावमें चला जाय तो अच्छा रहे, सरकी सेर और यात्राकी यात्रा। दो दिनका रास्ता तय करके तीसरे दिन एक जगह नाव ठहराकर नहा रहा था कि इतनेमें अचानक देखा कि अपना भूपेन्द्र बन्दूक हाथमें लिये हुए चला था रहा है। मुझे देखते ही वह उछल पड़ा, बोला, ‘शिकारके लिए आया था, सो खुब ही बड़ा शिकार हाथ लगा भड़े। अच्छी साइत देखकर चला था।’ वहों कहों वह डिप्टो-मजिस्ट्रेटो करता था, सो ट्रपर निकला था। बहुत दिन बाद भैंट हुई, सो उसने छोड़ा ही नहीं, साथ-साथ बुमाने ले चला। घोबीपोतर नामके एक गाँवमें तम्बू डाला। जामके बक्क गाँवमें धूमने तिकले। देतोंके पास दीवारसे घिरा हुआ एक कच्चा मकान था, उसमें पहुँचे। घरके मालिकने हमारे घेठनेके लिए दो मोहे ढाल दिये। देखा कि एक पण्डितजी चौकोपर बंधे हुए लङ्घकोंको पढ़ा रहे हैं। घरके मालिकका नाम जा तारिणी चट्टोपाध्याय। भूपेन्द्र

उन्होंने मेरा पूरा परिचय ले लिया । लौटते समय रास्तेमें भूपेनने कहा, 'भई, तुम्हारी तकदीर तो बड़ी जोरदार निकली, आतेके साथ हो सगाइ तैयार मिली ।' मैंने कहा, 'सो क्ये ?' भूपेनने कहा, 'जिससे मैं बात कर रहा था, उसका नाम है तारिणी चटर्जी, महाजनी करता है । ऐसा क्जूस लाखोंमें एक मिलेगा । अपने मकानमें स्कूल कर रखा है, और इसके लिए जो भी कोई मजिस्ट्रेट आता है उसे अपनी लोकहितैपिताका खूब अडम्प्रर दिखाता है । पर, असल बात यह है कि स्कूलके पण्डितको सिर्फ अपने घरमें खिला देता है और उससे रातके दस बजे तक व्याजका हिसाब करता रहता है । स्कूलका खर्च सरकारी सहायता और लड़कोंकी फीससे चल जाता है । उसको एक बहन विधवा हो जानेके बाद और-कहीं आश्रय न पार उसीके घर रहने लगी थी । तब वह गर्भवती थी । यहाँ आकर उसके एक लड़की हुई, और प्रसूतिमें ही वह बिना चिकित्साके ही मर गई । और-एक विधवा बहन थी, जो घरका सब काम-धन्धा करके नौकरानीका खर्च बचाती थी । उसने उस लड़कोको पाल-पनासकर बढ़ा किया । लड़की कुछ बड़ी हुई तो उस विधवाकी मृत्यु हो गई । उसके बाद, मामा मामीकी नौकरी बजाती हुई लड़को अब व्याह-लायक हो गई है । किन्तु ऐसी अनाथ लड़कोके लिए पात्र कहांसि मिले ? खासकर उसके मा-बापको यहाँका कोई जानता नहीं, और पितृहीन अवश्यामें उसका जन्म हुआ है, इस विषयमें यद्दीवालोंमें काफी चरचा है । तारिणी चटर्जीके पास रुपया बहुत है इस बातको सभी जानते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि इस लड़कीके सम्बन्धमें चरचा चलाकर ऐसो स्थिति पंदा कर दें, ताकि तारिणीको अच्छी तरह दुहा जा सके । तारिणी तो चार सालसे लड़कीकी उमर दस सालको बता रहा है, लिहाजा हिसाबसे उमर चौदह सालको होनो चाहिए । लड़कोका नाम है कमला, और वास्तवमें ही भी वह लध्मीकी-सी प्रतिमा । ऐसी सुन्दर लड़की बहुत कम देखनेमें आती है । उस गाँवमें कोई ब्राह्मण युवक आते ही तारिणी उसके पीछे पड़ जाता है । किन्तु सुदिकल यह है कि कोई राजी भी होता है तो गाँवके लोग उसे भइका देते हैं । इसलिए, अब तुम्हारी पारी है । तुम तो जानती ही मा, तुम्हं सुखी देखनेके लिए भीतरसे मैं कितना व्याकुल रहता था,

इसलिए मैंने बिना विचारे ही चटसे कह दिया, 'मैं तयार हूँ।' भूपेन तो सुनके दग रह गया। पर मैंने तो पहलेसे ही तय कर रखा था कि हिन्दूके घरको कोई ऐसो लड़को ब्याहकर लाऊँगा जिसे देखकर तुम दग रह जाओ ! भूपेनने कहा, 'मजाक कर रहे हो क्या ?' मैंने कहा, 'मजाक नहीं, मैंने पक्षा निश्चय कर लिया है।' उसने कहा, 'बिलकुल पक्का ?' मैंने कहा, 'हाँ हाँ, बिलकुल पक्का !' उसी रातको तारिणी चटजी हमारे तमवूमें आ धमका, और जनेऊ हायमें लेकर हाथ जोड़कर बोला, 'मेरा उद्घाट करना ही पढ़ेगा। लड़कोंको आपलोग देख आइये, पसन्द न हो तो कोई बात नहीं। पर शत्रुपक्षको बात हरगिज न सुनियेगा।' मैंने कहा, 'देखनेकी जस्तरत नहीं, सुहूरत सुवचाइये।' तारिणीका शायद सुहूरत देखा हुआ था, बोला, 'परसों बहुत अच्छा दिन है, परसों ही कर ढालिये।' वह समझता था कि जन्दोमें बहुत योड़े खर्चमें काम बन जायगा, इसलिए और-भी ज्यादा आग्रह करने लगा। आखिर च्याह हो गया।"

क्षेमद्वारी चौंक उठीं, बोली—“च्याह हो गया। ऐ ! तू कहता क्या है ?”

नलिनाक्ष—“हाँ, हो गया। आर उसी दिन मैं बहुके साथ नावपर सवार होकर बहासे चल दिया। रास्तेमें उसी दिन शामको ऐसा जोरका तूफान आया कि नाव उलट गई। मेरी कुछ ससम्भ ही में न आया कि क्या हुआ।”

‘क्षेमद्वारीके रोंगटे खड़े गये, उनके मुहसे निकल पड़ा—“हे भगवान् !”

नलिनाक्ष कहता गया—“क्षण-भर बाद जब होश आया तो देखा कि मैं गजामें तैर रहा हूँ। लेकिन पासमें कही नाव नहीं दिखाई दी। थानेमें खदां दी, बहुत खोज की, पर कुछ भी पता नहीं लगा।”

क्षेमद्वारीका मुँह सूख गया, बोली—“खर जाने दे, जो हुआ सो हो गया, अब ये सब बातें मुझे मत सुना। मेरा जो धरणाने लगता है।”

नलिनाक्ष—“ये सब बातें तुम्हे मैं कभी भी नहीं कहता ; पर जब तुम च्याहके लिए जिद करने लगीं तब कहनी पड़ीं।”

क्षेमद्वारी—“एक बार कोई दुघटना हो गई, तो क्या अब तू च्याह ही नहीं करेगा ?”

नलिनाक्ष—“सो बात नहीं मां, पर, अगर वह अभी तक जिन्दा हो ?”

क्षेमद्वारी—“पागल कहींका ! जिन्दा होती तो क्या अभी तक तुम्हे खार नहीं देती ?”

नलिनाक्ष—“मुझे क्या वह पहचानती है ! मुझसे ज्यादा अपरचित उसके लिए और-कोई नहीं होगा । उसने मेरा चेहरा भी नहीं देखा । काशी आकर तारिणी चटर्जीको मैंने अपना पता लिख भेजा था, चिट्ठी भी दी थी । उन्होंने लिखा था, कुछ पता नहीं चलता कि वह जिन्दा है या मर गई ।”

क्षेमद्वारी—“तो फिर क्या बात है ?”

नलिनाक्ष—“मैंने मन-हो-मन तय किया है कि साल-भर तक देखा, उसके बाद समझ लूँगा कि वह मर गई ।”

क्षेमद्वारी—“तेरा तो सब विषयोंमें अपना सिद्धान्त न्यारा ही चलता है । इसमें एक साल तक बाट देखनेकी क्या बात है ?”

नलिनाक्ष—“साल पूरा होनेमें अब देर क्या है, मा ! अभी अगहन है, पूसमें व्याह होता नहीं, उसके बाद माघ बीता नहीं कि फागुन आ गया ।”

क्षेमद्वारी—“अच्छी बात है, लेकिन लड़की यहो तय रही ! हेमनलिनीके बापको मैं बचन दे चुकी हूँ ।”

नलिनाक्ष—“मा, आदमी तो सिर्फ बचन ही दे सकता है, पर उसे सफल करना जिसके हाथ है उसीपर भरोसा करना ठीक है ।”

क्षेमद्वारी—“कुछ भी हो वेटा, तेरो इन बातोंको सुनकर अभी तक मेरा कलेजा धड़क रहा है ।”

नलिनाक्ष—“सो तो मैं जानता हूँ मा, तुम्हारे मनको सुस्थिर होनेमें कितने ही दिन लग जायेगे । इसोलिए मैं तुमसे ऐसी बातें कहता नहीं ।”

क्षेमद्वारी—“अच्छा ही करते हो वेटा । आजकल मेरा जाने-क्सा जी हो गया है कि कोई भी ऐसी-वैसी बात सुनती हूँ तो उससे छाती धड़कने लगती है । कहींसे कोई चिट्ठी आती है तो खोलनेमें डर लगता है, कहो कोई बुरा खबर न आई हो । और मैंने तो सबसे कह ही दिया है, सुस्के कोई रसर सुनानेकी जहरत नहीं । मैंने समझ लिया है कि अपनी घर-गृहस्थीसे मैं मरकर छुट्टी पा चुकी हूँ, वहाँकी चोट महजेमें अब फायदा ही क्या ?”

५९

कमला जब गङ्गाके किनारे पहुँची, जाहोंका सूरज तब अपनी मन्द-किरणोंके साथ पश्चिम-आकाशमें छूब चुका था। उसने उस आसन्न-अन्धकारके सामने खड़े होकर अस्तगामी सूर्यको प्रणाम किया। उसके बाद माथेपर गङ्गा-जलके छोटे ढालकर कुछ दूर तक पानीमें घुसो, और अजुलिमें गङ्गाका पानो भरकर फूलके साथ उसे गङ्गाके लिए ही अपण कर दिया। फिर समस्त गुरुजनोंके लिए प्रणाम किया। प्रणाम करके सिर उठाते ही और-एक प्रणम्य व्यक्तिकी बात उसे याद आ गई। किसो दिन मुँह उठाकर उसने कभी उनके सुदृढ़की तरफ नहीं देखा, एक दिन जब रातको वह उनके पास बठी था तब उनके पाँवेपर भी उसकी वृष्टि नहीं पढ़ी थी। सुहाग-रातमें और-और लड़ियोंसे जब उन्होंने दो-चार बातें कही थीं, उन्हें भी वह अपने धूँधटमें से, लपत्ती लजामेंसे, स्पष्ट नहीं सुन पाई थी। उनकी उस कण्ठचनिको स्मरणमें लानेके लिए गङ्गाके किनारे खड़े-खड़े आज उसने एकान्तमनसे बहुत देर तक चेष्टा की, किन्तु किसो भी तरह न ला सकी।

बहुत रात बोते व्याहका लगन था। विवाह-सण्डपसे आनेके बाद अत्यन्त श्रान्त शरीर लेकर कब वह सो गई, उसे कुछ भी खयाल नहीं। मवेरे उठकर उसने देखा कि पढ़ोसीके घरकी एक बहूने उसे धक्का देकर जगा दिया, और वह खिलखिलाकर हँस रही है; पलंगपर और कोडे नहीं हैं। जीवनके इन अन्तिम क्षणोंमें अपने जीवनेश्वरकी याद करने लायक पूँजी भी उसके पास नहीं है। चारों तरफ थोड़ेरा है, न कोई सूर्ति है, न कोई बात है, कोई चिह्न तक नहीं ! जिस लाल रेशमी साहीका उनकी चादरसे गठबन्धन हुआ था (तारिणीको दी-हुई सत्ती साहीकी कीमत तो वह जानती न थी), उसे भी उसने जतनसे नहीं रखा। ऐसेगने हेमनलिनीको जो चिट्ठी लिखी थी वह उसके आंचलमें बैठी थी। उस चिट्ठीको खोलकर गोधूलिके प्रकाशमें रेतीपर बैठकर उसका एक अश उसने पढ़ लिया, जिसमें उसके पतिका परिचय लिखा था। ज्यादा बात नहीं, सिर्फ उनका नाम है [नलिनाक्ष चट्टोपाध्याय, वे रंगपुरमें डाक्टरी करते थे और अब वहाँ उनका कुछ पता नहीं चलता था, इतनी बात लिखी थी। चिट्ठीका बाकीका

अश उसे बहुत हँडनेपर भी कहीं नहीं मिला। 'नलिनाक्ष' नाम उसके मनमें सुधा बरसाने लगा, इस नामने मानो उसकी रीतों छातोंको बिलकुल भर दिया, इस नामने मानो एक वस्तुहीन देह बनकर चारों तरफसे उसकी धेर लिया। उसको आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी, और उसने उसके हृदयसे अभिप्रिक कर दिया, उसका तन-मन स्तिरध हो उठा, मालम हुआ मानो उसका असत्य दुखदाह शान्त हो गया। कमलाका अन्तःकरण करने लगा, 'यह तो शून्यता नहीं है, यह तो अन्यकार नहीं है। मैं तो देख रही हूँ, वे हैं, वे मेरे हो हैं।' तब फिर वह सम्पूर्ण प्राण-मनसे बोल उठी, 'मैं अगर सती होऊँ, तो इसों जीवनमें मैं उनके चरणोंकी धूल पाऊँगी, विधाता मुझे हरगिज वाधा नहीं दे सकते। मैं जब मौजूद हूँ तो वे हरगिज नहीं जा सकते। उन्हींकी सेवा करनेके लिए भगवानने मुझे बचा लिया है।'

इतना कहकर उसने अपना रुमालमें घेया चाभीका शुच्छा वहीं ढाल दिया, और फिर तुरत हो उसे खबाल आया कि रमेशकी दी-हुई एक सेपिटिविन उसकी साड़ीमें बिंबी हुई है। जल्दीसे उसे खोलकर उसने पानीमें फेंक दिया। उसके बाद पश्चिमकी तरफ मुँह करके उसने चलना शुरू कर दिया। कहीं जायगी, क्या करेगी, ये सब बातें उसके मनमें जरा भी स्पष्ट नहीं थीं। उसने सिर्फ इतना ही समझ लिया था कि उसे चलना ही होगा, यहाँ उसे एक क्षण भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, यह उसको जगह ही नहीं।

जाहेके दिन थे। दिनान्तका अन्तिम प्रकाश देखते-देखते थिला गया। अंधेरेमें सफेद बालू तट अस्पष्ट-सा चमकने लगा। सहसा एक जगह न-जाने डिसने मानो विचित्र रचनावलीके बीचमेंसे मृष्टिका थोड़ा-सा चित्रलेख बिलकुल पौछ दिया। कृष्णपद्मकी अन्धकार-रात्रि मानो अपने ममस्त तारोंको लेकर उप जनशून्य नदी-तटपर अत्यन्त धीरे-धोरे अपना निश्चास छोड़ रही है। कमलाको अपने खामने गृहहीन अनन्त अन्धकारके मिठा और कुछ भी दिराई नहीं दिया। किन्तु वह समझ गई कि उसे चलना ही होगा, कहीं पहुँचेगी या नहीं, इतना सोचनेका उसे अवक्षण ही नहीं है।

उसने तय किया कि वह वरावर नदीके किनारे-किनारे चलो चलेगी, और

इसमें उसे किसीसे रास्ता पूछनेको जरूरत हो नहीं पड़ेगी । अगर कोई विपत्ति उसमर आक्रमण करे, तो उसी क्षण वह मा-गङ्गाको गोदमे शरण ले लेगा ।

आकाशमें कुहेलिकाका चिह्न तक न था । सच्चल अन्धकारने कमलाको घेर रखा था, किन्तु उसकी दृष्टिको उसने बाधा नहीं पहुँचाई । रात बढ़ने लगा । जौके खेतोंमेंसे गोदड़ बोल उठे । चलते-चलते यहुत दूर जाकर रेती खत्म ही गई । और-कुछ दूर जानेके बाद एक गाँव दिखाई दिया । कमलाने कम्पित दृश्यसे गाँवके पास जाकर देखा, सारा गाँव सो रहा है । डरते-डरते गाँवको आर करके वह और भी आगे चलने लगी, किन्तु उसके शरोरमें अब चलनेको आकत नहीं रही । अन्तमें ऐसी एक जगह पहुँचो जहाँ सामने कोई रास्ता हो नहीं दिखाई दिया । अल्पन्त यक जानेसे वह एक बड़के पेड़के नीचे पड़ रही ; और कब उसे नींद आ गई सो पता नहीं ।

खूब सवेरे अखिखुलते ही देखा कि कृष्णपक्षके चाइके प्रकाशसे अँधेरा गोण हो आया है, और, एक प्रौढ़ा स्त्री उससे पूछ रही है—“तुम कौन हो दिये ? जाइके दिनोंमें इस तरह पेड़के नीचे पड़ो हुई हो ?”

कमला चौंककर उठ बैठी । देखा कि पाम ही घाटपर दो बजरे बँधे ए हैं । और वह प्रौढ़ा स्त्री जगार होनेके पहले ही नद्दा-धोकर तैयार हो गई । प्रौढ़ाने फिर कहा—“क्यों बेटी, तुम तो बगाली-सी दोख रही हो ?”

कमलाने कहा—“हाँ, मैं बगालिन हूँ ।”

प्रौढ़ा—“यहाँ कैसे पड़ी हो ?”

कमला—“मैं काशी जाना चाहती हूँ । रात ज्यादा हो जानेसे यहाँ आ गई थी ।”

प्रौढ़ा—“मझ्या रो ! पैदल काशो जाओगो ? अच्छा चलो, दूसारे बजरेमें लो, मैं तुम्हें काशी पहुँचा दूँगी ।”

बजरेमें उससे कमलाका परिचया हुआ । गाजोपुरमें सिद्धेश्वर बाबूके हाँ जो बड़े आडम्बरके साथ च्याह हो रहा था, उसीमें गई थीं । सिद्धेश्वर बाबू नके रितेदार हैं । प्रौढ़ाका नाम है नवोनकाली और उनके पतिजा नाम कुन्दलाल दत्त । कुछ दिनोंसे वे काशोमें ही रहते हैं ।

नवीनकालीने पूछा—“तुम्हारा नाम क्या है ?” उसने अपना नाम बता दिया नवीनकालीने कहा—“पहनावसे मालूम होता है तुम्हारे पति मौजूद फिर काशी क्यों ?”

कमला—“व्याहके बाद वे न-जाने कहाँ चले गये, कुछ पता नहीं !”

नवीनकालीने उसे आपादमस्तक निरीक्षण करते हुए कहा—“हाय भगवा तुम्हारी उमर तो बहुत कम मालूम होती है ।” पन्द्रहसे ज्यादा न होगो कमला ने कहा—“मुझे ठीक मालूम नहीं, पन्द्रह ही होगो ।”

नवीनकाली—“ब्राह्मणकी लड़की हो न ?”

कमला—“हाँ ।”

नवीनकाली—“तुम्हारा देश कहाँ है ?”

कमला—“कभी सुसराल तो गई नहीं, मेरा मायका है बिसखाली । कमला इतना जानती थी ।

नवीनकाली—“तुम्हारे मानवाप—”

कमला—“कोई भी नहीं है ।”

नवीनकाली—“हे भगवान ! तो अब तुम क्या करोगी ?”

कमला—“काशीमें अगर कोई भद्र-गृहस्थ मुझे अपने घर रखकर थे खाने-पहननेको दे दें, तो वहाँ काम कहाँगी । मैं रसोई बनाना जानती हूँ

नवीनकालीको यिन तनखाके रसोई बनानेवाली मिल जानेसे बड़ो-भृशी हुई । बोली—“हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ महाराज और नौकर-चाकर सब मौजूद हैं । और फिर, हमारे घर बड़ो-भारी दिक्कत हैं कि ‘उन’के खाने-पीनेमें जरा भी इधर-उधर हुआ नहीं कि फिर खेर नह लेकिन, खेर, तुम ब्राह्मणको लड़की हो, आफतकी मारी दुरिया वैसे हो ; चल हमारे ही घर रहना । कितने ऐसे-गैरे खाया करते हैं, कितना बिगड़ता उसमें और एक सही ! हमारे यहाँ काम भी ज्यादा नहीं । मैं हूँ और हैं, बस दो जर्नोंको गृहस्थी हैं । लड़कियोंका व्याह हो चुका है, वे अपने-अपने सुखी हैं । मेरे सिर्फ एक लड़का है, वह हाकिम है, अभी सिराजांज रहता है । लाट-साहबके यहाँसे टसके नाम महीने-महीने चिट्ठी आया करती है

'मैं 'उन' से कहा करतो हूँ, 'हमारे घर तो कोई कमी नहीं, फिर क्यों लड़केको इतनो दूर रखते हो !' पर सुनते ही नहीं, कहते हैं, 'ठुआ बेठनेसे फायदा क्या, खराबी ही है !' मैंने सोच लिया कि करने दो, इज्जतका काम है !'

हवा अनुकूल थी। काशी पहुँचनेमें ज्यादा दिन नहीं लगे। शहरके कुछ आगे जाकर एक बगीचेके बीच उनका दुमजिला भकान था। कमला वहों जाकर उनके साथ ही रहने लगी।

वहाँ पहुँचनेपर मालूम हुआ कि जो होशियार महाराज उनके यद्दा रमोइ बनाता था, उनके पीछे वह देश चला गया है। एक उद्दिया त्राहाण था, उसपर भी नवीनकाली बहुत जोरसे विगड़ पड़ीं, और उसी वक्त उन्होंने उसे तेजसा बौगर दिये ही निकाल बाहर किया। ओर, जब तक कि उनका 'पुराना होशियार महाराज' देशसे वापस नहीं आता तब तक रमोइका भार कमलापर ही छोड़ दिया गया। नवीनकालीने कमलाको सावधान कर दिया कि 'देखो बेटो, नवीन-शहर बड़ा खतरनाक है। तुम्हारी अभी कम उमर है। घरके बाहर कभी न निकलना। गङ्गा-स्नान या विश्वनाथ-बाबाके दर्शनके लिए जाना हो तो मेरे साथ जाना। अकेलो कहीं न निकलना।'

नैनकालीको डर था कि कहीं किसीके भड़कावेमें आकर कमला हाथसे न निकल जायें और इसलिए वे उसे आँखों-ही-आँखोंमें रखने लगीं। अहोस पहोसको बगाली स्त्रियोंसे भी वे उसे नहीं मिलने देतीं। और, दिन-भर अपने देशके ऐश्वर्यकी चरचा, अपने 'उन'की तारीफ, गहरोंका प्रदर्शन, घर-गृहस्थीको सुव्यवस्था और नौकर-चाकरोंपर शासन बरनेकी नीति, स्त्रियोंका जीव्य, फ़जूलखचींकी खराबियाँ इत्यादि नाना विषयोंकी आलोचना करती हुई कमलाको बाहरके समस्त प्रलोभनोंसे बचानेकी कोशिश करती रहतीं।

## ५२

नवीनकालीके घरमें कमलाके प्राण ऐसे फ़इफ़ड़ाने लगे जसे अम-सूखे ग्रीष्मके गंदले पानोंमें मछली फ़इफ़ड़ती है। यहसे निकल सके तो यद जी गय। पर बाहर जाकर ताजी कहीं होगी ? उस दिन रातमें पहले-पहल उसने घरकी पृथिवीको जाना है, और वहाँ अन्धभावसे भात्म-सर्मर्णण बरनेका उसे इस ही नहीं हुआ।

नवीनकाली कमलाको चाहती न हों ऐसो बात नहों ; किन्तु उसमें नहों है । दो-एक दिन बीमार पड़नेपर कमलाकी उन्हानि देखभाल भी को पर कमलाके लिए उसे कृतज्ञताके साथ प्रहण करना कठिन है । इससे तो वह काम-काजमें अच्छी रहती है । और जो समय उसे नवीनकालोके सखीत बिताना पड़ता वह तो उसके लिए सबसे बढ़कर दुःसमय होता ।

एक दिन सवेरे नवीनकालीने कमलाको बुलाकर कहा—“सुनो कम आज उनको तयोरयत ठोक नहीं है, आज भात नहीं बनेगा, रोटी करना, लेने खान रखना, घोका श्राद्ध न कर बेठना । तुम्हारी रसोईका हाल तो मुझे गाह है, उसमें इतना धो काहेमें लग जाता है कुछ समझ-दी-में नहों आता । तुम तो वो उद्धिया-महाराज अच्छा था, वो धो तो लेता था, पर रसोईमें उसको ग थोड़ी-बहुत रहती थो ।” कमला इन-सब बातोंका कुछ जवाब नहीं देती, स अनुसुन्नी करके रह जाती ।

आज अपमानके गुप्त भारसे व्ययित हृदय लेकर वह चुपचारे तरकारी रही थी । दुनिया उसे नीरस और जोवन असत्य मालूम हो रही थी । गृहिणीके कमरमेंसे एक बात उसके कानमें पड़ी, और सुनते हो वह चौंक गई नवीनकाली अपने नौकरको बुलाकर कह रही थी—“तुलसी, जा ; ॥, शह नलिनाश डाफ्टरको तो बुला ला जल्दीसे । कहना, बाबू माँधकी तयोरयत ठी नहीं है, जरा बुलाया है ।”

नलिनाश डाफ्टर ! कमलाको आँखोंके सामने सम्पूर्ण आकाशका प्रका आहत वीणाकी स्वर्णतन्त्रीकी तरह काँप उठा । वह हाथका काम छोड़ दरवाजेके पास आकर खड़ी हो गई । तुलसीके नीचे उतरते ही कमठाने उम पूछा—“कहाँ जा रहा है तुलसी ?”

तुलसीने कहा—“नलिनाश डाफ्टरको बुलाने ।”

कमलाने कहा—“तू उन्हे जानता है ?”

तुलसी—“हाँ, वे यहाँके बहुत बड़े डाफ्टर हैं ।”

कमला—“रहते कहाँ हैं ?”

तुलसी—“शहरमें ही रहते हैं, यहाँसे कोम-भर होगा ।”

चौकेमें थोड़ी-बहुत जो-कुछ चीज वह बचा सकती, सब नौकरोंको बाट देती। इसके लिए उसे खोटी-खरी बहुत सुननी पड़ती, फिर भी वह अपनो आदत न छोड़ सकी। मालिकिनके कड़े कानूनके अनुसार इस घरके नौकरोंको खाने-पीनेका बड़ा कष्ट था। इसके सिवा मालिक-मालिकिनको 'खाने-पीनेमें इतनी अवेर हो जाती है कि नौकरोंको मुश्किलसे तीसरे पहर खानेको मिलता। इस बीचमें जब वे कमलासे आकर कहते कि 'मिसरानोजी, भूखके मारे पेट जला जा रहा है', तब कमलासे न रहा जाता, वह कुछ-न-कुछ उन्हें खानेको दे देती। इस तरह योड़े हो दिनोंमें नौकर-चाकर कमलाको बहुत मानने लगे थे।

तुलसीको रसोईके सामने रुकते देख नवोनकालो बोल उठी—“रसोईके दरवाजेपर खड़ा-खड़ा, क्या सलाह कर रहा है रे तुलसी, मेरी आंखें हैं, समझा ! और जाते समय रसोईमें बिना बुझे तेरा काम हो नहीं चलता, क्यों ? इसी ।। ऐ घरकी चोज उड़ाइ जाती है, मैं सब समझती हूँ ! और तुम भी खब हो चौड़ीमला, रास्तेमें पढ़ी थीं, दया करके घरमें लाकर रखखा, उसका ऐसे ही बदला दूँ बुकाया जाता है, क्यों ?”

नवोनकालो अपने सन्देहको किसी भी तरह न छोड़ सकी कि सभी उनके घरको चोज चुरा-चुराकर बाजारमें बेच आते हैं। कुछ भी सबूत न मिलनेपर वही वे कहने-सुननेमें कोई कसर नहीं उठा रखती। उनकी धारणा है, अवैरेमें लोला फेंकनेपर भी अविकाश ढेले ठीक जगहपर जाकर चोट करते हैं, थोर सब मृमक जाते हैं कि मालिकिनको निगाह दबो तेज है, उनको आरोग्य मुश्किल है।

किन्तु आज नवोनकालोके ऐसे तोब्र वाक्य भी कमलाको चुम्बे नहीं। वह अब मशीनको तरह काम करती रही, उसका मन मानो उड़ा-उड़ा फिरने लगा।

कमला नीचे रसोईघरके दरवाजेके पास खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। इतनेमें निमी लौट आया। उसे अकेला देख कमलाने पूछा—“तुलसी, डाक्टर नहीं आये ?” तुलसीने कहा—“नहीं, वे नहीं आयेंगे।”

कमला—“क्यों ?”

तुलसी—“उनकी मा बीमार हैं ।”

कमला—“मा बीमार हैं । उनके घरमें क्या और-कोई नहीं हैं ?”

तुलसी—“नहीं, उन्होंने व्याह नहीं किया ।”

कमला—‘व्याह नहीं किया, तुझे कैसे मालूम ?’

तुलसी—“नौकरोंके मुँह सुना है, उनके स्त्री नहीं हैं ।”

कमला—“शायद मर गई होगी ?”

तुलसी—“हो सकता है । पर उनका नीकर विरज् कहता है कि वे जा रग्पुरमें डाक्टरी करते थे, तब भी उनके स्त्री नहीं थी ।”

उपरसे आवाज आई—“तुलसी !”

कमला जल्दीसे रसोईघरमें घुस गई, और तुलसी ऊपर चला गया ।

नलिनाश्व रग्पुरमें डाक्टरी करते थे, कमलाके मनमें अब कोई सन्देह नहीं रहा । तुलसी जब नीचे आया तो उसने उससे पूछा—“देख तुलसी डाक्टर बाबूके नामके मेरे एक रिस्तेदार हैं । अच्छा, तुझे मालूम है, डाक्टर बाबू ब्राह्मण हैं ?”

तुलसी—“हाँ, ब्राह्मण तो हैं ही, चटर्जी हैं .”

मालिकिनके ढरसे तुलसीको कमलासे ज्यादा बात करनेकी हिम्मत न पहुँच ह अपने कामसे चला गया ।

कमलाने नवोनकालीके पास जाकर कहा—“काम-फाज सब पूरा करके आमें एक बार दशाद्वमेध-धारमें नहाने जाऊगी ?”

नवोनकाली—“तुम्हारी जितनी बातें होती हैं सब दुनियासे न्यारी होती हैं । आज ‘उन’की तथीयत स्वारप है, क्षब क्षग काम पहुँच, कोई ही नहीं, और आज ही तुम्हें छुट्टी चाहिए ।”

कमला—“मेरे एक अपने आदमी काशीमें हैं, सुना है, मौठसे मिन्ह जाऊगी ।”

नवोनकाली—“गढ़-गब अच्छी बात नहीं, कमला । मेरी उमर ही तुम्हें है, मैं मध ममकती हूँ । दसकी गम्भर तुम्हें छिनने लाकर दी ? तुम्हें दी होगी ! दस गधेजो धय निशाल ही देना है । सुनो मेरो बात, जब तें

तुम मेरे यहाँ हो, अकेली नहाने जाना, अपने आदमीकी तलाशमें शहर जाना, यह सब नहीं होनेका, कहे देती हूँ !”

दरवानपर हुकम हो गया कि तुलसीको इसी वक्त निकाल बाहर करो। और साथ ही मालिकिनके डरसे नौकर-चाकरोंने कमलासे सम्पर्क रखना यथासम्भव कम कर दिया।

नलिनाक्षके सम्बन्धमें जब तक कमला निश्चित नहीं थी तब तक उसे धीरज था, किन्तु अब उसके लिए सबर रखना मुश्किल हो गया। उसी शहरमें उसके पति मौजूद हैं, फूंभी वह एक क्षणके लिए भी दूसरेके घर रहे तो क्यों रहे ? यह स्थिर तके लिए असम्भव हो उठी, और उसके काम-काजमें त्रुटियाँ होने लगीं।

नवीनकालीने कहा—“क्या बात है मिसरानीजी, तुम्हारा रग-डग तो रेंगों-दिन बिगड़ता ही जा रहा है। तुमपर भूत सवार तो नहीं हो गया ? तुमने दृ साना-पीना बन्द किया सो तो किया ही, अब क्या हमें भी भूखा मरना हैगा ? आजकल जैसी रसोई बनाती हो उसे ढोर भी नहीं खा सकते !”

कमलाने कहा—“अब मुझसे यहाँका काम नहीं किया जाता, मेरा मन हीं लगता। अब मुझे आप विदा कर दीजिये।”

नवीनकाली झनककर बोल उठी—“अच्छा ! कलिकालमें किसीका भला नहीं करना चाहिए। तुमपर दया करके मैंने तुम्हें रास्तेसे लात्मर घरमें रखा, त-पाँतके बारेमें बिना पता लगाये ही तुम्हारी बातपर विश्वास करके रसोईका में सौंप दिया, तुम्हारे लिए हमने अपने इतने दिनके पुराने महाराजको काल दिया, और आज कहती हो कि ‘मुझे विदा कर दीजिये !’ देखो, अगर मैंने भागनेकी कीशिश को, तो मैं थानेमें खजर दूँगी, समझ लेना। मेरा क्षमा हाकिम है, उसके हुकमसे कितनोंको फाँसी हो गई हैं। यहाँ तुम्हारी शक्ति नहीं चलनेकी। सुना नहीं क्या, गदाईने ‘उन’के मुँहपर जवाब दिया

सो आज तक वो जेलमें पढ़ा सड़ रहा है ? किनके घर ही, जो समझ ! !” बात झूठी नहीं है, गदाई बेचारेको घड़ीकी चोरी लगाकर पुनिसके ले कर दिया गया था, और अब वह जेलमें है।

कमलाको चारों तरफ अँधेरा दिखाइ देने लगा । उसकी चिरजोवनको मार्यकता जब कि हाथ घड़ते ही उसे मिल सकतो है, तब, उन हाथोंमें हथकहियाँ पढ़ रही हैं । ऐसी निष्ठुरता और क्या हो सकती है ? इस घरमें, घरके काम-काजमें कमलाका बिलकुल ही मन नहीं लगता ; अब वह यहाँ ऐसे बैद रह सकती है ! रातको अपना काम खतम करके वह चादर थोक्कर बगीचेमें चली जाती ; और वहाँ बैठो-बैठी शहर-जानेवाली सद्दकको तरफ देखा करती । उसका जो तरुण हृदय किसीकी सेवाके लिए ब्याहुल और भक्ति करनेके लिए फ़इफ़ड़ा रहा है, उस हृदयव्ये कमला उस सद्दकमें न-जाने किस अपरिचित घरके लिए भेजती रहती, और उसके बाद कुछ देर स्तर्वन खड़ी रहकर जमीनसे माथा छुआकर प्रणाम करके अपनी कोठरीमें आकर न्हो जाती ।

किन्तु, इतनी भी स्वाधीनता, इतना भी सुख कमलाके भाग्यमें ज्यादा दिन न रह सका । रातका सारा काम खतम हो जानेपर भी एक दिन किसी कारणी नवीनकालीने कमलाको बुलवा भेजा । नौकरने आकर कहा—“मिसरानीजी तो घरमें नहीं हैं ।”

नवीनकाली चश्मा हो उठी, बोलो—“ऐं, तो क्या मचमुच ही भाग गई ?” और हुद लालटेन हाथमें लेकर दूँझने चल दी । पर कमला नहीं मिली । मुकुन्द बाहु थीनें मूटे गुद्गुदोमें कड़ा लगा रहे थे, उनसे जाकर बोली—“मुनते हों, मिसरानी तो भाग गई ।”

इससे मुकुन्द बाहुकी शान्ति भङ्ग न हुई । वे अलमाये-हुए स्वरमें बोले—“मैंने तो तभी मना किया था, किसी बानजानको घरमें नहीं रखा चाहिए । देखो, कोई चीज तो नहीं ले गई ?”

मालिकिनने कहा—“उस दिन जो उसे गरम अलवान थोड़नेको दिया था, उसका पता नहीं ! उसके मिला और क्या-क्या गया है, सो अभी देखा नहीं ।”

मालिक साजुने अविचलित गम्भीरस्तरमें कहा—“यातेमें गधर भेज दो ।”

एक नौकर लालटेन हाथमें लिये बाहर चला गया । इननेमें कमला करने कोकरीमें पहुँच गई, और देखा कि नवीनकाली कोठरीकी गध नाजे उल्टपुट्ट

कर देख रही हैं। वे देख रही थीं, क्या-क्या चीज चोरी गई है। इतनेमें सहसा कमलाको देखकर वे बोल उठी—“तुम भी ‘खूब हो मिसरानी। कहाँ गई थीं?’” कमलाने कहा—“काम खत्म करके जरा बगीचेमें घूम रही थी।”

अब तो नवीनकाली आपेसे बाहर हो गई, और जो मनमें आया सो कह डाला। घरके नौकर-चाकर दरवाजेके बाहर आकर जमा हो गये। कमलाने कभी भी नवीनकालीकी डाट-फटकारपर आँसू नहीं बहाये, और आज भी वह पत्थरकी मूर्तिकी तरह चुपचाप खड़ी रही। नवीनकालीके बाक्य-बाण जरा उक्ते ही कमलाने कहा—“आपलोग मुझसे असन्तुष्ट हैं, अब मुझ विदा कर दीजिये।”

नवीनकाली और-भी विगड़ पढ़ी—“विदा कर दीजिये! विदा नहीं करूँगी गो क्या तुम जैसी कृतद्वीको खिला-पिलाकर पालती रहूँगी। लेकिन, किससे आला पढ़ा है, अच्छी तरह समझाकर तब विदा करूँगी।”

इसके बाद फिर कमलाको घरसे बाहर पांव रखनेको हिम्मत नहों पड़ी। र ही में बन्द रहकर वह मन-हो-मन कहती रहती, ‘जो इनना दुःख सह ही है, भगवान जहर उसका उद्धार करेंगे।’

मुकुन्द बाबू दो-दो नौकरोंके साथ गाढ़ीमें बैठकर हवा खाने निरुले हैं। रमें भीतरसे हुङ्का बन्द है। रात पढ़ने लगी है।

दरवाजेके बाहरसे आवाज आई—“मुकुन्द बाबू हैं क्या?”

नवीनकाली चौककर बोल उठी—“धरे, नलिनाश्व डाक्टर आ गये। धिया, अरो ओ बुधिया।”

बुधियाका कहों पता नहों। तब नवीनकालीने कमलाको आवाज देकर ह्या—“मिसरानी, जाओ तो जरा, दरवाजा खोल आओ। टाक्टर बाबूसे हना, बाबू साव बाहर गये हैं, अब आते ही होंगे, तब तक ऊपर आकर नके कमरेमें बैठें।”

कमला लालटेन लेकर नीचे उतर गई। उसको ढेह काँप रही है, छातीके तिर कैसी-तो एक तरहकी फुरफुरी-सी मच उठी है, और हाय-पांव ठण्टेन्चे र जा रहे हैं। उसे ऊपर लगने लगा कि इस व्याकुलतामें कहीं ऐसा न हो कि

उसे आंख से ठीक दिखाई ही न दे ! किसी तरह उसने हुङ्का सोल दिया, और चुद घू घट निकालकर किवाड़की ओटमें खड़ी हो गई ।

नलिनाक्षने पूछा—“शबू साहब हैं क्या ऊपर ?”

कमलाने किसी कदर अपनेके सम्मालते हुए कहा—“नहीं, आप जरा आड़ये, उनके कमरमें—”

नलिनाक्ष ऊपर जाकर बैठ गया । इतनेमें उवियाने आकर कहा—“शबू सांघ हवा राने गये हैं, आप जरा बैठिये, अब आते ही होंगे ।”

कमलाकी जन्दी-जटदो सौस चलने लगी, और उससे तकलीफ होने लगी । वह थेंधेरे बरण्डमें ऐसी जगह जा रही हुई जहाँसे नलिनाक्षको धन्ढी तरह टेस सके, पर उससे राजा नहीं रहा गया; अपने विक्षुब्ध हृदयको शान्त करनेके लिए उसे उसी जगह बैठ जाना पढ़ा । एक तो जोर-जोरसे हृदय धटकना, उसपर जाफ़ेरी ठण्डो-ठण्डो हवा, दोनोंने मिलकर उसे यरधर कैंपा दिया ।

नलिनाक्ष हरोकेन बत्तोके सामने चुपचाप बैठा क्या सोच रहा था, प्रता नहीं । थेंधेरेक भीतरसे कौपती हुई कमला नलिनाक्षके मुहकी ओर एकदम देखती रही । देन्वते-देन्वते उसको आंखोंमें आमृ भर आये । जन्दीसे आंख पौँछकर उसने एकाग्रहणिसे नलिनाक्षको मानो अपने गभीरतम धन्तःकरणकी ओर खोच लिया । उसको एकाप्रदृष्टिके सामने वह जो उम्रत-लाट सब्द चेहरा दिखाई दे रहा है, दीपालोक जिमपर मूर्छित-सा पढ़ा है, उस चेहरेको वह जिनना ही देखने लगी उतना ही वह उसके हृदयपर मुद्रित और प्रस्फुटित होने लगा, उतना ही उसका सारा शरीर मानो कमश शिथिल होकर चारों तरफके आकाशमें फिलीन-सा होने लगा । उस चेहरेके सिवा विश्वजगतमें उसके दैरानेके लिए और हुठ भी नहीं रद गया; और देखनेवाली भी सम्पूर्णहृपये उसीमें प्रियीन ही नहे । इस तरह वह कुछ देर सचेतन रही या अचेतन, कहा नहीं जा सकता । इननेमें महसा चौंककर उसने देना, नलिनाक्ष पुर्णी छोड़कर उस रक्षा हुआ है, और मुकुन्द शबूके नाथ यान कर रहा है । कमला इस दरधे कि वही दोनों बात करते-करते याहर बरण्डमें न आ जायें, और वह पकड़ाइ न दे जाय, यदौसे नहीं गई, और नीचे पायर ग्सोइमें बैठ गई । आगलके

एक कोनेमें रसोई है, और उसके बगलसे बाहर जानेका रास्ता निकल गया है।

कमला मर्वाझ़-पुलकित मनसे घैठी-घैठी सोचने लगी, 'मुझ जैसी अभागिनके ऐसे पति ! देवताके समान ऐसो सौम्य-निर्मल प्रमद्भ-सुन्दर मूर्ति ! हे मेरे भगवान, आज मेरा सारा दुःख सार्थक हुआ !' कहते हुए उन्ने भगवानको बार-बार नमस्कार किया।

इतनेमें जीनेमें किसीके उत्तरनेको आवाज सुनाई दी। कमला जल्दीसे उठकर दरवाजेकी ओटमें अँधेरेमें खड़ी हो गई। बुधिया हायमें लालटेन लिये आगे-आगे जा रही थी और पीछे-पीछे डाकटर। दोनों बाहर चले गये। कमलाने मन-ही-मन कहा—'तुम्हारे श्रीचरणोकी सेविका मैं यहाँ दूसरोंके घर केद पढ़ी हुई हू, और तुम मेरे सामनेसे निकल गये, फिर भी जान न मके !'

मुकुन्द बाबू खा-पीकर जब सोने चले गये, तो कमला धीरे-धीरे उस कमरेमें पहुँची जहाँ थोड़ी देर पहले नलिनाक्ष घैठा था। जिरा कुरसीपर वह घैठा था उसके सामने जाकर कमलाने जमोनसे माया छुआकर प्रणाम किया और वहाँकी धूल चूमो। सेवा करनेका कोई मीका न मिलनेसे रकी-हुई भक्तिसे उसका हृदय विहूल हो उठा था।

दूसरे दिन कमलाको मालूम हुआ कि आग-हवा बदलनेके लिए डाकटर बाबूने मुकुन्द बाबूको दूर कहीं स्वरथ्यकर जगहमें जाकर रहनेको सलाह दी है। इसीलिए आज बाहर जानेकी तैयारियाँ हो रही हैं। कमलाने नवोनकालीषे जाकर कहा—'मैं तो काशी छोड़कर बाहर नहों जा सकू गो !'

नवोनकाली—'हम-सब तो जा रहे हैं, और, तुमने नहीं जायगा। बड़ी-भारी भक्तिन मालूम होतो हो !'

कमला—'आप कुछ भी कहिये, मैं यहाँ रहूँगी !'

नवोनकाली—'अच्छा, कसे रहती हो देख लूँगी !'

कमला—'मुझपर दया कीजिये, सुसे यहाँसे न ले जाइये !'

नवोनकाली—'तुम तो बड़ी लतरनाक औरत मालूम होती हो। ठोन जाते वक्त भाँकट शुरू कर दिया। इस समय जल्दीमें हमें कौन निल जापन। जिसे ले जायें ? नहों, तुम्हें चलना ही होगा !'

कलाका अनुत्तर-विनय सब व्यर्थ गया। वह अपनी कोठरीमें जाह दरवाजा बन्द रके भगवानको पुकारती हुड़े रोने लगी।

## ५३

जिस दिन रातको अन्नदा बायूकी हेमनलिनीसे व्याहके बरिमें आतीथी हुरे थी, उसी रातको उनके पेटमें जोरका शूलका दर्द उठ खड़ा हुआ। वह मुर्छिलसे रात कटी। सबेरे दर्द कुछ शान्त होनेसे वे अपने बगीचेमें यदृक्षे पास आरामकुरसीपर पड़े जाएको घाम ले रहे थे। और हेम वही उनके लिए चायझा इन्तजाम कर रही थी। रातको तकलीफसे उनका चेहरा फीका और आंगोंके नीचे काला पड़ गया था। मालूम होता था, मानो एक ही रातमें उनकी उमर बहुत बढ़ गई हो। हेम उनके चेहरेकी तरफ देखती है तो उसके क्लेनेमें हुरी-सी चुभ जाती है। नलिनाक्षसे व्याह करनेमें उमझी असम्मति ही उनकी पीकाका वर्तमान कारण है, हेमके लिए यह अत्यन्त परिताप का विषय हो रठा। किमी भी तरह उसमे यह निष्ठय करते नहीं बनता कि क्या करनेमें उसके बद्द पिताको सान्त्वना मिल सकती है।

इननेमें अरम्मात् चक्रवर्ती-चचाके साथ अक्षय वही आ पहुँचा। हेम जच्छेसे बहासे जाना चाहती थी कि अक्षय बोल रठा—“आप जाइये नहीं, ये गाजीपुरके चक्रवर्ती साहब हैं, इन्हें डधरके गब जानते हैं। आपसे इन्हें कुछ राम बात करती हैं।” उतना कहकर उपने चक्रवर्तीको पास पड़ो-हुई पीठदर देन्मर यठनेका दृश्या किया; और दानों उपर बठ गये। चचाने कहा—“नुना है कि रमेश बायूके साथ आपलोगोंका विशेष बन्धुत्व हैं; इसीसे मैं पूछने क्या हूँ कि उनकी स्त्रीके विद्यमें आपलोगोंको कोई राष्ट्र मिली है?”

पान्नदा यात् दण-भरके लिए दग रह गये। उसके बाद छुट्ट प्रकृतिष्य दोपर बोले—“रमेश यायूकी स्त्री।”

हेमनलिनाकी आँखें कुछ गईं। चक्रवर्ती कहने लगे—“बेटी, अवश्य ही तुम मुझे पुनि जमलेसा पनान्प नममनी होगी। पर जरा गीरज भरके नेंगा। पूरी बात मुझोगी तो शुभ जाओगी कि मैं नामरा इन्होंना दूर चलूँगा।

आपलोगोंसे वात करने नहीं आया। रमेश बाबू प्रजाकी छुट्टियोंमें अपनी स्त्रोंके माथ जिस स्टोमरमें बैठकर घूमने जा रहे थे, उसीमें मैं आ रहा था। कमलाका देखते ही मेरा मोह ऐसा उमड़ पड़ा कि उसे बेटो बनाये बिना मुझे चैन ही न पड़ा। रमेश बाबू कुछ तय नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जायें, इसपर मैंने कहा कि चलिये गाजीपुर हमारे घर ठहरियेगा। दोनोंको मैं ले गया गाजीपुर। वहाँ मेरो लड़कोसे कमलाका ऐसा मेल हो गया कि सभी बहनसे भी ज्यादा। कुछ दिन बाद उनके लिए एक बगला भी किरायेपर ले दिया। इतनेमें एक जरूरी कामसे मैं चला गया इलाहाबाद। वहाँसे लौटा तो सुना कि कमला तो गहनामें ढूँकर मर गई। तबसे रोते-रोते मेरे तो आँसू ही सूख गये; और लड़कीका भी हाल बेहाल है।" कहते-कहते चक्रवर्तीकी आँखें भर आईं।

अननदा बाबू घबड़ा-से गये थे, बोले—“अचानक वात क्या हुइ, क्यों उसने आत्महत्या की?” चचाने कहा—“अक्षय बाबू, आपने तो सब यातें सुनी हैं, आप ही बता दीजिये।”

अक्षयने आद्योपान्त समस्त घटनाका ऐसा विस्तृत वर्णन पेश किया कि फिर कोई वात अस्पष्ट नहीं रह गई। उसने अपनी तरफसे कोई टीका-टिप्पणी नहीं की, किन्तु फिर भी, उसके वर्णनसे रमेशका चरित्र रमणीय नहीं मालूम हुआ।

अननदा बाबू बार-गार यही कहने लगे कि 'हमलोगाने इस विषयमें कुछ भी नहीं सुना। रमेश जिस दिनसे कलकत्ता छोड़कर बाहर गया है उस दिनसे आज तक उसको कोई चिट्ठी भी नहीं मिली।' और अक्षय तुरत उनकी वातको पूरा करता गया, 'और तो क्या, उन्होंने कमलासे व्याह किया है यह भी निश्चित रूपसे हम नहीं जानते थे।' और फिर पूछने लगा—“अच्छा, चक्रवर्ती साहब, आप ठीक जानते हैं न, कि कमला रमेशको स्त्री ही थी? वहन या और-कोई रिस्तेदारिन तो नहीं थी?”

चक्रवर्तीने कहा—“आप कहते क्या हैं अक्षय बाबू। स्त्री नहीं तो कौन थी। ऐसी सती-लक्ष्मी स्त्री कितनोंके भाग्यमें बदी होती है।”

अक्षयने कहा—“लेकिन बड़े ताज्जुनको वात तो यह है कि स्त्री जितनी अच्छी होती है, उसका पति उतना ही उनका अनादर करता है। भगवान्

आदमियोंको हो शायद ज्यादा कठिन परोक्षामें ढाला करते हैं।” कहते हुए उसने एक गहरी साँस ली, और चुप रह गया।

अन्नदा बाबू अपने बालमें हाथ फेरते हुए बोले—“बड़े दुःखकी बात इसमें सन्देह नहीं, पर जो-कुछ होना था सो तो हो ही चुका, अब वृथा करनेमें क्या फायदा है?”

अक्षय—“लेकिन मेरे मनमें सन्देह है। ऐसा भी तो हो सकता है कमला गज्जामें न ढूबी हो, सिर्फ घरसे निकल गई हो। इसीसे चक्रवर्तीजो साथ लेकर मैं यहाँ चला आया कि शायद आपलोगोंसे कुछ पता चले। यहाँ आपलोगोंको तो कोई खबर ही नहीं। कुछ भी हो, दो-चार दिन खोज करनी पड़ेगी।”

अन्नदा—“रमेश अभी कहाँ है?”

चचा—“वे हमलोगोंसे बगैर कुछ कहे-सुने ही चले गये हैं।”

अक्षय—“मुझसे तो भेट नहीं हुई, पर लोगोंके मुँह छुना है कि आजव वे कलकत्ता ही रहते हैं। शायद अलीपुरमें प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आदतो कोइ अनन्तकाल तक शोकमें नहीं पड़ा रह सकता, खासकर इस उमरमें हीं तो, चक्रवर्ती साहब, चलिये, एक बार चक्कर लगाकर देखा जाय, कुछ पचलता है या नहीं।”

अन्नदा—“तो तुम यहीं आ रहे हो न, अक्षय?”

अक्षय—“ठीक कह नहीं सकता। मेरा मन आज बहुत ही खराब रहा है। जब तक काशीमें हूँ, मुझे कमलाकी खोज ही करना है। आप बताइये जरा, भले घरको लड़को, बेचारी अगर सचमुच ही मानसिक कष्टसे छोड़कर चली गई हो, तो उसके दुःखका आज क्या ठिकाना है। केसे सङ्कट उसके दिन कट रहे होंगे, कौन कह सकता है। रमेश बाबू निश्चिन्त होकर सकते हैं; पर मुझसे नहीं रहा जाता।”

चचाको साथ लेकर अक्षय चला गया।

अन्नदा बाबूने उद्धिग्न होकर एक बार हेमके मुँहको तरफ देखा। हेमी-जानसे अपनेको सयत रखनेकी कोशिश कर रही थी, वह समझ रही थी।

उसके पिता मन-ही-मन उसके लिए चिन्तित हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद हेम कह उठी—“बापूजी, आज डाक्टर बुलाकर तुम अच्छी तरह दिखा तो देखो! जरा-से मैं तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो जाती है, इसका इलाज तो होना चाहिए।”

अजदा बाबूको भीतर-ही भीतर बढ़ा आराम मदसूम हुआ। रमेशके सम्बन्धमें इतनी बड़ी चरचा हो गई, किर भी हेमको उनकी बोमारीकी ही चिन्ता है। इससे उनको छातीपरसे एक बोक्स-सा उत्तर गया। दूसरा चक्क दोनों तो शायद वे अपनी बोमारीकी बातको हँसीमें ही उड़ा देते, किन्तु आज उन्होंने कहा—“हाँ, तुम ठीक कहती हो। एक बार अच्छी तरह परीक्षा करा ही लेना चाहिए। न हो तो, एक क्लाम करो, आज या कल नलिनाक्षको हो बुला लिया जाय, क्यों?”

नलिनाक्षके विवरमें अपनी राय देनेमें हेम जरा सँझोचमें पड़ गई, पिताके सामने पहलेकी तरह स्वाभाविक तौरपर उससे मिलना-जुलना उसके लिए कठिन होगा, किर भी उसने कह दिया—“हाँ, बुलाकर दिखा देना चाहिए।”

अजदा बाबूने हेमके इस अविचलित भावको देसाफर धीरे-धीरे साहस पाकर कहा—“हेम, देखो रमेशको करतूत!”

हेमने उसी क्षण उन्हें बाधा देते हुए कहा—“बापूजी, घास बड़ी तेज हो गई है। चलो, भोतर चलो।” कहती हुई वह उन्हें सहारेसे उठाकर भीतर ले गई। बैठकमें ले जाकर उन्हें आरामकुरसीपर बिठा दिया, और हाथमें आजरा अखबार देकर चश्मा निकालके उनकी आँखोंमें पहनाती हुई थोली—“अरबार पढ़ो। मैं अभी आई।”

अजदाबाबू शरदार लड़केको तरह हेमका आंदेज पालन करनेकी कोशिश करने लगे। किन्तु किसी भी तरह अपने मनको वे राशरोंमें नहीं उलझा सके। हेमके लिए उनका मन उत्कण्ठन होने लगा। अन्तमें अरबार फँक्सर हेमबी तमाशमें चल दिये। देखा कि इतने सबेरे अदमयमें उसके कमरेका दरवाजा भोतरसे बन्द है। बिना आवाज दिये ही वे चुपचाप लौट आये, और वरणमें चहलकदमी करने लगे। बहुत देर बाद, किर वे हेमके कमरेके सामने पहुँचे।

देखा, अब भी दरवाजा बन्द है। तब फिर थककर धपसे एक कुरसीपर बैठ गये, और बार-बार अपने बालोपर हाथ फेरते हुए न-जाने किसी चिन्तामें दृग्ये, पता नहीं।

नलिनाक्षने आकर अबदा बाबूकी परीक्षा को, और 'क्या करना चाहिए' सब बता दिया। उसके बाद उसने हेमसे कहा—“आजकल, मालूम होता है ये सोचते बहुत हैं। इधर कोई दुश्मिन्ताको बात हुई है क्या?”

हेमने कहा—“हो सकती है।”

नलिनाक्षने कहा—“अगर सम्भव हो तो इन्हें पूरा विश्राम लेना चाहिए। और माको लेकर मैं भी क्या मुसीबतमें फँसा हूँ। वे जरा-सेमें घबड़ा जाती हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रखना मुश्किल हो उठा है। कल जरा-सी बातें इतना विचार करने लगीं कि रात-भर नींद नहीं आई। मैं भरसक कोशिश करते रहता हूँ कि वे स्वस्थ-सन्तुष्ट रहे, किन्तु ससारका कुछ ऐसा हाल है कि कुछ कहते नहीं बनता।”

हेम—“आपकी तबीयत भी आज ठीक नहीं मालूम होती।”

नलिन—“नहीं, मेरी तबीयत बिलकुल ठीक है। मुझे बीमार रहनेके आदत ही नहीं। हाँ, कल जरा रातको जगना पड़ा था न, इससे ताजगीके जरूर थोड़ा-सा धक्का पहुँचा होगा।”

हेम—“आपकी माकी सेवाके लिए कोई स्त्री अगर उनके पास हमेश वनी रहती, तो शायद अच्छा होता। आप अकेले हैं, और फिर काम-काज भी है, कैसे आप उनको पूरी सेवा कर सकते हैं?” हेमने यह बात स्वाभाविक हमें कही थी, और बात भी ठीक है इसमें सन्देह नहीं। किन्तु कहनेके बाद ही तुरंत उसपर शरम सवार हो गई, उसे सहसा खयाल आया कि नलिनाक्ष बाबू कहीं और-कुछ न समझ बैठें। अफस्मात् हेमकी झज्जा देखकर नलिनाक्ष भी अपनी माकी बातका खयाल आ गया। हेमने तुरंत अपनेको सम्भालते हुए कहा—“उनकी सेवाके लिए आपको जल्दी ही कोई अच्छी नौकरानी लेना चाहिए।”

नलिनाक्षने कहा—“मैंने बहुत बार कोशिश की है, पर मा किसी भी तरह

एजी हो नहीं होतीं। वे अपने शुद्धाचारके विषयमें इतनी मावधान हैं कि गूँछिये मत। किसी वेतनभोगसे सेवा लेना उन्हें करते प्रसन्द नहीं। डूसके प्रलापा, स्वभाव भी ऐसा है कि मजबूरीसे कोई उनकी सेवा कर रहा हो, यह उनसे महा नहीं जाता।

आगे इस विषयमें हेम और कह ही क्या सकती थी? कुछ देर तक चुप हनेके बाद बोली—“आपके उपदेशानुसार चलते-चलते बीच-बीचमें एक-आधे रेख आ ही जाते हैं। उससे मैं पिछड़ जाती हूँ। मुझे तो डर है, शायद सफल न हो सकूँ। मेरा क्या कभी भी मन स्थिर नहीं होगा? वाहरका आघात क्या हमेशा मुझे अस्थिर करता ही रहेगा?”

हेमनलिनीके इस कहण निवेदनसे नलिनाक्ष जरा चिन्तित-सा हो उठा। ला—“देखिये, विघ्न हमारे हृदयकी सम्पूर्ण शक्तिको जाप्रत करनेके लिए आता है। आप हताश न होइयेगा।”

हेमने कहा—“कल दरवेरे आप एक बार आ सकेंगे? आपकी सहायतासे ही बहुत-कुछ बल मिल जाता है।”

नलिनाक्षके मुह और कण्ठस्वरमें जो एक अविचलित शन्तिका भाव है से हेमको बड़ा-भारी सहारा मिल जाता है। नलिनाक्ष चला गया, किन्तु कि मनमें वह सान्त्वनाका स्वर्ग छोड़ गया। वह अपने कमरेके सामनेवाले डिमें खड़ो होकर सूर्य-किरणोंसे उद्भासित वाहरको दुनियाको देखने लगी। ने देखा, शोतक्कुरुके उस रमणीय गव्याहुमें उसके चारों तरफ, सम्पूर्ण विश्रृतिमें कामके साथ विराम, शक्तिके साथ शान्ति और उद्योगके साथ यह एकसाथ विराज रहा है। देखकर, उस विशाल भावकी गोदमें उसने अपने पैत हृदयको समर्पण कर दिया। और तब, सूर्यलोक और उन्मुख उज्ज्वल गम्भरने उसके अन्तकरणमें ससारके निला-टचारित सुगमीर आशीर्वदन आकर उसकी सारी व्यथाको हर लिया।

फिर वह नलिनाक्षकी माझी बात सोचने लगी। किस चिन्ताएँ वे चिन्तित और क्यों उन्हें रातको नींद नहीं आती, हेम मह समन गढ़े। नलिनाक्षमें के व्याहकी बातसे उसे जो चोट पहुँची थी, उस पहली चोटज्ञा सहौले व्यष्ट

जाता रहा । नलिनाक्षके प्रति हेमनलिनीको एकान्त-निभरशोल भक्ति क्रमशः वढती हो जा रही है, किन्तु उसमें प्रणयका विद्युत-सञ्चारी वेदना नहीं है नहीं है तो न सहो । इस आत्म-प्रतिष्ठ नलिनाक्षमें किसी खोके प्रणयकी चाह ही नहीं, यह तो प्रत्यक्ष दीखता है । फिर भी, सेवाकी आवश्यकता तो सभीके होती है । नलिनाक्षको मा वीमार भी हैं और वृद्ध भी । नलिनाक्षको कौन सम्हालेगा ? इस ससारमें नलिनाक्षका जीवन तो अनादरकी वस्तु नहीं है, ऐसे आदमीकी सेवा तो भक्तिको ही सेवा है ।

आज सबेरे हेमनलिनीने रमेशके जीवन-इतिहासका जो थोड़ा-सा अग्र सुन है, उससे उसके हृदयमें इतनी गहरी और इतनी जोरकी चोट लगी है कि उस जयरदस्त चोटसे अपनी रक्षा करनेके लिए उसका मन आज अपनो सम्पूर्ण शरि लेकर उठ खड़ा हुआ है । आज वह ऐसो अवस्थामें आ पहुँची है कि रमेशबं लिए वेदना अनुभव करना उसके लिए लज्जाजनक हो उठा है । वह रमेशबं विचार करके उसे अपराधी भी नहीं कहना चाहतो । ससारमें असद्य आदम भले-युरे न-जाने कितने काम करते होंगे, ससार-चक्र यों ही चला करता है हेमने उन सबोंके विचारका भार नहीं लिया । रमेशकी बात हेम मनमें नहीं लाना चाहती । कभी-कभी आत्मधातिनी कमलाकी कल्पना करके व सिद्धर उठती है । और सोचती है, उस अभागिनीकी आत्महत्याके साथ क्या मेरा भी कोई सम्बन्ध है ? और तभ, वह लज्जासे घृणासे करुणासे अपने सम्पूर्ण हृदयको मथ डालतो है । वह हाय जोड़कर कहती है, ‘हे भगवान, मैंने त कोई अपराध नहीं किया, तो किर मैं क्यों इस तरह इसमें लिपट गई ? तुम मैं इस बन्धनको खोल दो, इस जालको तोड़कर मुझे मुक्त कर दो । मैं और कुछ भी नहीं चाहती, मुझे तुम अपने इस ससारमें सहज-स्वाभाविक भावसे जीने दो ।’

- रमेश और कमलाको घटना सुनकर हेम क्या सोच रही है यह जानें लिए अज्ञदामावू उत्सुक बने हुए हैं, और दिक्षत यह कि पूछनेकी उन्हें हिम्म नहीं पढ़ रही है । हेमनलिनी बरण्डेमें चुपचाप बंठो सिलाईँगा काम कर रही है । अज्ञदामावू दो-एक बार बहर्छ गये और उसके चिन्तामग्न चेहरेकी तर देखकर लौट आये ।

शामके बक्क डाक्टरके कहे-अनुसार अज्ञदा वावूको पाचक चूर्ण-मिथित गरम-गरम दूध पिलाकर हेम उनके पास बैठ गई। अज्ञदावावूने कहा—“आखके सामनेसे बत्तीको जरा हटा देना चेटी!” और बत्ती हट जानेके बाद कमरेमें जब कुछ अँधेरा हो गया तब बोले—“संवेद जो बृद्ध सज्जन आये थे, उन्हें टेखकर तो यही माल्यम होता है कि वे सरल-प्रकृतिके थादमी हैं।”

यह प्रसङ्ग हेमको पसन्द नहीं था, इसलिए वह चुच रह गई। अज्ञदा वावूसे भी इससे ज्यादा भूमिका बनाते नहीं बना। उन्होंने कहा—“रमेशकी बातें सुनकर मुझे लेकिन बड़ा आश्वर्य हो रहा है। लोगोंने उसके सम्बन्धमें बहुत तरहको बातें कही हैं, मैंने आज तक किसी बातपर विश्वास नहीं मिया; लेकिन आज—”

हेमने करुणकण्ठसे कहा—“वापूजी, छोड़ो इन सब बातोंको, फिर तुम्हारी तत्वोयत खराब हो जायगी।”

अन्नदा—“वेटी, भीतरसे मेरी इच्छा ही नहीं होती कि इन बातोंका जिक किया जाय। किन्तु विधिको विडम्बनासे आंर-किसीके साथ हमार सुख-दुखमा सम्बन्ध हो जाता है तो फिर उसके आचरणकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती।”

हेमनलिनी जोरसे बोल उठी—“नहीं नहीं, अपने सुख-दुखको हमें जहाँ-तर्दाँ नहीं उलझने देना चाहिए। वापूजी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, मेरे लिए तुम फूजूल उद्दिम होकर मुझे अरमिन्दा न करो।”

अन्नदा—“वेटी हेम, मेरी उमर हो चुकी है, अब तुम्हारे ओहे स्थिति बिता किये तो मेरा मन स्थिर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें नपस्तितोंको तरद पसे छोड़ जा सकता हूँ, बताओ?”

हेम चुप रह गई। अज्ञदा वावू कहने लगे—“देखो वेटी, मगारमें जिसी एक आशाके नष्ट हो जानेसे क्या जीवनको और-सब यहुमूल्य चोज़ोंको नष्ट कर दालना चाहिए? तुम्हारा जीवन कैसे चुलो होगा, दैर्घ्य सार्धक होगा, बनके शोभमें आज तुम भले हो न समझ सको, किन्तु मेरा मन तो निस्तर तुम्हारा मगाल सोचता रहता है। मैं जानता हूँ कि जिसमें तुम्हारा भगल है, उसे तुम छुपी हो सकतो हो। मेरी बातकी बिलकुल ही उपेक्षा मत करो वेटी।”

ठहरी, तो स्टेशनका शोरगुल, लोगोंको दौड़धृप, सब-कुछ उसे छायाकी तरह स्वप्न-सा मालूम होने लगा। वह मशीनकी पुतलीकी तरह चुपचाप उत्सर्जन दूसरे डब्बेमें चलो गई।

गाढ़ी छूटनेका समय हो रहा था कि इतनेमें कमलाने सहसा चौंककर सुना, उसे कोई परिचित कण्ठसे पुकार रहा है, “जीजी-बाई!” कमलाने प्लाटफारमको तरफ देखा तो उमेश है। देखते ही कमलाका चेहरा चमक उठा, उसने कहा—“क्या रे उमेश! तू यहाँ क्से?” कहतो हुए वह तुरत दरवाजा खोलकर उतर पढ़ो। उमेशने पाँव छूकर उसे प्रणाम किया। उसका चेहरा मारे खुशीमें खिल उठा, खुशीके मारे वह फूला न समाया। दूसरे हो क्षण गार्डने गाढ़ीका दरवाजा बन्द कर दिया। नवीनकाली शोर मचाने लगा, “मिसरानी, क्या कर रही हो! गाढ़ी छूट रहो है, जल्दी आओ!” पर कमलाके कानों तक उनकी आवाज पहुँची ही नहीं। और गाढ़ी छूट गई।

कमलाने उमेशसे पूछा—“उमेश, तू कहाँसे आ रहा है?”

उमेश—“गाजीपुरसे।”

कमला—“वहाँ सब राजो-खुशी हैं न? चाचाजोका क्या हाल है?”

उमेश—“ठीक है।”

कमला—“शांगी-दीदी?”

उमेश—“वे तो तुम्हारे लिए रो-रोकर मरी जाती हैं।”

सुनते ही कमलाकी अस्त्रें भर आड़। बोली—“उमा अच्छी तरह वह मेरी याद करती है?”

उमेश—“जीजी-बाई, तुम जो उसे गहना दे आई हो उसे बिना पढ़ वह दूध ही नहीं पीती। तुम्हारो वह बहुत याद करती है, और हा कड़े पहनके हाय हिला-हिलाकर कहती है, मौसी गाढ़ी गई। सुनते ही शशीरोने लगती हैं।”

कमला—“तू यहाँ क्यों आया था?”

उमेश—“मुझे गाजीपुरमें अच्छा नहीं लगता था, डमीसे चला आया।”

कमला—“अब कहाँ जायगा?”

उमेश—“अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे ही साथ रहगा।”

कमला—“मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।”

उमेश—“मेरे पास हैं।”

कमला—“कहांसे आये ?”

“तुमने दिये थे न, पांच रुपये ! मैंने वे खर्च योड़े ही किये हैं।” लड़ते हुए उसने धोतीके छोरमेंसे पांच रुपयेका नोट खोलकर दिखा दिया।

कमलाने कहा—“तो चल उमेश, हम तुम दोनों कागजों चलें। तू टिकटला सकेगा न ?”

उमेश “हाँ, मैं ले आऊँगा” कहके चला गया, और थोड़ी देरमें टिकटले आया। गाढ़ी तैयार खड़ी थी। कमलाको जनाने-डब्बेमें बिठान्नर बोला—“जीजी-बाई, मैं बगलके डब्बेमें हूँ।”

काशी उत्तरकर कमलाने पूछा—“उमेश, अन कहाँ चलें, बता तो ?”

उमेशने कहा—“तुम कुछ फिकर न करो, जीजी बाई, मैं तुम्हें ठीक जगह ले चलूँगा।”

कमला—“ठीक जगह कहाँ रे ? तू यहाँका क्या जानता है ?”

उमेश—“मुझे सब मालूम है। देखो तो सही, मैं कहाँ ले जाता हूँ !” कहता हुआ वह आगे बढ़ा और एक गाढ़ीमें कमलाको बिठाकर हुद कोसवन्नम पर बैठ गया। एक मकानके सामने गाढ़ी खड़ी करके उमेश उत्तरकर बोला—“जीजी-बाई, उत्तरो !” कमला गाढ़ीसे उत्तरकर उमेशके पीछे-पीछे चल दी। मकानके भीतर जाकर उमेशने आवाज दी—“बाबा !”

मकानके भीतरसे आवाज आई—“कौन, उमेश है क्या ! तू फिर आ गया ?” और दूसरे ही क्षण हुक्का हाथमें लिये-हुए चक्कर्ता-चचा वा पहुँचे। उमेश भर-भर्मुँह हैसने लगा। आश्र्यसे दग कमलाने चचाके पांव चुरा। चचाके ऊँहसे कुछ देर तक कोइं बात ही नहीं निकली। वे क्या कहं, हुक्का झर्दा रहें, कुछ तय नहीं कर सके। अन्तमें कमलाकी ठोकी पकड़के उसके लज्जन सुन्दरों पर ऊपर उठाते हुए बोले—“बिटिया मेरो, लौट आइ, चलो ऊपर चलो !”

भीतर जाकर चचाने पुस्ताना शुरू कर दिया—“शर्णी, ओ शर्णी, देस तो,

कौन आया है !” शशो झटसे बाहर निकल आई। कमलाने उसे प्रणाम किया। शशीने जल्दीसे उसे छातीसे लगा लिया; और आँखुओंसे दोनों कपोलोंको भिगोती हुई बोली—“हाय हाय, हमलोगोंको इस तरह रुलाया जाता है, क्यों ?”

चचाने कहा—“अब उन-सब बातोंको छोड़ो, शशी ! नहाने-खानेका अन्तजाम करो !”

इतनेमें दोनों हाथ फैलाकर उमा आ पहुंची। कमलाने उसे तुरत गोदमें ले लिया, और छातीसे लगाकर, चूमकर, मिट्टी लेकर उसे बेचैन कर दिया।

शशीसे कमलाके हृद्वे बाल और मैले कपड़े देखकर रहा नहीं गया। उसे पकड़कर वह भीतर ले गई; और नहला-धुलाकर अच्छे कपड़े पहना दिये। बोलो—“कल रातको सोई नहीं मालूम होता है, मुँह सूख गया है, आँखें बेठ गई हैं। तब तक तुम विस्तरपर आराम करो, मैं चौकेमें जा रही हूँ।”

कमलाने कहा—“नहीं बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चौकेमें हो चलती हूँ।”

दोनों सखो मिलकर रसोई बनाने चली गईं।

चकवर्ती चचा जब अक्षयके साथ काशी आने लगे, तो शशी भी उनके पीछे पड़ गई थी कि ‘मैं भी चलूँगी।’ चचाने कहा, ‘विपिनको तो छुट्टी नहीं मिलेगी।’ शशीने कहा, ‘मैं अकेली ही चलूँगी। मा यहाँ हैं, कोई दिक्षित नहीं होगी।’ इस तरह पति-विच्छेदकी बात शशीने कभी नहीं कही। चचाको राजी होना पड़ा। गाजीपुरसे उमेश भी उनके माथ आया था, किन्तु उन्हें नहीं मालूम। काशी स्टेशनपर देखा कि उमेश भी गाड़ीसे उत्तर रहा है। चचाने कहा, ‘अरे, तू क्यों आया रे ?’ और-सब जिस कामसे आये थे वह भी उसी कामसे आया था। किन्तु उमेश आजकल उनके घर काम करने लगा है, इस तरह उसके चेले आनेसे घरमें बढ़ी चिन्ता होगी और शशीको मा नाराज भी होंगी, इसलिए चचाने उसे वापस गाजीपुर खाना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, सो सबको मालूम ही है। गाजीपुरमें उसका भन नहीं लगा। शशीको माने उसे सौदा लानेके लिए बाजार भेजा था, उन पैसोंसे सौदा न लेकर वह सोधा स्टेशन आकर गाड़ीमें सवार हो गया। शशीकी मा उस दिन यूँ अलाती रद्दी, और अन्तमें पटताकर रह गई।

## ५५

अक्षय आज चक्रवर्तीसे मिलने आया था, पर चक्रवर्तीने उससे कमलाके नामकी चरचा नहीं की। अब वे समझ गये हैं कि अक्षय रमेशका मित्र नहीं।

कमला क्यों चली गई थी और कहाँ गई थी, इस सम्बन्धमें घरके निसीने ससे कोई सवाल नहीं किया। सबने यही भाव दिखाया कि वह उन्हींके साथ शी घूमने आई है। उमाको दाइं लछमनिया स्नेह-सिध्दित नाराजोंके माद छ कहना चाहती थी, पर चचाने उसे अलग बुलाकर समझा दिगा कि वह न सम्बन्धमें कोई बात न करे।

रातको शशिमुखीने कमलाको अपने विस्तरपर सुलाया, और उसके गलेसे पटकर वह दाहने हाथसे उसके घदनपर हाथ फेरने लगी। इस कोमल स्वर्णसे निंदा वह उसकी गुप्त वेदनाके बारेमें कुछ पूछना चाहती है। कमलाने कहा—  
‘यों बहन, मेरे बारेमें तुम क्या सोच रही थीं? मुझसे नागज तो नहीं हुईँ?’

शशिमुखीने कहा—“हमलोग मूरख थोड़े ही थे जो कुछ बुरी बात चते। इतना तो मैं समझती ही हूँ कि और-कोई रास्ता होता तो तुम इस ह हरगिज नहीं जा सकती थीं। मैं तो सिर्फ इसी बातपर रो रही थी कि गवानने तुम्हे ऐसे सङ्गठमें क्यों ढाला? जो बिलकुल निर्दोष है, जिसे कोई पूर करना आता ही नहीं, उसे दण्ड क्यों मिलता है!”

कमलाने कहा—“दीदी, मेरी सब बातें तुम सुनोगी?”

शशिमुखीने स्त्रिघटस्वरमें कहा—“क्यों नहीं सुनूँगी, बहन!”

कमला कहने लगी—“तब तुम्हे क्यों नहीं कह सकी थी, सो मुझे नहीं हूँ। तब कोई बात मैं सोच ही नहीं नकती थी। अचानक मिरपर ऐसी जली-सी गिरो कि मारे घरमें मैं तुम्हारे सामने सुह नहीं दिखा नकती थी। आरमें मेरी मा-बहन कोई भी नहीं है, दीदी, तुम्हीं मेरी मा-बहन दोनों हो। ऐसे तुमसे मैं सब बातें कह रही हूँ। नहीं तो, मेरी ऐसी यातें हैं कि निसीसे नहीं जा सकती।’ कहते-कहते वह उठके बैठ गई। शशिमुखी भी के उसके सामने बैठ गई। उस बैधेरेमें बैठकर कमला अपने व्यादसे टेक्के। तककी अपनी सारी जीवन-फ़हानी सुनाने लगी। उसने जब मद्द कहा कि

‘व्याहके पहले या व्याहके बादकी रातको उसने अपने पतिको नहीं देखा’, त शशीने कहा—“तुम जंसी चेवकूफ लड़की तो मैंने कहों नहीं देखो ! तुम कम उमरमें मेरा व्याह हुआ था, फिर भी, तुम क्या यह समझतो हो कि माशरमके मैंने उन्हें किसी भी भौकेसे देखा ही न था ?”

कमलाने कहा—“शरमकी बात नहीं, शशी-दीदी ! मेरो व्याहकी उमतब पार हो चुकी थी । इतनेमें, अचानक जब मेरे व्याहकी बात पक्को हो गंतो मेरो सब साथियर्नि मुझे ऐसा परेशान कर दिया था कि कुछ पूछो मत और मैं भी ऐसी कि उनलोगोंके आगे यह साप्तित करनेके लिए कि वही उमर दूढ़ा पाकर मैं बाबली नहीं हुई, मैंने उनको तरफ आँख उठाकर देखा तक नहीं फिर मैं सो गई ; और सबेरे उठी तो देखा कि वहाँ कोई है ही नहीं ! उमीं तो आज फल भोग रही हूँ ।” इतना कहकर वह थोड़ी देर तक चुप रही और फिर कहने लगी, “व्याहके बाद सुसराल जाते समय नाव डूब गई, पि भी मैं कैसे बच गई, भगवान जानें । ये सब बातें जब तुम्हें मैंने कही थं तब मैं यह नहीं जानती थी कि मौतसे बचकर मैं जिनके हाथ पही और जिनमैंने अपना पति समझा, वे मेरे पति नहीं हैं ।”

शशिमुखी चौंक पड़ी, और जल्दीसे कमलाके गलेमें बौह ढालकर बोली—“हाय रो फूटी तकदीर, यह बात थी क्या ! अब सब बात मैं समझ गई । ऐसा सर्वनाश भी किसीका होता है ! हे भगवान !”

कमलाने कहा—“अच्छा, तुम्हीं बताओ बहन, जब मरनेसे ही सब जंजामिट जाता, तो विवाहाने मुझे जिलाकर ऐसी आफनमें क्यों डाला ?”

शशीने पूछा—“रमेश बाबू भी कुछ नहीं जान पाये थे ?”

कमलाने कहा—“व्याहके कुछ दिन बाद एक दिन उन्होंने मुझे सुशील कहकर पुछारा था ; मैंने उनसे कहा ‘मेरा नाम तो कमल है, तुम मुझे सुशील क्यों कहते हो ?’ मैं अब समझ रही हूँ, उसी दिन उनको गलतफहमी दूर हुई । पर बहन, उन दिनोंकी बाद आते हो मारे शरमके मेरा सिर नीचा है जाता है ।” इतना कहकर कमला चुप हो रही ।

शशिमुखीने धीरे-धीरे गब बातें जान लीं । अन्तमें उसने कहा—“इन्हें

तुम्हारी वडी फूटी तकदीर है, लेकिन, फिर भी मैं तुम्हें भाग्यवान् समझती हूँ। भाग्यसे तुम रमेश बाबूके हाथ पढ़ी थों। कुछ भी कहो, नहन, बेचारे रमेश बाबूकी बात सोचती हूँ तो वडा दुःख होता है। बहुत रात हो गई, बहन, अब तुम सो जाओ। बहुत दिनोंसे जगते-जगते तुम्हाग चंहरा खाह पढ़ गया है। अब जो कुछ करना है, सो कल सवेरे तथ किया जायगा।"

रमेशकी वह चिट्ठी कमलके पास हो थी। दूसरे दिन उस चिट्ठीको लेकर शशिमुखीने अपने पिताको एकान्तमें बुलाकर सारा हाल कह सुनाया, और चिट्ठी उनके हाथमें ढे दी। चचाने चश्मा लगाकर पूरी चिट्ठी पढ़ ढाली; और चश्मा उतारते हुए बोले—“हूँ। अब क्या करना चाहिए?”

शशीने कहा—“वापूजी, उमाको कई दिनसे सरझे-खांसी हो रही है, एक गार नलिनाक्ष डाक्टरको बुलाकर दिखा दो न।”

रोगीको देखनेके लिए डाक्टर आया, और डाक्टरको देखनेके लिए राजी बघल हो उठी। कमलसे बोली—“कमला, आ जल्दी आ।”

कलकी बातचीतके बाद घनिष्ठता बढ़ जानेसे शशिमुखीने कमलाने ‘तुम’ कहना छोड़ दिया है, और आजकी खुशी भी उमका एक कारण है।

नवनकालीके घरमें नलिनाक्षको देखनेकी व्यग्रतामें जो कमला लगभग अपनेको भूल-सी गई थी, वही कमला आज मारे शरमके ठठना हो नहीं बाहती।

शशिमुखीने कहा—“देख मुँहजलो, मैं तेरी ज्यादा खुशामद नहीं कहूँगी, घे देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं। उमाझो बीमारो तो नामके लिए है, असल बीमारी तो तेरी है। तुम्हे मनानेमें मैं भी देखनेमें रह जाऊँ क्या? यह जल्दी।” इतना कहकर बढ़ जबरदस्ती उमे खोच ले गई, और दरवाजेही पोटमें जा खड़ी हुई। नलिनाक्षने उमाझो छात-पीठ भर देस-मानकर उमा लेख दी, और चल दिया।

शशीने कहा—“कमल, विधाताने तुम्हे दुःख तो बहुत दिन, पर तेरे गम्य अच्छे हैं। जली तो जली, पर सिज्जी भी खूब। थर दो-एक दिन तुम्हे गैरज रखना पड़ेगा। देस तो महो, मैं तेरे भिलन्हाल ज़ंसा इन्जन्म बगती

इसे गाजोपुर भेज सकती हैं। पर मैं कहता हूँ, दो दिन आप इसे अपने परखते ही समझ जायेंगी कि लड़की क्या है, रक्त है। फिर आप एक क्षण लिए और इसे छोड़ना नहीं चाहेंगी।”

क्षेमद्वारी खुश होकर बोली—“हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छे बात है ऐसो लड़कोंको आप मेरे पास छोड़े जाते हैं, यह तो मेरे लिए बहाना-भारी ल है। मैं राह-चलते कितनो लड़कियोंको घर लाकर उन्हें खिला-पिलाकर आन पाती हूँ, पर उन्हें तो मैं रख नहीं सकती। आज मेरी इच्छा पूरी हुई तो हरिदासोंबाबू मेरा ही रहो, आप डसके लिए जरा भी चिन्ता न कोजियेगा मेरे लड़केके विषयमें अवश्य हो आपने लोगोंसे सुना होगा, वह बहुत अच लड़का है। उसके सिवा मेरे घरमें और कोई भी नहीं है।”

चचा बोले—“नलिनाक्ष बायूका नाम सभी जानते हैं। वे यहीं आप पास रहते हैं जानकर मैं और भी निश्चिन्त हुआ। मैंने सुना है, ब्राह्मके य किसी दुर्घटनामें उनकी स्त्री पानीमें ढूबकर मर जानेसे फिर उन्होंने ब्राह्म नहीं किया, ब्रह्मचारीसे रहते हैं?”

क्षेमद्वारीने कहा—“सो, जो कुछ हो चुका सो हो चुका। उस बातमें अब न छेड़िये। उसका स्वयाल आते ही मेरा जो खराब हो जाता है।”

चचाने कहा—“अगर आज्ञा हो तो इस लड़कीको आपके पास छोड़कर विदा लूँ? बीच-बीचमें आकर देख जाया करूँगा। इसको एक बड़ो बहन है वह भी आपके पांव दूने आयेगी।”

चचाके चेठे जानेपर क्षेमद्वारीने कमलाको अपने पास खोचकर कहा—“आओ तो बैठी, देसूँ। तुम्हारी उमर तो ज्यादा नहीं है। हाय भगवान् ऐसे भी पत्थर दुनियामें हैं जो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। मैं आशावाद देन हूँ बैठो, वह फिर घर लौट आयेगा। प्रियाताने ऐसे रुपको वृथा नष्ट करनेके सुरगिज नहीं गढ़ा।” कहते हुए उन्होंने कमलाका ठोक्की छूकर अपनो उगलिर चूम ली। और फिर बोली—“यहाँ तुम्हारो बराबरको कोई साधिन भी नहीं अङ्कली मेरे पास रह सकती है?” कमलाने अपने बढ़े-बढ़े दोनों स्त्रिय नेत्रोंमें आनेको सम्पूर्णस्पष्ट समर्पण करते हुए कहा—“रह सकूँ गो, मा!”

क्षेमद्वारीने कहा—“तुम्हारा दिन कैसे कटेगा, मैं यही सोच रही हूँ।”  
कमलाने कहा—“मैं तुम्हारा काम करती रहूँगी।”

क्षेमद्वारी—“फूट गये भाग्य ! मेरा, और काम ! घरमें वहो तो एक मेरा छड़का है, सो भी सन्यासी-सा रहता है। कभी अगर झठमूठको भी कहता कि मा, मुझे इस चोजकी जहरत है, मैं फलानी चीज साड़गा, मुझे अमुक चीज पछ्छो लगती है”, तो मैं कितनो खुश होतो। सो भा कभी नहीं कहता। जगार काफी करता है, पर हाथमें कुछ नहीं रखता। कितने अच्छे-अच्छे बर्मोंमें कितना खर्च करता है, किसीको जानने भी नहों देता। देरां देरों, वह कि तुम्हें मेरे ही पास चौबीसी घण्टा रहना है, तो एड जात मैं पहलेसे ही रखतो हूँ, मेरे सुहसे अपने लड़केका गुणगान सुनते-सुनते तुन्हें बरेगान जाना पड़ेगा, फिर भी, इतना तुम्हें सह लेना पड़ेगा।”

कमलाने पुलकित चित्तसे आये भुका लों। क्षेमद्वारीने कहा—“मैं तुम्हें या काम दूँ यही सोच रही हूँ। मिलाइया काम आता है ?”

कमला—“अच्छा नहीं आता, मा !”

क्षेमद्वारी—“अच्छा, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। और हाँ, पढ़ना याना है ?”

कमला—“हाँ, आता है।”

क्षेमद्वारी—“तो ठीक है। यिना चश्माके मुक्केपे पढ़ा नहीं जाता, तुम इके सुना दिया करना।”

कमला—“मुझे रसोई बनाना और घरका सब काम करना आता है।”

क्षेमद्वारी—“ऐसा अज्ञपूर्ण-सरीखा चेहरा, तुम्हें रसोई-गतीका काम न गयेगा तो किसे आयेगा। आज तक नलिनाइको मैं बनाकर तिलाका प्रती थी, तो बीमारीमें उसने खुद अपने हाथसे बनाके रखाया, पर और-किर्गीके टापन नहीं गया। अब तुम बनाने लगोगो तो उसे अपने हाथसे थोड़े ही दबाने दूँगो। और, असमर्थ हो जानेपर मेरे लिए भी तुम हविष्याज बनाओगो तो क्या मैं हीं खाऊगी। चलो देयी, मैं तुम्हें भण्डार और रगोई-घर सब दिग्गज दूँ।”

इसके बाद कमलाको ले जाकर उन्हेंनि अपनी छोटी-सी घर-गृहस्थी दिला। कमलाने मौका देराकर धोरे-सी अपनी दरतात्त्व पेश की, बोली—“मा, आज मुझे ही रसोई बनाने दो न !”

क्षेमद्वारी हैं स दों । बोलो—“गृहिणीका राज्य है भण्डार और रसोईमें जीवनमें बहुसंसी चोजें छोड़नी पड़ी हैं, किर भी, इतना तो साथ लगा ही हुँ है । तो बेटो, आज तुम्हों बनाओ, दो-चार दिन बाद बीरे-धोरे सब तुम्हारे ही कब्जेमें आ जायगा । और मुझे भी भगवानका नाम लेनेका समय मि जायगा । बन्धन एकसाथ तो कटता नहो, अब भी दो-चार दिन तो म चश्मल होता रहेगा ही । भण्डारका सिहासन कोई मामूली चीज थोड़े ही है । इतना कहकर क्षेमद्वारी रसोईके घारमें योद्धा-सा उपदेश देकर अपने पूजा-घर चली गई । आजसे क्षेमद्वारीके आगे कमलाको विद्या-युद्धि और घर-गृहस्थी काम-धन्यको परीक्षा शुरू हो गई । और कमला अपनी स्वाभाविक तटरतां साथ रसोईके काममें जुट पड़ी ।

नलिनाक्ष बाहरसे घर आते हो पहले अपनी माको देखने जाता है । महं सन्ध्यन्वयमें वह सदा चिन्तित रहता है । आज घरमें शुस्ते ही रसोईघरक आवाज और गन्धने उसपर इमला-सा किया । नलिनाक्ष यह सोचकर न आज माने अभीसे रमोई शुरू कर दो, सोधा रमोईके सामने जा पहुंचा ।

आहटसे चाँककर कमलाने ज्यों ही पीछे सुक्षकर देखा, नलिनाक्षसे उसक चार आर्ये हो गई । चटसे चमचा रखकर उसने धू घट खोचनेकी कोशिश की, पर जल्दीमें उससे कुछ करते न बना, और तब तक आश्चर्यसे चक्की नलिनाक्ष वहांसे चलता बना । उसके बाद कमलाने चमचा उठा लिया, पर अभी तक उसके हाथ कौप दी रहे थे ।

पूजा-गाठ करके क्षेमद्वारी जय रसोईमें पहुंची, तो देखा कि रमोई बन चुक दै । कमलाने घर नो-पौंछकर बिल्कुल साफ कर रखा है, कहीं भी एक तिनद तक नहीं पहा । देखकर क्षेमद्वारी मन-दी-मन बहुत खुग हुई, बोलो—“बेटो आगिर ठहरी तो तुम ब्राह्मणजी ही बेटो ।”

नलिनाक्ष भोजन करने वैठा, तो क्षेमद्वारी उसके सामने बैठकर परोलने लगी । और, एक सतुचित प्राणी दरवाजेकी ओटमें कान बिछाये खड़ा था, जिसमें झाँककर देखनेकी भी हिम्मत नहीं थी, और उसके मारे जिसके होग गायथ दो रहे थे कि कहीं उसकी रसोईमें क्षोई चुटि न निकल आओ ।

क्षेमद्धरीने पूछा—“नलिन, आज रसोई कैसी बनी है ?”

नलिनाक्ष भोज्य-पदर्थके सम्बन्धमें कोई खास समझदार नहीं था, इसलिए क्षेमद्धरी ऐपा अनावश्यक प्रश्न उससे कभी नहीं करती थीं, किन्तु व्याज वे विशेष कुतूहलवश ही पूछ बैठीं।

नलिनाक्षको आजको रसोईका नया रहस्य मालूम हो गया है, उसकी माको यह बात मालूम नहीं थी। इधर जबसे माकी तीरीयत खाब रहने लगी है तबसे नलिनाक्ष कितनों हीं बार अनुरोध कर चुका है कि रसोईके लिए कोइ महाराज रख लिया जाय तो अच्छा हो ; किन्तु वे किसी भी तरह राजी नहीं हुईं। आज नये व्यक्तिको रसोई बनाते देख वह मन-ही-मन बहुत खुश हुआ है। पर, रसोई कैसी बनी है इस बातपर उसका ध्यान नहीं गया, फिर भा उत्साहके साथ उसने कहा—“रसोई, बहुत ही उमदा बनी है मा !”

ओटमें खड़ी कमलाने जयों ही ये प्रश्नाके शब्द सुने, ख्यों ही वह स्थिर न रह सको, चटसे भागकर वह बगलके कमरेमें जाकर अपने उछलते हुए दृढ़यको दोनों घाहुओंसे दबाकर वशमें लानेको कोशिश करने लगी।

भोजन करनेके बाद, नलिनाक्ष अपने अन्दर किसी एक अदृष्टताको समृष्ट करनेकी कोशिश करता हुआ रोजकी अहतके अनुपार उपासन-घरमें जाऊर एकान्त-अध्ययनमें प्रवृत्त हो गया।

शामको क्षेमद्धरीने कमलाके बाल बौंद दिये ; और माँगमें सीदूर भरकर दूपके चेहरेको इन्वर-उन्वर हिलाहर अच्छा तरह देखती हुई थोलो—“अहा, मुझे अगर ऐसी ही एक बहू मिल जाती !”

उसी रातको क्षेमद्धरीको फिर बुखार था गया। नलिन उत्तिम हो गठा। थोला—“मा मैं तुम्हें कुछ दिनके लिए काशीसे किसी स्वाम्याल्प बिगड़में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारी तीरीयत ठीक नहीं रहतो !”

क्षेमद्धरीने कहा—“सा नहीं होगा, बेटा ! दो-चार दिन ज्यादा जिलानेके लिए मुझे काशा छोड़कर और कहा ले जायगा ? सो नहीं होनेगा। लेरे, उप कई दशवें पास खड़ी हो बैठा ? जाओ, सोबो जाऊर। मत्ते रात उपरे जागता रहेगी तो तुन भी बीमार पड़ जाओगी। जब तक मैं अच्छी

नहीं होती, तुम्हीको तो सब देखभाल करनी है। रात जगोगो तो कैसे का सकोगी ? जा तो नलिन, जरा उस कमरेमें चला जा ।”

नलिनाक बगलके कमरेमें चला गया। कमला क्षेमद्वारीके पाँयते घैटष्ठ उनके पाँवोपर हाथ फेरने लगी।

क्षेमद्वारीने कहा—“पहले जनममें जल्द तुम मेरी माधी बेटी। नहों तो कोई बात नहीं चीत नहीं, चटसे ऐसे तुम्हें मैं कहांसे पा जाती। देखो, मेरे एक आदत है कि मैं फालतू किसी आदमीकी सेवा नहीं सह सकती; पर तुम मेरी देहसे हाथ लगाती हो तो मेरे जोमें शान्त आ जाती है। आश्चर्य तो इस बातका है कि ऐसा लगता है मानो तुम्हें बहुत दिनोंसे जानती हूँ। तुम तो मुझे जरा भी नैर नहीं मालूम होतीं। हाँ, अब तुम निश्चिन्त होकर सोओ बेटी। बगलके कमरेमें नलिन है, वो अपनी माकी सेवा दूसरेको नहीं करने देता। हजार समझाती हूँ, पर उससे द्वार माननी पड़ती है। लेकिन उसमें एक गुण है, रात-रात भर जगता रहेगा, पर चेहरा टेखकर कोई कह नहीं सकता। इसका कारण, वह कभी किसी घातपर अस्थिर नहीं होता। धीर में बिल्कुल उलटी हूँ। बेटी, तुम समझती होगी, अब बेटेको बात शुरू है गई, अब मेरा सुंदर बन्द नहीं होनेका, सो बेटो, एक बेटा होनेसे माका यही द्वार होता है। और फिर, नलिन जमा लड़का कितनी माको मिलता है। मन्द कहती हूँ, मैं कभी-कभी मोचती हूँ, नालिन तो मेरा धाप है, उसने मेरे लिए जितना किया है, मैं क्या उसके लिए उतना कर सकी हूँ ? लो, फिर नलिनी बात ही कहती जा रही हूँ ! अब नहीं, जाओ तुम सोओ। तुम रहोगी तो मेरा सुंदर बन्द नहीं होगा। बूढ़ोंमें यहो दोष होता है, पासगे कोई रहता है तो उनका सुंदर चलता ही रहता है। जाओ, सोओ बेटो !”

दूसरे दिन कमलाने गुद हो घर-गृहस्थीका सारा भाग अथवे ऊर के लिया। नलिनाईने पूरबके बरण्टेके एक कोनेमें थोड़ा-मा जगह खेकर संगमरमरका छठा शिठलाकर आने लिए पूजाका घर बनवा लिया था, आर दोपहरको वही बह आमनपर बठकर अध्ययन करना था। उस दिन सबंधे उस घरमें तुम्हें निन्नाईने देखा कि घर मजा धुला-पुढ़ा बिल्कुल खाक मुखरा है। और

पीतलका जो धूपदान था, वह सोने जैसा चमक रहा है। छोटी-सी अलगारीमें जो थोड़ी-सी पुस्तकें और पोथियाँ थीं, वे भी ठोकसे जचो हुई रखी हैं। और उस छोटेसे उपसना-गृहकी यत्न-माजित निर्मलतापर सुने-हुए द्वारसे प्रभात-मूर्खमें किरणें पढ़ रही हैं। देखकर स्नान करके आये-हुए नलिनाशका मन तृप्तिसे भर उठा।

सबैरे हो कमला गजाजलका लोटा लिये हुए क्षेमङ्करीके बिल्लरके फाट्टेवा खेड़ी हुई। क्षेमङ्करीने उसकी नहाइ-हुई मूर्ति देखकर कहा—“यह क्या देखो, तुम अकेली हो गजा नहाने गई थीं? आज मैं सबैरेसे ही सोच रही थीं कि मैं बीमार हूँ, तुम किसके साथ गजा नहाने जाओगी। लेखिन देटी, अभी तुम छोटी हो, इस तरह अकेली—”

कमला बीच ही मैं बोल उठी—“नहीं मा, मेरे मायरका एक नौकरला जी नहीं माना तो वह कल रातको यहीं आ गया था, उसे मैं साथ ले गई थी।”

क्षेमङ्करी—“हाँ, तुम्हारी चाचीसे रहा नहीं गया होगा, इसीसे देनारीने गौकरको भेजा होगा। अच्छी बात है, तो उसे भी तुम यहीं रख लो न। मिहारे काम-काजमें भी मदद पहुँचायेगा। कहाँ है वो, बुलाओ तो जरा।”

कमला उमेशको उनके सामने ले आई। आते ही उमेशने ढोक देकर मङ्करीको प्रणाम किया। क्षेमङ्करीने पूछा—“तेरा नाम क्या है रे?”

“मेरा नाम उमेश।”—कहता हुआ वह वेमतलर मुह भरके हँस दिया।

क्षेमङ्करीने हँसते हुए कहा—“उमेज। तुम्हे यह बहारदार धोती किसने रे?” उमेशने कमलाकी तरफ इशारा करते हुए कहा—“जीजो-जाइने।”

क्षेमङ्करीने कमलाकी तरफ देखते हुए हँसामें कहा—“मैंने उमन्ह आशायद जमाई-पष्टामें उमेशको सासने दी होगी।”

क्षेमङ्करीका स्लेह पाकर उमेश यहीं रह गया।

उमेशकी मददसे कमलाने दिनका साग ज्ञाम छाज रानम बर दिया। निःहाथसे नलिनाशका कमरा साफ किया, उसक बिठ्ठीन घूफमें सुराये और इसे बिछा दिये, और चारों तरफ सफाई-दी-सफाई बर दी। नलिनाशकी हुई मेलो धोतो एक कोनेमें पढ़ी थी, उसे धो सुनायर तुनरे लहरनीर

टांग दिया । जो चोजे विलकुल साफ-सुप्ररो थी, उन्हें भी उसने पोछने के बहाने बार-बार हिलाकर देस लिया । बिस्तरके सिरद्दानेके पाम एक देवार-अलमारी थी, उसे खोलकर देता ; उसमें पिंवा राङड़ोंके और कुछ नहीं था । उस खड़काँचों जल्दीसे रठाकर उसने मायेसे लगाया, और छोटे बच्चेको तरह उतोंसे लगाकर आँचलसे उसकी धूल पोछ दी ।

शामकी कमला क्षेमद्वारीके पायते बंठो उनके पांवोंरर हाथ फेर रही थी कि इतनेमें कृलोंको डाली लिये-हुए हेमनलिनी था पहुँचो ; और उसने क्षेमद्वारों प्रणाम किया । क्षेमद्वारी ठठके बठ गई ; और बोली—आओ, आओ हेम, बैठो । अजदा बाबूओ तबीयत ठीक है न ?” हेमने कहा—“उनकी तबीयत ठीक न होनेसे कल मैं नहीं आ सकी थी, आज तबीयत ठीक है !”

क्षेमद्वारीने कमलाको दिखाते हुए कहा—“यह देसो बेटी, बचपनमें मेरी मा मर गई थीं ; वे फिरसे जन्म लेकर इतने दिन बाद अचानक मेरी बार लेने आई हैं । मेरी माझा नाम था हरिभामिनी, अबकी नाम लिया है हरिदामी । लेकिन हेम, ऐसो लक्ष्मीको प्रतिमा तुमने और-कहो देसो है चच बताना ?” कमलाने लजासे सिर झुका लिया ।

हेमनलिनीके साथ धोरे-धीरे कमलामा परिचय हो गया ।

हेमने क्षेमद्वारीसे पूछा—“मा, आपको तबीयत केनो है ?”

क्षेमद्वारी बोली—“देसो, इस टमरमें अब मुझसे तबीयतकी बात पूछन फूजूल है । मैं जो अभी तक यनो हुई हूँ, यही यहुत समझो । पर, कलझो धय उथादा दिन धोसा नहीं दिया जा सकता । सो, तुमने बात छेड़ ही दी है तो सुनो । कई दिनसे मैं तुमसे कहनेकी थी, पर मौका ही नहीं मिला । देसो बेटी, बचपनमें मुझसे अगर कोई बयाद्को बात कहता था, तो मारे गरमदें मैं गढ़-गढ़ जानी थी । पर तुमलोगोंकी शिक्षा तो बेसी नहीं है । तुमलेंग पढ़ो-लिनो हो, बहो भी हो गई हो, तुमलोगोंसे बुगाई-बगाईके बारेमें याफ-यार बात कही जा सकती है । इसोलिए यात छेड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धाम मत, छरता । अच्छा, यत्ताओ तो बेटी, उम दिन तुम्हारे रितासे मैंने जो बात कहीं थी, उस तिरपरे बन्देंगे तुमसे कोई बात क्यी थी ?”

हेमनलिनीने नीचेको देखते हुए कहा—“हाँ, की थी ।”

क्षेमद्वारीने कहा—“पर तुम शायद उस बातपर राजी नहीं हुई ? अगर राजी होती, तो अन्नदावावू उसी वक्त मेरे पास-दैदे आते । तुम सोचती होगी कि मेरा नलिन सन्यासी आदमी ठहरा, दिन-रात जय-तप स्वाध्यायमें लगा रहता है, ऐसे आदमीसे क्या व्याह करना ! लड़का भेद है तो क्या, बात चढ़ा देने लायक नहीं । उसे बाहरसे देखनेसे यही मालम होता है कि उसमें आसकिका भाव कभी नहीं आ सकता, पर यह तुमलोगोंकी भूल है । वह इतना ज्यादा प्यार कर सकता है कि उस ढरघे हमेशा अपनेजो दमन किये रहता है । उसके इस सन्यासके ढम्कनको उठाकर देखोगी, तो भीतर ऐसा मधुर हृदय पाओगी कि उसकी जोड़ी मिलना मुश्किल है । वेटो हेम, तुम बच्ची नहीं हो, तुम शिक्षित हो, तुमने मेरे नलिनसे दोक्षा ली है, तुम्हें नलिनके घरमें प्रतिष्ठित करके अगर मैं मर सकी, तो निश्चिन्त होकर मर मर्कूर्गी । नहीं तो, मैं निश्चित जानती हूँ कि मेरे मरनेके बाद फिर वह व्याह ही नहीं करेगा । तब उसको क्या दशा होगी, सोचो तो सही ! बिलकुल यहत्तम बहता फिरेगा । तुम्हीं बताओ वेटो, तुम तो नलिनाक्षकी भव्या करती हो, मैं जानती हूँ, फिर तुम्हारे मनमें आपत्ति क्यों उठो ?”

हेमनलिनीने सिर झुकाये हुए ही कहा—“मा, तुम अगर मुझे इस गोस्य समझती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।”

उनकर क्षेमद्वारीने हेमको अपनी छातीके पास खोचकर उसका गाया चूम लिया ; और इस विषयमें फिर कोई बात नहीं की ।

“हरिदासी, इन फूलोंको—” कहते हुए क्षेमद्वारीने पांचतेजी तरफ देख तो वह थी ही नहीं । वह चुपकेसे कब उठके चली गई, रवर ही नहीं ।

पूर्णोक्त बातचीतके बाद क्षेमद्वारीके लगे हेमको महो च माटम देने लगा ; और क्षेमद्वारी भी जरा-दुछ सङ्कोचमें पद गई । हेमने कहा—‘अच्छा’ मा, आज मुझे जल्दी ही जाना है । बायूजीकी तमीयत क्य रागव ही जाय, कोई ठीक नहीं ।” इतना फहकर उनने प्रणाम किया, और क्षेमद्वारीने उसके साथेपर द्वाय रखकर कहा—“अच्छा वेटो, फिर जाना ।”

हेमलिनीके चले जानेपर क्षेमकुरीने नलिनाक्षको बुलवा लिया ; और  
कहा—“नलिन, अब मैं देर नहीं सह सकती।”

नलिनाक्षने कहा—“क्या बात है मा ?”

क्षेमकुरीने कहा—“मैंने आज हेमसे सब थात चुलामा करी थो ; पहले  
राजी है, अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं बुनना चाहती। मेरे शरीरको हालत  
तो तू देख ही रहा है। तेरो घृण्यो चिन। बसाये मुझे चैन नहीं पढ़ रहा है।  
आयो उतको मेरी आरा तुझ जातो है तो सोचते-सोचते तोड़ हो नहीं आतो।”

नलिनाक्षने कहा—“अच्छा मा, तुम निविन्त होकर सोओ। जो तुम  
कहोगी यही होगा।”

नलिनाक्षके चले जानेपर क्षेमकुरीने पुकारा—“हरिदासो !” कमला बगलके  
कमरेमेंसे चलो आइं। तब दिन छिं तुम्हा था। बैंधेरेमें दरिदासोका चंद्रा  
ठोकसे दियाइं नहीं दिया। क्षेमकुरीने कहा—“वेटो, इन फूलोंको जरा पानीके  
उटे देवर ठोकसे मजा दो।” और, एक गुलाब उठाकर फूलकी ढाली कमलाके  
सागे द्वा दी।

कमलाने दुछ फूल थालीमें सजाकर नलिनाक्षके टपायना-घरमें आपनके  
नामने रख दिये ; और दुछ फूल एक फूलदानीमें सजाकर उसके कमरेमें  
तिपाईपर रख दिये। और, बाजोके फूल उसने दीवार-बलमारीमें रखो द्वाई  
त्तदाउंओपर चढ़ाते हुए ज्यों ही उत्तर मत्त्यु रखकर प्रगाम किया त्यो ही  
उमड़ी आत्मासे झाँकर आँसू गिले लगे। इन त्तदाउंओके मिवा संगामें  
उत्तरा और-कोई नहीं, पद-सेवाका अभिकार भी उमसा जाता रहा।

उत्तरेमें अनाजकु कोई कमरेमें नला आया। कमला भड़भड़कर उठ गई  
हुई ; और तुरत अग्नारी बन्द कर दी। उसने पीटेको मुहड़ देता तो  
नलिनाक्ष ! किसी भी तरफसे गागनेमा कोई रास्ता न पाकर मारे घरमें चढ़  
छाउन गत्तर के बाहरकारमें चारा गई।

नलिनाक्ष घरमें कमलाहो देखकर पाहर नढ़ा गया। कमला भी किसी  
देर न करके तुरन घरमें आग गई। तब नलिनाक्ष किस अपने कमरेमें  
गया। लद्दी अग्नारी देलदर यामा कर रही थी, और उसे देगवे ही चट्टे

दरवाजा क्यों बन्द कर दिया, इस कुतूहलसे नलिनाक्षने अलमारी खोलकर देरा कि उसको खड़ाऊंपर कुछ ताजे फूल पढ़े हुए हैं। उसने अलमारी बन्द कर दी, और वह जगलेके पास जाकर खड़ा हो गया। यहुत देर तक आकाशकी तरफ देखता रहा, इतनेमें सूर्यास्तको क्षणभगुर आभा विलोन हो गई और अन्धकार घना हो आया।

## ५६

हेमनलिनी नलिनाक्षके साथ अपने व्याहको सम्मति देकर सोचने लगी, 'यह मेरे लिए परम सौभाग्यको बात हुई।' और मन-ही-मन हजारों धार घोली, 'मेरा पुराना बन्धन दृट गया। मेरे जीवन-आकाशको धेर हुए जो अधिके चादल जमा हो रहे थे, वे विलकुल फट गये, यह अच्छा हो हुआ। अब मैं स्वाधीन हूँ, अपने अतीतकालके लगातार होनेवाले आक्रमणोंसे थर में विलकुल सुक हूँ।' और साथ ही वह विशाल वैराग्यका आनन्द भी अनुभव करने लगी। इमशानमें दाह-कृत्य कर चुकनेके बाद यह विशाल सप्तार जसे अपना निपुल भार छोड़कर खेल-सा दिखाइ देता है, और तब कुछ देरके लिए मनुष्यका मन जैसे हल्का हो जाता है, हेमनलिनीके मनकी भी ठोक चैसी हो हालत हो गई; उसने अपने जीवनके एकाशको जइसे समाप्त होते देरा ठोक चैसी ही शान्ति आप कर ली।

घर आकर हेम सोचने लगी, 'मेरी भा होती, तो उन्हें आज अपने इस आनन्दको बात सुनाकर आनन्दित कर देतो। आपजौसे ऐसे ये सब बातें कहा।'

कमजोरी बढ़ जानेसे अनदा बाबू आज जरदी सोने चले गये। और हेमने एक कापी निङालकर टेप्पिलपर बटकर लियना शुरू कर दिया—'मैं मृत्युजालमें फँसकर रामस्त सप्तारसे विच्छिन्न हो गई थी। इस दुर्घटने उदार चरके ईश्वर आज फिर मुझे नये जीवनमें प्रतिष्ठित कर देने, इसकी कर्मी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं उनके चरणोंमें हजारों प्रणाम करके नये वर्तमान-द्वेषमें प्रवेश करनेको तैयार हो गई। मैं किसी भी हालतमें जिस सौभाग्यके योग्य नहीं, आज मैं उसी सौभाग्यसे मौभाग्यतों दोने जा रही हूँ।'

ईश्वर मुझे चिरजीवन उसको रक्षा करनेका बल है। मुझे इस बातका पूँछ विश्वास है कि जिनके जीवनके साथ मेरे इस क्षुद्र जीवनका मिलन होने जा रह है, वे मुझे सर्वशिर्में परिपूर्णता देंगे। उस परिपूर्णताके सम्पूर्ण ऐश्वर्यको ; सम्पूर्णरूपसे उन्होंको प्रत्यर्पण कर सकूँ, ईश्वरसे यही भेरो एकमात्र प्रार्थना है।

इसके बाद, कापी बन्द करके हेमनलिनी बगीचेमें जाकर उस नक्षत्र-खनि अन्धकारमें, निस्तब्ध शीत-रात्रिमें, बहुत देर तक इधरसे उधर टहलती रही और अनन्त आकाश उसके आँसुओंसे धुले अन्तःकरणमें नीरव-शान्तिमन सुनाता रहा।

दूसरे दिन, शामके कुछ पहले, अनन्दावावू हेमको साथ लेकर नलिनाकी घर जानेकी तैयारी कर रहे थे कि इतनेमें उनके मकानके फाटकके सामने ए गाढ़ी आकर खड़ी हो गई। कोचबक्ससे उतरकर नौकरने खबर दी कि 'माज आई हैं।' अनन्दावावू मटपट फाटकपर पहुँच गये। उन्हें देखते ही क्षेमद्वारा गाढ़ीसे उतर पड़ीं। अनन्दावावूने कहा—“आज मेरे सौभाग्यका क्या ठिकाना।

क्षेमद्वारीने कहा—“आज आपकी लड़की देखकर उसकी गोद भरने आँहूँ।” कहती हुई वे भीतर चली आईं। अनन्दा बाबूने उन्हें बड़ी खातिरसे बैठकमें ले जाकर सोफेपर बिठाया, और कहा—“आप बैठिये, मैं हेमके बुला लाऊँ।”

हेम बाहर जानेके लिए तैयार हो रही थी, ‘क्षेमद्वारी आई हैं’ सुनते ही वह जटदीसे अपने कमरेमेंसे निकलकर बैठकमें आ गई; और क्षेमद्वारीको प्रणाम किया। क्षेमद्वारीने कहा—“सौभाग्यवती होओ, दोषायु होओ, वेटी। देख वेटी, तुम्हारा हाथ तो देख जरा।” कहते हुए उन्होंने एक-एक करके उसके दोनों हाथोंमें दो सोनेके मोटे कड़े पहना दिये। हेमनलिनीके दुबले-पतले हाथोंमें मोटे कड़े ढिलढिल करने लगे। कड़े पहनकर फिर हेमने उन्हें ढोक देकर प्रणाम किया। क्षेमद्वारीने दोनों हाथोंसे उसका सुह थामकर ललाट चूँथा लिया। इस आशीर्वाद और प्यारसे हेमका हृदय सुगम्भीर माधुर्यसे परिपूर्ण हो उठा।

क्षेमद्वारीने कहा—“व्याईंजी, कल हमारे यहाँ आप दोनोंका निमन्त्रण रहा।”

— दूसरे दिन सवेरे अज्ञदावावू हेमनलिनीके साथ नियमानुसार बाहर बगीचेसे चाय पीने बंठे। उनका रोगक्लिष्ट चेहरा रात-भरमें आनन्दसे सरसा और ताजा हो गया है। क्षण-क्षणमें वे हेमके शान्तोजज्वर चेहरेको तरफ देखते हैं और सोचते हैं, 'आज हेमको मानो उसकी स्वर्गीय माके मङ्गल-मधुर आविभविन्ने परिवेष्टित कर रखा है, और उस बेष्टनने सुदूरव्यास अथुजलके आभाससे उसके सुखकी अत्युज्ज्वलताको स्तिरध-गम्भीर कर दिया है।'

अज्ञदावावूको आज बार-बार ऐसा भालूम हो रहा है ति 'अब धेमद्वीके यही जानेका समय हो गया, तैयारी करनी चाहिए, अब देर करना ठीक नहीं।' हेमनलिनी उन्हें बास्त्यार कह रही है कि 'अभी बहुत देर है, अभी तो कुल आठ बजे हैं।' अज्ञदा वावू कहते हैं, 'नहा-धोकर तैयार होनेमें भी तो समय लगेगा। देर करनेकी अपेक्षा जरा जल्दी पहुँच जाना ही ठीक है।'

इतनेमें टूँड़ सूटकेस और विस्तर आदिसे लदी हुई एक डिरवीकी गाढ़ी फाटकके सामने आ खड़ी हुई। और, हेमनलिनो सहसा "भारि साद्य आ गये" कहती हुई फाटकको तरफ चल दी। योगेन्द्र हँसता हुआ गाढ़ीसे उतरा, और बोला—“क्यों हेम, अच्छी तरह हो।”

हेमनलिनीने पूछा—“तुम्हारी गाढ़ीमें और कोई है क्या ?”

योगेन्द्रने हँसते हुए कहा—“है न। बापूजीके लिए घड़े दिनका एक उपहार लाया हू।”

इतनेमें गाढ़ीसे रमेश उतर पड़ा। हेमनलिनी एक क्षणके लिए उधर देखकर तुरत पीठ फेरकर चल दी।

योगेन्द्रने कहा—“हेम, जाओ मत, सुनो एक बात है।”

किन्तु यह अहान हेमनलिनीके कानों तक नहीं पहुँचा। वह जन्म-चत्वार बदम रखती हुई ऐसे चली गई जैसे कोई प्रेतमूर्ति उसका पीछा कर रही हो।

रमेश क्षण-भरके लिए एक चार ठिठक्कर रहा दो गया। उससे युठ तय करते नहीं यता कि वह आगे बढ़े या लौट पड़े। योगेन्द्रने कहा—“रमेश, आओ, बापूजी यहीं बाहर ही चेठे हैं।” लौर द्वापर पश्चिमर उसे बज्जदा बाबूके पास ले गया।

अन्नदावावूँ दूरसे हो रमेशको देखकर हतबुद्धि-से हो गये थे । वे सिरप हाथ केरते हुए सोचने लगे, ‘अब ऐन वक्तपर यह कैसा विध्न उपस्थित हुआ ।

रमेशने अन्नदा वावूको झुककर नमस्कार किया । अन्नदा वावूने द चेठनेके लिए कुरसी दिखाते हुए कहा—‘योगेन्द्र, तुम ठीक वक्तपर आ गं अच्छा ही हुआ । मैं तुम्हें टेलिग्राम करना चाहता था ।’

योगेन्द्र—“क्यो ?”

अन्नदा—“हेमको नलिनाक्षसे सगाई कर दो है । कल नलिनाक्षको : हेमको गोद भर गई हैं ।”

योगेन्द्र—“वाह ! बिलकुल पक्की बात हो चुकी है । मुझसे एक चूछ तो लेते ?”

अन्नदा—“योगेन, तुम कब क्या कहते हो, कोई ठोक नहीं । मैं न नलिनाक्षको जानता भी न था, तब तुम्हीं तो उससे सम्बन्ध करानेको उताव द्वे रहे थे ।”

योगेन्द्र—“हाँ, तब जरूर हो रहा था । पर अब भी कुछ नहीं बिग है । मुझे बहुत-सो बातें कहनी हैं । पहले सब सुन लो, उसके बाद जो उन्हि समझो सो करना ।”

अन्नदा—“फुरसतसे फिर-कभी सुनूँगा, अभी मुझे फुरसत नहीं है अभी-तुरत मुझे बाहर जाना है ।”

योगेन्द्र—“कहाँ जाओगे ?”

अन्नदा—“नलिनाक्षकी माके यहाँ मेरा और हेमका निमन्त्रण है । तु लोगोंके लिए यहाँ—”

योगेन्द्र—“नहीं नहीं । हम लोगोंके लिए व्यस्त होनेकी जरूरत नहीं मैं रमेशके साथ यहाँके किसी होटलमें खा-पी लूँगा । शामके पहले तुमलो आ जाओगे तो ? तभी आऊँगा ।”

अन्नदावावूसे रमेशके प्रति किसी प्रकारका शिष्ट-सम्भाषण करते नहीं बना चसके मुहकी और देखना भी उनके लिए कष्टसाध्य हो डठा । रमेश भी, अ तक चुप रहकर जाते समय उन्हें नमस्कार करके चला गया ।

५७

क्षेमद्वारीने घर जाकर कमलासे कहा—“वेटो, हेम और उसके पिताजो में कलके लिए खानेका निमन्त्रण दे आईं हूँ। क्या-क्या बनाओगो बताओ तो ? समझीको इस तरह खिलाना चाहिए कि वे निश्चिन्त हो जायें कि उनकी लड़को यहाँ खाने-पीनेका कष्ट नहीं पायेगो। क्यों ठीक है न, वेटो ? सो, तुम जैसो रसोइं बनाती हो उससे मुझे इतना तो भरोसा है कि बदनामों हरनिज नहीं होगी। मेरे लड़केने खानेके विषयमें आज तक कभी भला-बुरा हुद्द भी नहीं कहा, और कल तुम्हारे हाथकी रसोइंकी उसने खूब तारीफ की। पर, तुम्हारा चेहरा आज ऐसा सूखा-सा क्यों मालूम हो रहा है ? तभीयत ठीक नहीं है क्या ?”

मलिन मुँहपर जरा-सी हँसी लाते हुए कमलाने कहा—“नहीं तो, मेरी तभीयत बिलकुल ठीक है, मा !”

क्षेमद्वारीने सिर हिलाते हुए कहा—“शायद तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। इतने दिनसे सब एकसाथ रही हो, घरके लिए मन तो उच्छेदगा हो। इसमें शरमानेकी कथा थात है। मुझे गैर न समझना चेटो, मैं तुम्हें अपनो लड़कों ही समझती हूँ, यहाँ तुम्हें किसी बातको अङ्गूचन हो, या तुम अपने घरबालोंसे किसीसे बिलना चाहो, तो बिना मुक्कसे कहे कैसे काम चलेगा बताओ ?”

कमला व्यग्र होकर बोली—“नहीं मा, तुम्हारी सेवा करनेकी निले, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए।”

क्षेमद्वारी इस बातपर ध्यान न देकर कहने लगी—“न हो तो, उठ तिनके लिए तुम चाचाके पर जाकर रहो। फिर ज४ तुम्हारी उच्छा हो, आ जाना।”

कमला ध्यार दो उठो, बोली—“नहीं मा, ज४ तक मैं तुम्हारं पाय हृत्य तक मैं और-किसीको याद नहीं करूँगी। मुझसे तुम्हारे चरणोंमें अगर कभी कोई कसूर भी बन जाय, तो मुझे तुम और-चाहे जो भी नजा दो, पर अपनेसे दूर कहीं नहीं भेजना।”

क्षेमद्वारीने कमलाके दाढ़ने करोलबर हाथ फेरते हुए कहा—“गले तो

कहती हूँ, बिटिया, पहले जनममें तुम मेरी माथीं ! नहीं, तो देखते ही ऐस घन्धन कैसे हो सकता है ! अब जाओ वेटो, देर न करो, सोओ जाकर दिन-भर काम करती रही हो, घड़ी-भर भी तुमसे बैठा तो जाता नहीं । इतन मैहनत न किया करो, नहीं तो थक जाओगी ।”

कमला अपने घरमें जाकर किवाड़ बन्द करके बत्ती बुझाकर अँधेरे में जमीनपर बैठी रही । बहुत देर तक बैठी-बैठी सोचती रही, और अन्तमें उसने अनमें समझ लिया कि भाग्यके दोषसे जिनपरसे मेरा अविकार जाता रहा है उन्हें मैं अगोरे बेठी रहूँ, यह कैसे हो सकता है । सब-कुछ छोड़नेके लिए मनको तैयार करना होगा । सिर्फ सेवा करनेका मौका, जैसे भी बनेगा, हाथसे न जाने दूँगी । भगवान करें, इतना मैं हँसते-हँसते कर सकूँ, इससे ज्याद और-किसी बातपर मेरी नजर न पढ़े । अनेक कष्टोंने जितना सुझे मिला है उतनेको भी अगर मैं प्रसन्न मनसे न ले सकी, अगर मुँह फुलाकर अलग हो गई, तो सुझे सब-कुछ खोना पड़ेगा ।’ ऐसा समझकर बार-बार वह सकल्प करने लगा कि ‘मैं क्लसे किसी भी दुःखको मनमें स्थान नहीं दूँगी, एक क्षणके लिए मेरा चेहरा उदास न हो ; जो आशाके अतीत है उसके लिए कोई भी कामन मेरे मनमें न रहे । मैं केवल सेवा करती रहूँगी, और कुछ भी नहीं चाहूँगी नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगो ।’

इसके बाद वह विस्तरपर जाकर सो रही । इधर-उधर करवट बदलते बदलते नींद आ गई । रातको दो-तीन बार उसकी आँख खुल खुल गई ; और खुलते ही वह मन्त्रको तरह उच्चारण करने लगी, ‘मैं कुछ भी नहीं चाहूँगी नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगी ।’ सवेरे ही उठकर वह हाथ जोड़कर बैठ गई, और सम्पूर्ण चित्तका जोर लगाकर बोली—“मैं आमरण तुम्हारी सेवा करती रहूँगी और कुछ भी नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगी, नहीं चाहूँगी ।”

इसके बाद हाथ-मुँह धोकर, बासो कपड़े बदलकर, नलिनाश्वके उपासना-घरमें पहुँच गई ; और अपने आचलसे सारे फर्शको पौछकर साफ किया और ठीक जगहपर आसन बिछाकर जल्दीसे गज्जा नहाने चलो गई । आजकल नलिनाश्वके विशेष अनुरोधसे क्षेमद्वीने सूर्योदयके पहले नहाने जाना छोड़

दिया है। इसलिए उमेशको ही इस दु सद जाहेमें तड़के ही उठकर कमलाके साथ गजा नहाने जाना पड़ा।

स्थानसे लौटनेके बाद कमलने क्षेमद्वारोको प्रफुल्ल मुखसे प्रणाम किया। वे तब नहाने जानेको तैयारीमें थीं। कमलाको देखते हो बोलो—“इतने सन्नेरे तुम क्यों नहाने गई वेटी? मेरे साथ जातीं तो ठोक रहता न।”

कमलने कहा—“आज जो घरमें काम है मा। कल शामजो जो साग-न्तरकारी आई है उसे बनाना है। और जो-कुछ धजारसे मँगाना है सब उमेशको भेजकर मँगा लेना है।”

क्षेमद्वारीने कहा—“यह तुमने खूब सोचा वेटी। ज्यों ही समझी लायेंगे त्यों ही उन्हें साना तेयार मिलेगा।”

इतनेमें नलिनाक्ष अपने कमरेमेंसे बाहर निकल आया। उसे देखते हो कमला अपने भोगे बालोपर जल्दीसे धू धट लीचकर कमरेके भोतर चली गई। नलिनाक्षने कहा—“मा, आज ही तुम नहाने चल दो? कल ही तो जरा बुखार उतरा है।”

क्षेमद्वारीने कहा—“तालिन, तू अपनी ढाकग्रो रहने दे। मैंदेरे गजा नहीं नहानेवाले अमर नहीं हो जाते। तू अभी बाहर जा रहा है तमा? आज जरा जल्दी आ जाना।”

नलिनाक्षने पूछा—“क्यों मा?”

क्षेमद्वारी—“कुल तुमसे मैं कहना भूल गई, आज अजश बाबू तुझे आशीर्वाद देने आयेंगे।”

नलिन—“आशीर्वाद देने? क्यों, अक्षमात् वे गुम्फर इन्हे प्रपञ्च कर्पा हो उठे? उनके साथ तो मेरी रोज मुलाकान होती है।”

क्षेमद्वारी—“मैं जो कल हेमको कढ़ाको जोड़ी देकर आशीर्वाद पर आई हूँ। छब आजश अबूझे पारो है। तार, तू जल्दी आ जाना। अज वे यहीं जीतेंगे।” कहनो हुरे क्षेमद्वारी गज-नहाने चढ़ा गई; लैंगर नलिनारु पिर नीचा छिये सोचता हुआ बाहर चला गया।

## ५८

हे मनलिनी रमेशके पाससे तेजीसे भागकर अपने कमरेमें चली गई, और दरवाजा बन्द करके विस्तरपर पढ़ रही। पहला आवेग जरा शान्त होते ही एक तरहकी लजाने उसे घेर लिया, वह सोचने लगी, ‘क्यों मैं रमेश बाबूसे सहज स्वाभाविक-रूपसे नहीं मिल सकी? जिसकी मुझे कोई आशा नहीं थी, वही बात क्यों मुझसे इस तरह अशोभन-रूपमें जाहिर हो गई? नहीं नहीं, किसी बातपर मेरा दृष्टि विद्वास नहीं। इस तरह कहाँ तक डगमगाती रहूँगो! इसके बाद, जबरदस्ती उठकर उसने दरवाजा खोल दिया; और बाहर निकल आई। मन-ही-मन कहने लगी, ‘मैं भागूँगी नहीं, विजय पाऊँगी।’ और फिर रमेश बाबूसे मिलने चल दी। सहसा न-जाने किस बातकी याद उठ आई, फिर वह अपने कमरेमें चलो आई। उसने अपना सन्दूक खोलकर उसमेसे क्षेमद्वारोंके दिये-हुए दोनों कड़े निकालकर पहन लिये; और इस तरह मानो अस्त्र धारण करके वह अपनेको दृढ़ताके साथ सिर उठाकर युद्धके लिए बगीचेकी तरफ ले चली।

अनन्दा बाबू हँसते हुए बोले—“हेम, कहाँ चली?”

हेम—“रमेश बाबू नहीं हैं, भाई साहब नहीं हैं?”

अनन्दा—“नहीं, दोनों चले गये।”

आत्म-परीक्षाकी आसन्न-सम्भावनासे छुटकारा पाकर हेमको छुछ आराम मालूम हुआ। अनन्दा बाबूने कहा—“तो अब चलना चाहिए। उसने कहा—“हाँ बापूजी, मैं नहा-धोकर अभी आती हूँ। तुम गाढ़ी लानेको कह दो।”

इस तरह निमन्त्रणमें जानेके लिए सहसा हेमनलिनीका स्वभाव-विश्वद अति-उत्साह देखकर अच्छादाबाबू निश्चिन्त न होकर और-भी उत्कण्ठित हो उठे।

हेमनलिनी झटपट नहा-धोकर कपड़े पहनके आ खड़ी हुई, और बोली—“गाढ़ी आ गई बापूजो?”

अच्छादा बाबूने कहा—“नहीं, अभी नहीं आई।”

सुनकर हेमनलिनी बगीचेमें जाकर इधरसे उधर टहलने लगा। और अच्छादा बाबू बरप्छेमें बंठे हुए सिरपर हाथ फेरने लगे।

अन्नदा बाबू जब नलिनाक्षके घर जाकर पहुँचे, तब व्य्रीज उसपर धड़े होंगे। नलिनाक्ष भी वापस नहीं आया था। इसलिए उनकी चातुरदारी हा भार क्षेमकरीको हो लेता पहा। उन्होंने अन्नदा बाबूने स्वास्थ्यके सम्बन्धमें नाना प्रश्न किये, और उनके घरके विषयमें भी बातें की। दीन-दोत्रमें वे हेमके चेहरेकी तरफ भी देखती जाती थीं। किन्तु उसपर उत्साह या गुरुतोऽका कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। आमने शुभ-घटनाको सम्भागनाने सूर्योदयक पृथ्वे अरुणच्छयकी किरणोंकी तरह उसके चेहरेपर कोई दीसि क्यों नहीं प्रपट छी? अत्कि उसकी अन्यमनस्क दृष्टिमें तो किसी दुश्चिन्ताका ही उन्धार दिखाई दे रहा है। यह क्या बात है? इससे क्षेमरोंको चौट पहुँची; और उन्होंने मन भी कुछ बैठ गया। सोचने लगी, 'नलिनके साथ चाह होना जिसी भी लड़कीके लिए सौभाग्यका विषय है; और यह शिक्षा-मठोन्मत्ता आचुलिल लड़कों मेरे नलिनको अपने योग्य ही नहीं समझती। आरिह उसकी सद चिन्ता, यह दुविधा है किस बातपर? असलमें दोन नेरा हो दें। बूटी हो गई, पर धीरज किसे कहते हैं नहीं जानती। ज्यों ही उड़ा हुई, चटसे उत्तावली हो उठो। वही उमरकी लड़कोंसे लड़केजा ढार करने चल टी, पर उसे अच्छी तरह जाननेको कोशिश ही नहीं की। पर हाय, जानने-देखनेका समय अब कहाँ रहा, अब तो ससारजा सब काम जन्दी पूरा करके जानेका निमन्त्रण आ गया है।' अन्नदा बाबूके साथ बात करते हुए उनके मनमें ये ही सब बातें चक्र काट रही थीं। बान करना उनके लिए कष्टकर हो उठा। उन्होंने अन्नदा बाबूमे कहा—“ठेकिये, व्याहके सम्बन्धमें ज्यादा जानाजी करनेको जहरत नहो। इन दोनोंको उमर हो जुली है, अब इन्हींपर ढोर देना चाहिए; जसा उचित समझें, करेंगे। हमारा जोर लगाना ठीक न होगा। ऐसके मनकी बात मैं नहीं कड़ सकतो, पर नलिनके विषयमें युरो जर्द ताज मालूम है, अभी तक वह अपने मनको स्थिर नहीं कर पाया है।”

यह बात क्षेमराजने खास तौरसे हेमजो मुनानेके लिए कही। ऐसनलिनी सप्रभु चित्तसे विचार कर रहा है और उनका लड़का उपर उनकर नान उठा है, ऐसी भारणा वे दूसरोंके मनमें दूरगिज पैश नहीं देने चाहती।

हेमनलिनी आज यहाँ आते समय अपने मनमें जबरदस्ती अति-उत्साह पैद करके आई थी, किन्तु उसका फल हुआ उल्टा ही । क्षणिक उत्तरना गमी अवसादमें परिणत हो गई । कुछ देर पहले हेमनलिनों जब इस घरमें घुसने लगी तो सहमा उसके मनको एक आशकाने आ घेरा । जीवनयात्राके जिस नवीन पथपर वह कदम रखनेको तयार हो रही है वह उसके सामने दूर तक फैल हुआ दुर्गम टेढ़ामेढ़ा शैलपय-सा प्रत्यक्ष हो उठा । और अब, सम्पूर्ण शिष्टालाप्ते अपने प्रति उसका अविश्वास उसीके मनको भीतर-ही-भीतर व्यथित करने लगा ऐसी हालतमें क्षेमद्वारीने जब विवाहके प्रस्तावको एक प्रकारसे वापस ले लिया, तो हेमनलिनीके मनमें दो तरहके परस्पर विरोधो भाव पैदा हो गये । विवाह-न्यूनमें जल्दसे जल्द बँधकर सशयमें झूलती हुई अपनी कमजोर अवस्थासे जल्दी है छुटकारा पानेकी इच्छा होनेसे उस प्रस्तावको वह शीघ्र ही पक्का कर डालन चाहती थी; और साथ ही, यहाँ जब उस बातको दबा दिया गया, तो फिलहाल उसने आराम भी महसूस किया ।

क्षेमद्वारीने बात कहके तुरत कन्खियोंसे हेमके चेहरेकी तरफ भी देख लिया । उन्हें ऐसा लगा कि मानो इतनो देर बाद हेमके चेहरेपर एक शान्तिके स्तिरवता उत्तर आई । इससे उनका मन उसी क्षण हेमनलिनीके प्रति विमुख हो उठा । उन्होंने मन-ही-मन कहा, ‘अपने नलिनको मैं इतने सस्तेमें छुट देने बैठो थी ।’ और, नलिनाक्ष जो आज घर लौटनेमें देर कर रहा है, इससे वे खुश ही हुईं । हेमनलिनीकी तरफ देखकर बोली—“देखो नलिनाक्षकी अकल । जानता है कि घरमें मेहमान आयेंगे, तो भो अभी तक लौटनेका नाम नहीं । आज कुछ कम ही काम करता । मेरी जरा-न्सी तबीयत खराब होते ही काम छोड़कर मेरे पास बना रहता है, आज ही ऐसा क्या नुकसान हो जाता ।” इतना कहकर वे कुछ देरके लिए वहसे छुट्टी लेकर रसोईको तैयारी देखने चली आई । उनको इच्छा है कि हेमको वे कमलाए भिजाकर खुर निरीद घृदसे धैठी बातें करें ।

रसोईमें जाकर उन्होंने देखा कि रसोई तैयार है, सब चीजें धीमी औचपर रखकर कमला एक कानेमें चुपचाप ऐसी गम्भीर होकर बंठो है मानो ढेरे

केतनी न चिन्ता हो । क्षेमद्वारीके आगमनसे सहसा वह चौंक पढ़ी । और दूसरे ही क्षण लज्जित होकर मुस्करातो हुई उठ खड़ी हुई । क्षेमद्वारीने कहा—“अरे । मैंने समझा था कि तुम रसोइके काममें बहुत ही व्यस्त होगी । हाँ तो सब तयार भी हो चुकी ।”

कमलाने कहा—“हाँ, मा, विलकुल तैयार है ।”

क्षेमद्वारीने कहा—“तो, यहाँ चुपचाप बैठी क्या कर रही हो ? अन्तदा गूँ बड़े बूढ़े आदमी हैं, उनके सामने निकलनेमें शरम काहेकी ? हेम आउ है, पने कमरेमें बुलाकर उससे तुम बातें करो । मैं बड़ी-बड़ी ठदरी, मेरे पास ठाकर उसे तकलीफ क्यों दूँ ?”

हेमनलिनीकी तरफसे मानसिक धक्का खाकर क्षेमद्वारीको कमलासे दूजा सौंदर्य गया । कमलाने सकोचके साथ कहा—“मा, मैं उनके साथ क्या बात खुला । वे पढ़ी-लिखी हैं ; और मैं कुछ भी नहीं जानती ।”

क्षेमद्वारीने कहा—“सो क्या हुआ ? तुम किसीसे कम योग्यी ही हो बेटी । दृ-लिखकर कोई कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाय, तुम्हारे सामने वह छुड़ भो ही हो । किताबें पढ़कर भभी विद्वान् ढो सकती हैं, पर तुमारी जैसी लड़मी-बेटी कितनी ही सकती हैं ! आओ बेटी । और हाँ, तुम जरा अच्छ कपड़े पहन न । चलो, आज तुम्हें मैं तुम्हारे लायक कपड़े पहनाऊंगी । आज तुम्हें अपने हाथसे सजाऊंगी, चलो गेरे कमरेमें ।”

भभी तरफसे क्षेमद्वारी आज हेमका गर्व चूर करनेको उद्यत हो रहीं । पर्में भी उसे वे इस अल्प-शिक्षिता लड़कीके आगे म्लान कर देना चाहती हैं । मलाको आपत्ति करनेका उन्होंने मौका ही नहीं दिया । अपने निषुण हाथोंसे मलाको पहना-उद्धाकर उन्होंने ऐसा बना दिया कि एन-भालकर वे चुद ही उके रप्पर सुख हो गड़े । अन्तमें अमलाका तुम्हका लेते हुए एनहरीने कहा—“याह ! यद्य रूप तो गजाके घर शोभा पाता ।”

बीच-बीचमें कमला धराधर फहरती रही कि ‘ना, बहुत देर हो रही है, मके पिताजी आपको राह देन रहे होंगे ।’ पर क्षेमद्वारीने उनार प्लान ही ही दिया, बोली, “देर राहें दो, आज मैं तुम्हें बिता गुग्गासे नहीं मनाऊंगी ।”

कमलाने उसको बातका स्पष्ट उत्तर न देकर कहा—“इस बातको तब जानती ही न थी, जीजी, कि पतिकी याद करनी पड़ती है। मैं जब चाढ़ घर आई, तब चचेरी बहन शशी-दीदीसे मेरा खूब मेल हो गया। वे अपतिकी इतनी सेवा करती थीं कि कुछ पूछो भत। उन्हें देखकर मुझे है आया। अपने पतिको मैंने कभी देखा ही नहीं समझो, फिर भी उनके मेरा हृदय-मन भक्षिसे कैसे भर गया, सो मैं नहीं कह सकती। भगवानने उस पूजाका फल दिया है, अब मेरे पति मेरे मनके सामने स्पष्ट होकर जग हैं, उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया तो न सही, पर मैंने उन्हें अब पा लिया है।”

कमलाको इन भक्ति-भरी बातोंको सुनकर हेमनलिनीका अन्तःकरण आद्र हो उठा, कुछ देर चुप रहकर उसने कहा—“तुम्हारी बातें मैं खूब सा रही हूँ, बहन। इस तरह पाना हो यथाथ पाना है। और-सब पाना लोग पाना है, वह रहता नहीं, नष्ट हो जाता है।”

इस बातको कमला पूरी तरह समझी या नहीं सो नहीं कहा जा सकत वह हेमके मुँहको तरफ देखती रही, और कुछ देर बाद बोली—“तुम कह रही हो, जीजी, सो ही सच होगा। मैं अपने मनमें किसी तरह दुःख नहीं आने देती, और इससे मैं अच्छी हो हूँ। मुझे जितना मिल वही मेरा लाभ है।”

हेमने कमलाका हाथ अपने हाथमें लेते हुए कहा—“जब भाग्य और ल विलकुल समान हो जाता है तभी वह यथार्थ लाभ होता है, यह बात मेरे गुरु कही हुई है। मैं सच कहती हूँ, बहन, तुमने अपना सर्वस्व अर्पण करके वे सार्थकता पाई है वैसी सार्थकता अगर मुझे मिल जाय, तो मैं धन्य हो जाऊँ।

कमला कुछ आश्चर्यमें पढ़ गई, बोली—“क्यों जीजी, तुम्हें तो मरह मिलेगा, तुम्हारे तो कोई कमी नहीं रहेगी।”

हेमने कहा—“जितना पाने-जसा पाना है, भगवान करें, उतना ही पा मैं सुखी हो सकूँ। उससे ज्यादा जितना भी मिलता है, उसमें वहा बोझ वहा दुःख है, बहन। मेरे मुँहसे ये सब बातें तुम्हें अद्भुत-सी मालूम हैं: नुइ मुझे भी ऐसी ही लगती हैं, किन्तु ये सब बातें भगवान मुझसे युल्ला-

हैं। तुम जानती नहीं वहन, आज मेरे मनपर कितना पोक्स लदा हुआ है। उम्हं पाकर आज मेरा हृदय हल्का हो गया। अब मुझे बल मिल जवा है, इसीसे इतना बड़ा रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ; तुम कैसे मेरे मनकी सब बातें खोचे ले रही हो, कुछ समझमें नहीं आता वहन।"

## ५६

क्षेमद्धरोके यहाँसे वापस आनेपर हेमनलिनीको अपनी टेब्लिपर एक चट्ठो मिली। लिफाकेपर रमेशके हाथके अक्षर देखकर हेमका हृदय धड़क गठा। वडकते हुए हृदयसे चिट्ठो उठाकर वह सीधो अपने सोनेके कमरेन्ह लगे गई, और भीतरसे दरखाजा बन्द करके चिट्ठो पढ़ने लगा।

चिट्ठोमें रमेशने कमलाके विषयमें सारी बातें शुहसे आलोर तक लिख दी हैं, और उपसहारमें लिखा है, "तुम्हारे साथ मेरे जिस बन्धनको रेखरने वृद्ध र दिया था, ससारने उसे तोड़ दिया। तुमने अब और-जिसीको चिन समर्पण र दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता, किन्तु तुम भी मैं दोष न देना। यद्यपि मैंने एक दिनके लिए भी कमलाके साथ त्रोजैसा अवहार नहीं किया, फिर भी कमशा उसने मेरे हृदयको आकर्षित करना शुहर दिया था, यह बात तुम्हारे सामने मुझे मजूर फरनी ही चाहिए। आज मेरा यह किस हालतमें हूँ, सो मैं निश्चित नहीं जानता। तुम अगर मुझे न लगतों तुम्हारे बन्दर में आथ्रग पा सकता था। मैं इसी आशाले अपना विभिन्न उत्त लेकर तुम्हारे पास दौड़ा आया था। किन्तु आज जब सब देखा कि तुम मुझे घुणा करके मुझसे विसुल होकर चली गई, और, किसीके सुरुचि जब तो कि तुमने और किसीके साथ अपने व्याहकी सम्मति दे दी है, तफ भंगा भी न दीक्षाडौल हो उठा। देखा, अभी तक कमलाको पूरी तरह मैं भूल नहीं पाया हूँ। भूल या न भूल, इससे ससारमें मेरे मिथा और-चिसीको कोई भी द्वापान नहीं। और मेरा भी ऐसा क्या गुरुसान है। ससारमें जिन दंग मिलती हैं मैं अपने हृदयमें प्रह्ल फर सजा रूँ। उन्हें भूलनेकी दृष्टि सुनने नहीं है, उन्हें चिरञ्जीव याद रखना ही मेरे जीवनका परम तार है। अगर उन्हें

जब तुम्हारे क्षणिक साक्षातसे विजलीकी-सी चोट खाकर वापस आया, तो एक बार मेरे मुँहसे निकल पड़ा, ‘मैं अभागा हूँ।’ पर अब मैं इस बातको मानता। मैं सरल चित्तसे आनन्दके साथ तुमसे दूर हट जाऊंगा। तुम कृपासे, विधाताके आशीर्वादिसे, इस विदाके समयमें मैं अपने अन्तकरणमें जरा दीनता अनुभव न करूँ, वस, इतना ही मेरे लिए काफी है। तुम सुखो हो तुम्हारा मन्नल हो। सुझसे तुम घृणा न करना। सुझसे घृणा करनेका भी कारण नहीं है।”

अननदा बाबू कुरसीपर बैठे किताब पढ़ रहे थे। सहसा हेमको देख चौंक पड़े, बोले—“हेम, तुम्हारी क्या तबीयत खराब है?”

हेमने कहा—“नहीं तो। बापूजी, रमेश बाबूने एक चिट्ठी लिखी है। लो, पढ़ उक्कनेके बाद मुझे वापस दे देना।” और चिट्ठी देकर वह चली ग

अननदा बाबूने चरमा लगाकर दो बार चिट्ठी पढ़ डाली। उसके बाद ही पास उसे वापस भेजकर बैठे-बैठे सोचने लगे। सोच-विचारकर अन्तमें उन तय किया कि ‘यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ। पात्रकी दृष्टिसे रमेशकी ओं नलिनाक्ष कहीं ज्यादा अच्छा है। क्षेत्रसे रमेश अपने-आप ही चला गया, अच्छा ही हुआ।’ ये सब बातें सोच ही रहे थे कि डतनेमें नलिनाक्ष पहुँचा। उसे देखकर अननदा बाबू कुछ आश्वर्यमें पढ़ गये। इसके पहले व देर तक वे उनके यहाँ थे, अभी-अभी आये हैं, फिर इतनी जल्दी ऐसा काम आ पड़ा जिससे नलिनाक्षको यहाँ आना पड़ा? गृद्ध पिता अन्तमें सोचकर कि ‘हेमका आर्कषण ही नलिनाक्षको यहाँ तक खींच लाया है’, भी ही भीतर बहुत चुश हुए। हेमसे मिलनेका उसे मौका देनेके लिए वे उठ कहीं जाना ही चाहते थे कि नलिनाक्ष कह उठा—“अननदा बाबू, मेरे स आपकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव चल रहा है। बात ज्यादा आगे बढ़नेके पास मुझे जो-कुछ कहना है, भो कह देना चाहता हूँ।”

अननदा—“हाँ हाँ, सो तो कहना ही चाहिए।”

नलिन—“आपको यह मालूम है कि मेरा पहले ही व्याह हो चुका है।

अननदा—“मालूम है। पर वो तो—”

नलिन—“आपको मालूम है, ताज्जुब़ी का बात है। पर आप जो अनुमान कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, इस बातका निधय क्या? निधिन हमसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मेरा तो विश्वास है कि वह अभी तक जीवित है।” अनन्दा—“ईश्वर करें तुम्हारी बात मन हो। हेम, हेम!”

हेम—“बापूजी।”

अनन्दा—“रमेशने जो तुम्हें चिट्ठी लिखी है, उसमें एक जगह जढ़ा—”

हेमने पूरी चिट्ठी ही नलिनाक्षके हाथमें देते हुए कहा—“यह चिट्ठी इन्दै पूरी पढ़ लेनी चाहिए।” और फिर वह बदौसे चली गई।

पूरी चिट्ठी पढ़कर नलिनाक्ष सब्ज़ रह गया। उसे स्तव्य बठा देरा अनन्दा आवृ बोले—“ऐसो जोचनीय दुर्घटना संसारमें यहुत कम होती है। आपको चिट्ठी दिखाकर काफी चोट पहुँचाइ गई; किन्तु इस इसे छिपा भी तो नहीं सकते थे। इसका छिपाना हमारे तर्ह अन्याय होता।”

नलिनाक्ष कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर अनन्दा आवृसे विद्या लेकर चल दिया। जाते समय उत्तरके घरणेके पास ही उसने हेमनलिनीजो देखा। देखकर उसके दृश्यपर चोट पहुँची। मोचने लगा, ‘यह जो नारी यही स्तव्य रखी हुई है, इसको स्थिर-शान्त मूर्ति इसके अन्तःकरणको क्से बदन फर रही है? इन क्षणोंमें इसका मन झ्या कर रहा है, ठोक तौरसे इसका अन्द्राज लगानेका कोइ उपाय नहीं। नलिनाक्षकी उसे आकर्ष्यक्ता है या नहीं, उससे पूछा भी नहीं जा सकता, और उषका उत्तर मिलना भी कठिन है। नलिनाक्षना पीड़ित चित्त मोचने लगा, ‘इसे रिसी तरह सान्त्वना दी जा सकती है या नहीं? लेकिन, आदमी आदमीमें छिपना कुर्मेय अवधान है। आदमीका मन क्सा भयानकरहस्यसे अड़ेला है।

नलिनाक्ष जरा धूमक्त घरणेके मामनेमें जाकर गाढ़ीमें चढ़ना चाहता था। उसने मोचा भा कि हेमनलिनी शायद उससे कोई बात पूछे, इन्तु यद यह घरणेके सामने पहुँचा, तो देनां छि ऐन यहाँ है ही नहीं। ऐससे याप दृश्यका नामात् सदृज नहीं, मनुष्यके गाथ मनुष्यका मनुष्य नहीं, नह सोचता-हुआ नलिनाक्ष भारी मन निये हुए गाढ़ीमें रूठ गया।

नलिनाक्षके जानके बाद योगेन्द्र आ गया। अनन्दा बाबूने उससे पूछा—  
“तुम क्ये कैसे ?”

योगेन्द्रने कहा—“दूसरे और किसको उम्मोद करते हो ?”

अनन्दा—“क्यों, रमेश ?”

योगेन्द्र—“पहले दिनकी अभ्यर्थना ही क्या उसके लिए काफी नहीं थी ? काशीकी गङ्गामें छूटकर अगर उसे मोक्ष न मिलो हो, तो और-क्या हुआ होगा मैं निश्चित नहीं जानता। कलसे अब तक उसका पता नहीं, टेबिलपर एक चित पढ़ी है, उसपर लिखा है, ‘भागता हूँ। तुम्हारा रमेश’। इस तरहका कवित मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए मुझे भी यहसे भागना पड़ेगा। मेरे हेड-मास्टरी इससे कहीं अच्छी ! उसमें सब-कुछ यिलकुल स्पष्ट है, धुँधलाफ जरा भी नहीं ।”

अनन्दा—“हेमके लिए तो कुछ—”

योगेन्द्र—“अब फिर मुझे क्यां लपेट रहे हो ? मैं बार-बार स्थिर करते रहूँ और तुमलोग अध्यिर करते रहो, यह खेल उपादा दिन नहीं अच्छा लगता मुझे अब किसी भी बातमें भत लपेटो ; जिस विषयको मैं अच्छी तरह समझत नहीं, वह मेरे लिए माफिक नहीं आता। महसा दुर्बोध्य हो जानेकी जो अद्भुत शक्ति हेममें है, उससे मेरो अक्ल खराब हो जाती है। कल सर्वेरेकी गाड़ीमें चला जाऊँगा। रास्तेमें वाँकीपुर मुझे जरा काम है ।”

अनन्दा बाबू कुछ जवाब न दे सके, चुपचाप बंटे हुए अपने माथेपर हाथ करते रहे। उनकी पारिवारिक समस्या मिर दुर्वह हो उठी।

## ६०

शशिमुखी और उसके पिता नलिनाक्षके घर आये हैं। शशी कमलाके साथ कोनेके कमरेमें बैठी चुपचाप कुछ बतार रही थी ; और चक्करतीं द्वेषमूर्तीं साथ आय बात कर रहे थे। चक्करतीं योले—“मेरी तो छुटियां सतम हो जलीं। कल ही गाजीपुरके लिए रवाना होना पड़ेगा। इरिदासीने आपलोगोंको अगर किसी तरहसे परेशान किया हो, या—”

क्षेमद्वारी—“अब यह आप कैसी बातें कर रहे हैं चक्रवर्तीजी ? आप क्या कोई बहाना निकालकर अपनी लड़कीको बापस ले जाना चाहते हैं ?”

चक्रवर्ती—“मुझे आप ऐसा आदमी न समझिये, मैं देकर बापस लेनेवाला नहीं ! मैं तो यह कह रहा था कि अगर आपको कोई असुविधा या—”

क्षेमद्वारी—“यह तो आपकी सरल बात नहीं हुई । आप अपने मनमें सूख अच्छी तरह समझते हैं कि हरिदामो जैसी लड़मो-विट्ठियाँ को पाग रखनेमें किसीको असुविधा हो ही नहीं सकती, फिर भी—”

चक्रवर्ती—“बस वस, अब कुछ मत कहिये, मैं पकड़ा गया । और कुछ नहीं, आपके मुँहसे लड़कीको जरा तारीफ सुननी थी । पर एक चिन्ता है, नलिन बाबू कहीं रायाल न कर चेंटे कि उनके घरमें यह नया उपसर्ग कहाने था गया । हमारी लड़की घड़ी अभिमानिनी है, अगर उसे नलिनाजकी तरफसे जरा भी रपेक्षा या विरक्तिका भाव मालूम हुआ, तो उससे सहना सुनिकल हो जाएगा ।”

क्षेमद्वारी—“राम भजिये ! नलिनने ये सब बातें सीखो ही नहीं ।”

चक्रवर्ती—“सो ठीक थात है । पर देखिये, हरिदामीको मैं अपने प्राणोंसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीसे उसके मम्बन्वमें मैं कममें सन्तुष्ट नहीं हो सकता । मैं चाहता हूँ, जब कि आपके पर ही उसे रहना है, तो नलिनारुपने अपना समझकर स्नेह करें, नहीं तो, वह मनमें बश सँडोच अनुभव करेगी । अस्तिर वह दीवार तो ऐ नहीं, आदमी है, घरके नव-कोडे उसने—”

क्षेमद्वारी—“चक्रवर्तीजी, आप ज्यादा सोचिये यहीं । मेरे नलिनमें ये सब गुण स्वभावमें ही मौजूद हैं । बारहमे छुट कहता-सुनता नहीं वह, देखिन भीतर-दो-भीतर सबके सुग-दुःख और सुविधा-अनुभियाँके बारेमें नोचता रहता है, और भीतर-दो-भीतर उसके लिए इन्तजाम भी करता रहता है । जगह उसे हरिदामीके विद्यमें चिन्ता होगी कि उसे क्या पन्नट है, क्या चाहिए, क्योंकि वह आरामसे रह सकती है, और भीतर-दो-भीतर वह इसका इन्तजाम भी कर रहा होगा । हमें थोड़े ही मालूम होने देगा ।”

चक्रवर्ती—“आपकी बात सुनकर निखिल हुआ । किरणी इसके परते नलिनाके साथूसे नाम तौरपे एकआरु बात कह जाना चाहता है । एक श्वीरा

सम्पूर्ण भार ले सकें, ऐसे पुरुष ससारमें बहुत कम ही मिलेंगे। भगवानने नलिनाक्ष वावूको जब कि वैसा यथार्थ पौरुष दे रखा है, तो वे भूठे सद्गुच्छमें हरिदासीको अपनेसे दूर रखकर न चलें, यथार्थ आत्मीय समझकर ही उसे अत्यन्त सहज भावसे ग्रहण करें और रक्षा करें, भगवानसे मेरी यही प्रार्थना है।”

नलिनाक्षके प्रति चक्रवर्तीके इस विश्वासको देखकर क्षेमद्वारीका मन विगलित हो उठा। उन्होंने कहा—“कहीं आपको किसी तरहका ख्याल न हो, इस डरसे में हरिदासीको नलिनाक्षके सामने ज्यादा निकलने नहीं देती। पर, अपने लड़केको मैं जानती हूँ, उसपर विश्वास करके आप निश्चिन्त हो सकते हैं।”

चक्रवर्ती—“तो आपसे मैं सब बातें खुलासा ही कहे देता हूँ। सुना है, नलिनाक्ष वावूसे जिस लड़कीकी सगाईको बातचीत चल रही है, उसकी उमर भी शायद कम नहीं, और शिक्षा-दीक्षा भी हमारे समाजसे नहीं मिलती। इसीसे सोच रहा था कि शायद हरिदासीका—”

क्षेमद्वारी—“सो क्या मैं नहीं समझती। जहर तय सोचना पছता। लेकिन वह सगाई मैंने छोड़ दी।”

चक्रवर्ती—“छोड़ दी?”

क्षेमद्वारी—“हाँ। वात चल रही थी, मैं ही ज्यादा जिद कर रही थी, नलिनाक्ष तो नहीं चाहता था। पर मैंने अपनी जिद छोड़ दी। जो होनेका नहीं, उसे जबरदस्ती करनेसे मान्यल नहीं होता। भगवान ही जानें, मरनेके पछले मैं बहूका मुह देख पाऊँगी या नहीं।”

चक्रवर्ती—“ऐसो बात न कहिये। फिर हमलोग हैं किस लिए? घटक-विदाई और मीठा वसूल किये बिना हम आपको छोड़ सकते हैं भला?”

क्षेमद्वारी—“आपके मुँहपर फूल-चन्दन पढ़े चक्रवर्तीजी! मेरे मनमें इस बातका बड़ा दुःख है कि नलिन उम उमरमें मेरे ही लिए गृहस्थ-वर्ममें नहीं प्रवश कर सका। इसीसे मैं अत्यन्त व्यस्त होकर सब बातोंका विचार किये बिना ही सगाई पक्षी करनेको तयार हो गई थी। पर अब मैं तो आशा छोड़ चुकी, आप ही कोई व्यवस्था कर दीजिये तो ठीक है। पर देर न कीजियेगा, मैं ज्यादा टिन नहीं जीऊँगी।”

चक्रती—“ऐसी बातें सुनता कौन है आपकी । आपको जीना ही पड़ेगा, और बहूका मुह देखना ही होगा । आपको जैसी नहूं चाहिए, मुरे मालूम हैं । निहायत छोटी होनेसे भी काम नहीं चलेगा ; आपको तो ऐसी तरह चाहिए जो-कुछ बढ़ी हो, आपकी भक्ति-श्रद्धा कर सके, सेवा कर सके, घर समृद्ध रहे । नहीं तो हमें भी पसन्द नहीं आयेगा । सो, अब आ इस विषयमें जरा नो चिन्ता न करें । इश्वरकी कृपासे मम-कुछ हुआ पढ़ा है, समझिये । अब, अगर आप आज्ञा दें, तो हरिदासीको जरा उसके कर्तव्यके सम्बन्धमें दो चार ढारेश उ आऊं ; और शशीको भी आपके पास भेज दू । आपको देखतेके लिए नहूं तो आपकी ही बातें करते-करते बाबली हुई जा रही हैं ।”

क्षेमद्वारी—“नहीं, आप तीनों जने एक घरमें जाकर बैठिये । इतनेमें, मुरे जरा काम है सो कर लूं ।”

चक्रती हँसते हुए बोले—“जगतमें आपलोगोंको काम यता ही रहता है, इसीमें तो हमारा कायाण है । कामका परिचय गयानमय अवदार ही मिलेगा, इसका सुखे पूरा भरोसा है । नलिनाथ बाबूको बवके इत्याणमें नान्दनने भाग्यमें मिटानकी धूम शुरू हो ।”

चक्रतीने शशिमुखी और कमलाके पास जाकर देना, कमलाकी दीनों औलों औसुओंसे छलछला रही है । चक्रती शशीके पास बैठकर नूपनाम उमके सुँदरकी तरफ देताने लगे । शशीने कहा—“बापूजी, कमलासे मैं कह रही थी कि नलिनाथ बाबूसे सब बातें खोलकर कहनेका अव समय आ गया है । यह, उसी बातपर तुम्हारी गूरुत्व हरिगिरी सुझमे भगदा कर रही है ।”

कमला बोल उठी—“नहीं दीदी, नहीं, तुम्हारे पांचों पात्री हैं, तुम ऐसी चात गुँदपर न लाओ । ऐमा हरगिज नहों हो नस्ता ।”

शशीने कहा—“बाह ने तेरी युद्धि ! तू चुर यनी रद, और नार तेसमें उनका च्याह हो जाय । च्याहके दूसरे ही दिन्से आठ तक तो पराकर इतनी-इतनी दुर्घटनाओंमें चाह नाती फिरो, अब फिर एह नदे आह भोले ले ले, तो जिन्दगी-भर रोती रहे ।”

कमलाने कहा—“श्रीदी, मेरी चात फिरीमें भी फटनेहो नहीं है । गुम्बे-

यह नहीं सहा जायगा, शरम के मारे मर जाऊँगी मैं। मैं जैसे हूँ, बहुत अच्छी हूँ; मुझे कोई दुःख नहीं। सब घात कह दोगी तो फिर मैं यहाँ कैसे किसीको मुझ दिखा सकूँगो, फिर कैसे इस घरमें रह सकूँगो? फिर मैं जीऊँगो कैसे?"

शशिमुखी उसकी वातका कुछ जवाब न दे सको। किन्तु इससे क्या, जान-नृमध्यर वह कैसे हेमसे नलिनाक्षका व्याह हो जाने दे। उसके लिए चुपचाप तमाशा देखते रहना बिलकुल असम्भव है।

चक्रवर्तीने कहा—“जिस व्याहकी वात चल रही है, वह होकर ही रहेगा, ऐसी क्या बात है?”

शशी—“तुम क्या कह रहे हो वापूजी! नलिनाक्ष बावूकी मा हेमकी आशीर्वाद कर आई हैं उनके घर जाकर!”

चक्रवर्ती—“वासा विश्वनाथके आशीर्वादसे उस आशीर्वादिका बोचमें ही दस टट चुका है। वेटो कमला, अब तुम्हें किसी वातका डर नहीं, धर्म तुम्हारा चहाय है।” कमला साफ-साफ समझ न सकी, और अखिं फाढ़के चाचाजी तरफ देरती रही। चाचाने कहा—“हेमसे अब व्याह नहों होगा, सगाई छोड़ दी। नलिनाक्ष बावूकी भी इच्छा नहीं थी, और उनको माझो भी छुवुद्धि आ गई।”

शशिमुखी मारे चुशीके फूली न समाई, बोली—“जान बचो और लाखों पांचे। बाप रे बाप, कल जैसे ही मैंने सुना, मेरा तो जो उड़ गया। रात-भर नीद नहीं आई। हाँ तो, अब यह बताओ, कमला क्या अपने घरमें हमेशा इसी तरह रहा करेगी? क्य सब साफ होगा?”

चक्रवर्ती—“चमल मत हो री शशी, चमल मत हो। जब ठीक समय आयेगा तब यह सहज हो जायगा।”

कमला—“अभी जो हुआ है, वही सहज है। इससे ज्यादा सहज और कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे इससे ज्यादा सुखी करनेमें कहीं ऐसा न हो जाय कि जो है उससे भी रह जाऊँ। चाचाजी, मैं तुम्हारे पांचे पढ़नी हूँ, तूम किसीसे भी कुछ मत कहो। मुझे अब घरके एक कोनेमें टालकर मेरी वातको बिलकुल ही भूल जाओ। मैं तूष्ण सुन्नमें हूँ।” कहते-कहते कमलाकी दोनों आंखोंसे भरमर औसू भरने लगे।

चक्रवर्तीं चश्चल हो उठे, बोले—“यह क्या वेटी, रोती क्यों हो ? तुम जो कह रही हो, सो मैं खूब समझ रहा हूँ। तुम्हारी इस शनितमें क्या हम हाथ ढाल सकते हैं ! बिवाता खुद ही जो धीरे-धीरे कर रहे हैं, हम मूखौकी तरह उसके बीचमें पड़कर क्या उसे कभी बिगाढ़ सकते हैं ? हरगिज नहीं। तुम्हें कोई ढर नहीं ! मेरी इतनो उमर हो गई, मैंने क्या काम पढ़नेपर स्थिर रहना भी नहीं सीखा !”

इतनेमें ओठोंसे लेकर कान तक हँसता हुआ उमेश आ पहुँचा। चचाने कहा—“क्या रे उमेश, क्या ख्वर ?” उमेशने कहा—“रमेश बाबू नीचे खड़े हैं, डाक्टर बाबूके बारेमें पूछ रहे हैं।”

कमलाका चेहरा सफेद-फक पड़ गया। चचा जल्दीसे उठ खड़े हुए, और बोले—“दरो मत वेटी, मैं सब ठीक किये देता हूँ।”

नोचे जाकर चचाने रमेशका हाथ पकड़कर कहा—“आइये रमेश बाबू, सङ्कपर टहलते हुए आपसे कुछ बात करनी है।”

रमेश चचाको ढेखकर दग रह गया, बोला—“आप यहाँ कहाँ ?”

चचाने कहा—“आपके लिए ही आना पढ़ा। भैट हो गई, बड़ा अच्छा हुआ। आइये, देर न कोजिये, कामको बात कर ली जाय।”—कहते हुए वे रमेशको कुछ दूर ले गये, और बोले—“रमेश बाबू, आप डाक्टरके पास कैसे आये ?”

रमेश—“नलिनाक्ष डाक्टरसे मुझे काम है। कमलाकी बात उन्हे छुरूसे आखीर तक कह देनेका मैंने निश्चय किया है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि कमला अभी तक जिन्दा है।”

चचा—“अगर कमला जिन्दा ही हो और नलिनाक्षके साथ उसकी भैट हो भी जाय, तो क्या आपके सुँहसे उसका इतिहास सुनकर नलिनाक्षको कोई खास लाभ होगा ? उनकी बूढ़ी माहें, उन्हें ये सब बातें मालूम हो जानेपर कमलाके लिए क्या वह अच्छा होगा ?”

रमेश—“सामाजिक दृष्टिसे क्या फल होगा, मैं नहीं कह सकता। किन्तु कमलाको किसी अपराधने छुआ तक नहीं, यह बात नलिनाक्षको मालूम हो

जाना चाहिए। कमलाकी यदि मृत्यु भी हो गई हो, तो भी नलिनाश उसको स्मृतिज्ञा तो सम्मान कर सकेंगे।”

चचा—“आपको ये सब नये जमानेकी बातें मेरी कुछ समझमें नहीं आतीं। कमला अगर मर ही गई हो, तो उसके पतिके लिए उसको एक रातकी स्मृतिको लेकर खोचातानी करनेकी क्या जहरत? लुनिये, वो जो मकान दीख रहा है, वहीं मैं ठहरा हुआ हूँ। कल सबेरे अगर आप आ सकें, तो आपको मैं सब बातें साफ-साफ चताऊँगा। लेकिन उसके पहले आप नलिनाश घावूसे न मिलियेगा, इतना मेरा अनुरोध है।”

रमेश “अच्छा” कहकर चला गया।

चचा बापस आकर कमलासे घोले—“वेटी, कल सबेरे तुम्हें मेरे यहाँ जाना होगा। वहाँ तुम तुद रमेशबाबूको सब बात समझा देना।” कमला सिर तुकड़ाये खड़ी रही। चचा कहने लगे—“मैंने यहाँ ठीक समझा। और मैं निधित जानता हूँ, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इस जमानेके लड़कोंको कर्तव्य-शुद्धि पुराने जमानेकी बात नहीं सुनती। वेटी, मनसे सङ्गोचको बिलकुल निकाल फेंको। अब तुम्हारा जहाँ अधिकार है, दूसरे किसीको वहाँ पदार्पण नहीं करने देना चाहिए। यह तो तुम्हारा ही कर्तव्य है। इस विषयमें मेरा जोर नहीं चल सकता।” कमला फिर भी चुप रही। चचा कहने लगे—“वेटी, बहुत-कुछ नाफ हो गया है, अब इस बचेगुचे कूटे-करकटको माझ-पौछकर बिलकुल साफ करनेमें किसी तरहका सङ्गोच मत करना।”

इतनेमें किसीके आनेकी आहट सुनकर कमलाने मुंह उठाकर दरवाजेको तरफ देखा तो, नलिनाश। एकदम उनको धीरोंपर ही नलिनाशको अर्ति पढ़ गई। और, दूसरे दिन नलिनाश जंसे चटसे दृष्टि फेरकर चला जाता है, आज उसने वेसी जल्दी नहीं की। यद्यपि क्षण-भरके लिए उसने कमलाके मुँहसे तरफ देखा था, किन्तु उसकी उम क्षण-भरकी दृष्टिने कमलाके मुँहसे न-जाने क्या बसूल कर लिया। और-दिनकी तरह उसने धनविकारके सङ्गोचसे देखनेहो चाजको प्रलग्नन्तान नहीं किया। दूसरे ही क्षण शशीको देखकर यह जानेको तैयार हुआ तो चराने कहा—“नलिनाशबाबू, भागिये मत। आप हमारे आपने ही आशमी

हैं। यह मेरी लड़की है शशिमुखी, इसीको लड़कोंका आपने इलाज किया था।" शशीने नलिनाथको नमस्कार किया, और नलिनाथने प्रतिनमस्कार करके पूछा— "आपको लड़की अब अच्छो तरह है?" शशीने कहा—"हाँ, अब ठोक है।"

चचाने कहा—"आपको जी भरकर देख सकूँ इतना मौका तो आप देते नहों हैं, अब जब आ हो गये हैं तो जरा बैठिये।"

नलिनाथको बिठाकर चचाने पीछे सुइकर देखा कि कमला वहाँसे गायब है। नलिनाथकी उस क्षणिक दृष्टिको लेकर कमला अपने पुलकित मनको सम्हालनेके लिए अपने कमरमें चलो गई है।

इतनेमें क्षेमङ्करोने आकर कहा—"चक्रवर्तीजो, अब जरा तकलीफ करनी होगी।" चक्रवर्तीने कहा—"जबसे आप कामसे गई हैं, तभीसे इस तकलीफके लिए मैं तैयार बैठा हूँ।"

खा-पीकर चक्रवर्ती बैठकमे आकर बोले—"जरा बैठिये, मैं अभी आया।" इतना कहकर वे चले गये, और धोङ्गोदेरमें कमलाका हाथ पकड़कर उसे नलिनाथ और क्षेमङ्करोके सामने खड़ा कर दिया। पीछेसे शशिमुखी भी आ गई।

चक्रवर्तीने कहा—"नलिनाथ वाबू, आप हमारी हरिदासीको गैर समझकर सङ्कोच न किया कीजिये। इस दुःखिनीको आपके ही घर छोड़े जाता हूँ, इसे आपलोग पूरी तरह अपना बना लीजिये। इसे और-कुछ नहीं चाहिए, आप लोगोंको सेवा करनेका अधिकार-भर इसे मिल जाय, तो यह बहुत खुश रहेगी। इतना आप निश्चय समझिये कि आपलोगोंके समक्ष यह ज्ञान-पूर्वक अपराधिनी कभी न बनेगी।"

कमलाका चेहरा मारे शरमके सुर्ख हो उठा, वह सिर मुकाये चुपचाप खड़ी रहो। क्षेमङ्करोने कहा—"चक्रवर्तीजो, आप जरा भी चिन्ता न करें, हरिदासी हमारे घर लड़कोसे बढ़कर रहेगो। किसी भी कामका भार इसे देना नहीं पड़ा, खुद ही इसने सारी घर-गृहस्थी सम्हाल ली है। भण्डारघरमें आज तक मेरा ही शासन चलता था, अब मैं वहाँकी कोई भी नहीं रही। नौकर-चाकर भी अब मुझे घरको मालिकिन नहीं समझते। कैसे धीरे-धीरे मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं कुछ जान ही न सकी। मेरी कुछ चाभियाँ थीं, उन्हे भी हरिदासीने

बड़ो चतुराईके साथ हडप 'लों। अब आप ही बताइये, चक्रवर्तीं साहब, आपको इस डाकू लड़कीके लिए आप और क्या चाहते हैं? अब सबसे बड़ी ढैकती तो यह होगी कि आप इसे अपने घर ले जानेकी सोचें।'

चक्रवर्तीने कहा—“मान लीजिये, मैंने कह भी दिया, तो क्या आप समझती हैं यह लड़की यहाँसे हिलेगी? इसका आप खयाल ही छोड़ दीजिये। इसे आपलोगोंने ऐसा वशमें कर लिया है कि आज यह आपलोगोंके सिवा दुनियामें और-किसीको जानती हो नहीं! अपने दुखों जीवनमें इतने दिन बाद इसे आपके घर ही शान्ति मिली है। भगवान उसकी इस शान्तिको निर्विन्न रखें, आपलोग हमेशा इसपर प्रसन्न रहें, हम इसे यही आशीर्वाद देते हैं।” कहते-कहते चक्रवर्तीकी आँखें भर आईं। नलिनाक्ष स्तब्ध बैठा चक्रवर्तीकी बातें सुन रहा था। जब सब विदा हो गये तब धीरेसे उठकर वह अपने कमरेमें चला गया। तब शीतकृष्णके सूर्यास्त-कालने अपने सम्पूर्ण शयनगृहको नवविवाहकी रक्षिम छटासे रंजित कर दिया था। उस रक्षिम आभाने नलिनाक्षके रोम-रोममें भिद-भिदकर उसके अन्तःकरणको रगीन बना दिया।

आज सवेरे नलिनाक्षके एक बनारसी मित्रने गुलाबकी एक टोकनी भेजी थी। घर सजानेके लिए क्षेमद्वाराने वह टोकनी कमलाको सौंप दी। नलिनाक्षके कमरेमें कमला एक फूलदानीमें गुलाब सजाकर रख गई थी। कमरेमें घुसते ही नलिनाक्षके मस्तिष्कमें उन फूलोंकी सुगन्ध समा गई। उस निस्तब्ध शयनगृहके बातायनमें आरक्ष सध्याके साथ गुलाबकी सुगन्धने मिलकर नलिनाक्षके मनको विहूल कर दिया। आज तक नलिनाक्षकी दुनियामें चारों तरफ सयमको शान्ति और ज्ञानकी गम्भीरता ही थी, आज वहाँ सहसा नाना सुरोंमें ऐसी नौबत कहाँसे बज उठी, और किस अदृश्य-नृत्यके पदक्षेप और नूपुर-मङ्गारसे आज आकाशतल ऐसा चञ्चल हो उठा, कौन जाने! नलिनाक्ष खिड़कीके पाससे लौटकर कमरेके भीतर चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा, उसके बिस्तरके सिरहानेके पास आलेमें बहुतसे गुलाबके फूल सजे हुए रखे हैं। और वे फूल न-जाने किसको आँखोंकी तरह उसके सुँहकी तरफ देख रहे हैं और नीरव आत्मनिवेदनको तरह उसके हृदयके द्वारपर नम्र हुए जा रहे हैं। नलिनाक्षने उनमेंसे एक फूल उठा

लिया। वह पक्के सोनेके रगका पीला गुलाब है, अभी उसकी पंखदियाँ नहीं खुलीं, किन्तु उससे अपनी सुगन्ध छिपते नहीं बनता। उस गुलाबको हाथमें लेते ही मानो किसीको उँगलियोंने उसे छू लिया, और उसकी नस-नसमें उसने सगीतकी एक झड़ार-सी पैदा कर दी। नलिनाक्ष उस स्निग्ध कोमल फूलको अपने मुँह और आँखोंपर फेरने लगा।

देखते-देखते सध्याकाशसे सूर्यास्तकी आभा बिलीन हो गई। नलिनाक्षने कमरेसे बाहर निकलनेके पहले एक बार अपने विस्तरके पास जाकर बिछौनेके आवरणको उठाया। और उस फूलको तकियेपर रख दिया। फूल रखकर वह बाहर निकलना ही चाहता था कि इतनेमें उसने देखा, पलगके पीछे शरमके मारे सिकुड़ी हुई, आँचलसे मुँह ढके, कोई ऐसे बेठी हुई है मानो जमीनमें कहीं जरा-सी सेव मिले तो वह घुस जाय। हाय री लज्जा, कमलाके सिवा और कोई मिला हो नहीं ससारमें। योड़ी देर पहले कमला आलेमें गुलाब सजाकर अपने हाथसे नलिनाक्षके विस्तर करके कमरेसे बाहर निकल रही थी, इतनेमें सहसा नलिनाक्षकी पगध्वनि सुनकर तुरत वह विस्तरके पीछे जा छुपी थी। अब उसके लिए भागना भी असम्भव हो गया और छुपना भी कठिन हो गया। आज वह अपनी ढेरकी ढेर लज्जाके साथ चोरको तरह हाथो-हाथ पकड़ी गई।

नलिनाक्षने इस लज्जिताको सुक्षि देनेके लिए जल्दीसे बाहर निकल जाना चाहा, किन्तु दरवाजे तक जाकर वह ठिठककर खड़ा हो गया। कुछ देर तक खड़ा-खड़ा क्या-तो सोचता रहा, फिर धीरे-धीरे लौटकर कमलाके पास जा रहा हुआ, बोला—“तुम उठो! तुम्हें मुझसे शरमानेकी कोई जरूरत नहीं।”

## ६९

दूसरे दिन, सबके सब चचाके घर हाजिर हुए। जरा एकान्त मिलते ही कमला शशोके गले लिपट गई। शशीने उसकी ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए कहा—“क्यों वहन, आज इतनी खुशी किस बातकी?”

कमलाने कहा—“सो मैं नहीं जानती, दीदो, पर मुझे मालूम होता है मानो मेरे जीवनका सारा बोझ दूर हो गया है।”

शशी—“बता तो सही, सब बात मुझसे तो खुलासा कह दे ! कल तब तो कोई बात नहीं थी, आज क्या हो गया ?”

कमला—“ऐसी कोई खास बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पा गई हूँ, भगवानने मुझपर दया की है !”

शशी—“भगवान करें ऐसा ही हो ! पर मुझसे कोई बात छिपा मत ?”

कमला—“छिपानेको मेरे पास कुछ नहीं, बहन, पर क्या कहूँ सो समझे नहीं आता । रात बीतते ही सवेरे उठकर ऐसा मालूम हुआ कि अब मेरा जीवन सार्थक हो गया । मेरा दिन इतना मीठा, और काम-काज इतना हल्का हो गय कि मैं कुछ कह नहीं सकती । मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती । मुझे सिर्फ इस बातका ढर लगा रहता है कि कहीं कोई विश्व न आ जाय, कहीं कुछ विघट न जाय । अपने भाग्यपर मेरा विश्वास नहीं होता कि रोज ऐसे ही दिन बीतते जायेंगे ।”

शशी—“अरी पगली, मैं तुझसे कहती हूँ, अब भाग्य तुझे जरा भ धोखा न देगा । बल्कि तेरा जो-कुछ लेना है उसे चुका देगा, समझी !”

कमला—“नहीं नहीं, दीदी, ऐसी बात न कहो । मेरा सब पावन उसने चुका दिया । मैं विधाताको कभी दोष नहीं देती । अब मेरे किसी बातकी कमी नहीं ।”

इतनेमें चचाने आकर कहा—“बेटी, तुम एक बार बाहर तो चलो रमेश बाबू आये हैं ।” चचा अब तक रमेशसे ही बात कर रहे थे । वे उसने कह रहे थे, “आपका कमलाके साथ क्या सम्बन्ध है सो मैं जानता हूँ । अब आपसे मेरी यह सलाह है कि आपके जीवनमें अब कोई ‘उलझन’ नहीं, आपक भविष्य बिलकुल साफ है, अब आप कमलाका प्रसङ्ग बिलकुल ही त्याग दीजिये कमलाके बारेमें अगर कहीं कोई गाँठ बाको रह गई हो, तो उसके खोलनेक भार विधातापर छोड़ दीजिये, आप अब उसमें हाथ न लगाइये ।” रमेशने जवाबमें कहा था, “कमलाके सम्बन्धमें सारी बातें सम्पूर्णरूपसे तभी छोड़ी जा सकती हैं जब मैं नलिनाक्षसे सारी घटना कह दूँ, इसके बिना मेरी निष्कृति हो ही नहीं सकती । इस दुनियामें कमलाकी बात छेड़नेको जल्दत गायद अब बिलकुल ही

नहीं होगी, और हो तो हो भी सकती है। अगर हो, तो मेरा जो वक्तव्य है उसे कहके मैं छुट्टी पा जाना चाहता हूँ।" इसपर चचा उसे बाहर बैठकमें बिठाकर चले आये थे।

रमेश मुड़कर खिड़कीकी तरफ मुँह करके बैठ गया, और शून्यदृष्टिसे बाहर लोक-प्रवाहकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद, किसीके आनेकी आवाज सुनकर वह सावधान हो गया, और इतनेमें एक छोने जमीनसे माथा छुआकर उसे प्रणाम किया। जब वह प्रणाम करके उठी, तो रमेशसे फिर बैठा नहीं गया, वह चटसे उठ खड़ा हुआ। उसके मुँहसे निकल पड़ा—“कमन्ना।”

कमला स्वध द्वाकर खड़ी रही।

चचाने कहा—“रमेश बाबू, कमलाके समस्त दुःखको सौभाग्यमें परिणत करके भगवानने आज इसके चारों तरफसे सारा कुहरा दूर कर दिया है। आपने परम सङ्कटके समय जैसे इसकी रक्षा की है, और इसके लिए आपको जैसा गहरा दुःख सहना पड़ रहा है, इन सब बातोंका ख्याल करते हुए, आपसे सम्बन्ध तोड़ते समय कोई बात बिना कहे कमला आपसे बिदा नहीं ले सकती। इसीसे आपके पास आज यह आशीर्वाद लेने आई है।”

रमेश कुछ देर तक चुप खड़ा रहा; फिर रुके हुए गलेको जबरन साफ करता हुआ बोला—“तुम सुखी होओ कमला! मैंने बिना जाने या जानकर जो भी कुछ अपराध किया हो, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना।”

कमला इसके उत्तरमें कुछ भी न कह सकी। वह दीवार पकड़के सिर्फ खड़ी रही। कुछ देर बाद रमेशने फिर कहा—“अगर किसीको कुछ कहनेको जरूरत हो, कोई बाधा दूर करनेके लिए तुम्हें मेरी जरूरत हो, तो कहो?”

कमलाने हाय जोड़कर कहा—“मेरी बात आप किसीसे न कहियेगा, यही मेरी बिनती है।”

रमेशने कहा—“बहुत दिनों तक मैंने तुम्हारी बात किसीसे भी नहीं कही, बहुत ज्यादा गङ्गबङ्गीमें फँस जानेपर भी मैं चुप ही रहा था। किन्तु, कुछ दिन हुए, जब देखा कि अब तुम्हारी बात कहनेसे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तब सिफ़ एक परिवारके समक्ष मैंने तुम्हारी बात प्रकट की है। और उससे तुम्हारा

अनिष्ट न होकर शायद भलाई ही होगी । चचा साहबको शायद पता होगा, अज्ञदा बाबू, जिनकी लङ्कीसे—”

चचाने कहा—“हाँ हाँ, हेमनलिनी ! मैं जानता हूँ । उनलोगोंको सब बात मालम हो गई है ?”

रमेशने कहा—“हाँ । उनलोगोंसे और-कुछ कहने-सुननेकी जरूरत हो तो मैं कह सकता हूँ । पर मेरी इच्छा नहीं है । अपने जीवनका मैं काफी समय खो चुका हूँ, और भी मेरा बहुत-कुछ नष्ट हो गया है, अब मैं मुक्ति चाहता हूँ । आज तकका सब देन-लेन चुकाकर मैं अब बन्धनसे निकलकर जीना चाहता हूँ ।”

चचाने रमेशका हाथ पकड़कर स्नेहके साथ कहा—“नहीं, रमेश बाबू, आपको अब कुछ भी नहीं करना होगा । आपको बहुत ज्यादा बोझ ढोना पड़ा है, अब आप भार-मुक्त होकर स्वाधीनताके साथ जीवन बिताइये, सुखी होइये, यही मेरा आशीर्वाद है ।”

जाते समय रमेशने कमलाकी तरफ देखके कहा—“अब मैं चला कमला !”

कमलाने मुँहसे कुछ न कहकर फिर एक बार ढोक देकर प्रणाम किया ।

रमेश सङ्घकपर आकर स्वप्नाविष्टकी तरह चलते-चलते सोचने लगा, ‘कमलासे भेंट हो गई, अच्छा ही हुआ । भेंट न होती तो यह नाटक ठीकसे समाप्त न होता । हालांकि ठीकसे जान न सका कि क्या समझकर कैसे कमल उस दिन गाजीपुरका बंगला छोड़कर चलो आई, लेकिन यह स्पष्ट है कि मैं अब विलकुल ही अनावश्यक हूँ । अब मेरी आवश्यकता है सिर्फ अपने जीवनको लेकर । अब मैं उसीको सम्पूर्णरूपसे ग्रहण करके ससारमें निकल पड़ा हूँ । अब मुझे पीछे मुड़कर देखनेकी जरूरत नहीं ।’

६८

कमलाने घर लौटकर देखा, अज्ञदा बाबू हेमके साथ क्षेमङ्करीके पास बैठ बातें कर रहे हैं । कमलाको देखते ही क्षेमङ्करीने कहा—“आ गई तुम, अच्छा ही हुआ । जाओ बेटो, हेमको अपने कमरेमें ले जाकर गपशप करो । मैं अज्ञदा बाबको चाय पिलाती हूँ ।”

कमरेमें घुसते ही हेम कमलाको गले लगाकर बोल उठी—“कमला !”

कमलाने बहुत ज्यादा विस्मित न होकर कहा—“तुमने कैसे जाना कि मैं कमला हूँ !”

हेमने कहा—“एक जनेसे मैंने तुम्हारे जोवनकी सारी घटना सुन ली है। ज्यों ही सुनी, त्यो ही सुन्हे सन्देह न रहा कि तुम्हीं कमला हो। क्यों, सो मैं नहीं बता सकती ।”

कमलाने कहा—“बहन, मेरा नाम कोई जाने, यह मैं नहीं चाहतो। अपने नामसे मुझे विकार पदा हो गया है ।”

हेमने कहा—“लेकिन, इस नामके जोरसे ही तो तुम्हें अपना अधिकार मिलेगा ।”

कमलाने सिर हिलाते हुए कहा—“नहीं नहीं, मेरा जोर कुछ भी नहीं, मेरा अधिकार कुछ भी नहीं। मैं जोर लगाना ही नहीं चाहती ।”

हेमने कहा—“किन्तु तुम अपने पतिको अपने परिचयसे वशित करें रख सकती हो ? अपनी भलाई-बुराई सब-कुछ क्या उनके चरणोंमें अर्पण नहीं करोगी ? उनसे क्या कुछ छिपाया जा सकता है ?”

सहसा कमलाका चेहरा फक पड़ गया। कोई उत्तर उसे ढूढ़े न मिला। निस्पाय-सी होकर वह हेमनलिनीके मुहको तरफ ताकती रह गई। फिर, धीरेसे वह चटाईपर बैठ गई, और बोली—“भगवान तो जानते हैं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर वे मुझे क्यों ऐसो लज्जामें डालेंगे ? जो पाप मेरा नहीं है, उसकी सजा मुझे देयों देंगे ? मैं कैसे उनसे अपनो सारी बातें कहूँगी ?”

हेमनलिनीने कमलाका हाथ पकड़कर कहा—“सजा नहीं, बहन, तुम्हारी मुक्ति होगी। जब तक तुम अपने पतिसे अपनेको छिपातो रहोगो तब तक तुम अपनेको असत्यके बन्धनमें ही उलझाती रहोगी। असत्यके बन्धनको तुम अपने तेजसे तोड़ डालो, ईश्वर तुम्हारा मङ्गल करेंगे ही करेंगे ।”

कमलाने कहा—“बहन, मुझे डर लगा रहता है कि जो मिला है वह भी न जाता रहे ! इसीसे जब मैं अपनेको जाहिर करनेकी सोचही हूँ तो मेरा सारा बल जाता रहता है। पर तुम जो बात कह रही हो, सो मैं समझ रही हूँ ।

भाग्यमे जो कुछ लिखा होगा सो होगा, पर उनसे तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। उन्हें मेरा सब-कुछ मालूम होना ही चाहिए।”

हेमनलिनीने करुण-चित्तसे कहा—“तुम क्या यह चाहती हो कि और-कोई तुम्हारी बात उनसे कहे?”

कमलाने जोरसे सिर हिलाते हुए कहा—“नहीं नहीं, और-किसीके मुहसे वे नहीं सुनेंगे। मेरी बात मैं ही उनसे कहूँगी, और-कोई नहीं, मैं हो कहूँगी।”

हेम—“यही अच्छा है। तुम्हारे साथ मेरी अब भेट होगी या नहीं, मैं नहीं कह सकती। हमलोग यहाँसे चले जा रहे हैं।”

कमला—“कहाँ जाओगी?”

हेम—“कलकत्ता। अब मैं चलती हूँ वहन, इस वहनको भूल न जाना!”

कमलाने उसका हाथ पकड़के कहा—“मुझे चिट्ठी दोगी न?”

हेमने कहा—“दूँगी।”

कमला बोली—“मुझे कब क्या करना चाहिए, सो तुम बताती रहना। तुम्हारी चिट्ठीसे मुझे बल मिलेगा।”

हेमने जरा हँसते हुए कहा—“मुझसे अच्छी सलाह देनेवाला आदा तुम्हे यहीं मिल जायगा वहन। इसके लिए चिन्ता न करो।”

आज, हेमनलिनीके लिए कमला अपने मनमें एक वेदना-सी अनुभव करं लगी। हेमके प्रशान्त मुँहपर कैसा-तो एक भाव था, जिसे ढेखकर कमलाव आँखोंसे आँसू आना चाहते थे, किन्तु साथ ही हेममे कैसा तो एक दूरत्व भी है, उससे मनकी सब बातें खोलकर नहीं कही जा सकतीं, उससे कोई भीतर बात पूछनेमें सझोच होने लगता है। आज कमलाकी सब बात तो हेम जागई, किन्तु, अपनेको उसने गभीर निस्तव्यतामें ही छिपाये रखा। सिर्फ़ एकोई-चीज़ छोड़ गई, जो विलीयमान गोधूलिकी तरह असीम विषादके वैराग्यसे परिपूर्ण है।

आज दिन-भर, घरका काम-काज करते हुए भी कमलाके मनको हेमके बातें और उसकी शान्त-सकृदण आँखोंकी दृष्टि चोट पहुँचाती रही। कमल हेमनलिनीके जीवनकी और-कोई घटना नहीं जानती, सिर्फ़ इतना ही जानती है।

कि नालिनाक्षके साथ उसकी सगाईं पक्खी होकर छूट गईं। हेमनलिनी अपने बगीचेसे आज डाली भरके फूल लाइ थीं। शामको नहा-धोकर कपड़े पहनके उन फूलोंसे वह माला गूथने बैठ गईं। बीचमें एक बार क्षेमझरी आई, और उसके पास बैठके एक गहरी साँस छोड़कर बोली—“बेटी, आज हेम जब मेरे पाँव छूकर चली गईं, तो मेरा ऐसा जो करने लगा कि मैं कह नहीं सकती। कुछ भी कहो, लड़को अच्छी है। मुझे अब बार बार ख्याल आ रहा है कि उसे बहू बना लेती तो अच्छा होता। बाकी क्या या, होनेको तो हो ही जाता, पर मेरा लड़का ऐसा है कि उससे किसीका बस नहीं चलता। ऐन बत्तपर वह कर्यों अकड़ बैठा, सो वही जाने। अन्तमें वे ही इस ब्याहसे विमुख हो गई थीं, इस बातको अब वे मानता ही नहीं चाहतीं। इतनेमे बाहर किसीके आनेको आहट सुनकर उन्होंने पुकारा—“नलिन, जरा सुनना !”

कमलाने जल्दीसे अँचलके सब फूल और माला ढक्कर मायेका पला खोंच लिया। नलिनाक्ष भीतर आया तो क्षेमझरीने कहा—“हेमसे आज तेरो भेट दुई थी क्या ?” नलिनने कहा—“हीं, अभी-अभी मैं सबको गाड़ीमें बिठाकर आ रहा हू।” क्षेमझरी बोली—“तू कुछ भी कह बेटा, हेम सरीखी लड़की ग्रुत कम देखनेमें आती हैं।” यह बात उन्होंने ऐसे कही जैसे नलिनाक्ष इस बातका बराबर विरोध हो करता आया हो। माकी बात सुनकर नलिनाक्ष चुपचाप खड़ा-खड़ा हँसता रहा। क्षेमझरीने कहा—“हँसता है ! मैंने हेमसे उगाई की, गोद तक भर आई, और तू अपनी जिदसे टससे मस न हुआ। प्रब तेरे मनमें क्या जरा भी पश्चात्ताप नहीं होता ?”

नलिनाक्षने एक क्षणके लिए कमलाके मुहकी तरफ देखा। देखा कि कमला उत्सुक नेत्रोंसे उसीकी तरफ देख रही है। चार आँखें होते ही कमला मेहुरी होकर मिट्टीमें मिल गईं। नलिनाक्षने कहा—“मा, तुम्हारा लड़का क्या ऐसा ही सत्पत्र है कि तुमने सगाईं कर दी और ब्याह हो गया। मुझ जैसे गिरस गम्भीर आदमीको क्या कोई आसानीसे पसन्द कर सकता है ?”

यह बात सुनते ही फिर कमलाकी झुकी हुई आँखें ऊपरको उठीं; और उठते ही उसने देखा कि नलिनाक्षकी हास्योज्ज्वल दृष्टि उसीपर पढ़ी हुई है।

अबको बार कमलाको ऐसा लगा कि वह कमरे से किसी तरह मांगकर निकल जाय तो जी जाय। क्षेमद्वारीने कहा—“जा जा, अब ज्यादा बात न बता तेरी बात सुनके गुस्सा आता है।”

इस सभाके खत्म होनेपर कमलाने हेमनलिनीके उन फूलोंसे एक बड़ीन माला गूथ डाली। और फूलोकी डालीमें उसे रखकर, पानीके छींटे देकर, उनलिनाक्षके उपासना-घरमें रख आई। बार-बार उसे यही खयाल आने लगा। विदाके दिन हेम डाली भरकर फूल लाई थी। इससे उसकी आँखें भर आईं।

इसके बाद, अपने कमरेमें आकर बहुत देर तक वह नलिनाक्षकी उद्धिके विषयमें सोचती-विचारती रही जो उसकी आँखोंमें समाकर न-ज क्या-क्या कह रही थी। नलिनाक्ष उसे क्या समझ रहा होगा? कमला मनकी बात नलिनाक्षको शायद मालूम हो गई होगी। पहले जब वह उस सामने निकलती नहीं थी तब वह एक तरहसे अच्छी थी। अब प्रतिदिन व नलिनाक्षकी उद्धिमें पकड़ाई देती जा रही है। अपनेको छिपा रखनेकी यही त सजा है। कमला सोचने लगी, “जहर वे मन-ही-मन कह रहे होंगे कि ‘इ हरिदासीको मा न-जाने कहांसे ले आईं’, ऐसी निर्लज्ज लड़को तो मैंने कहं नहीं देखी।” उन्होंने अगर ऐसी बात एक क्षणके लिए भी पोक्की हो, तब त बड़ी लज्जाकी बात है।”

रातको विस्तरपर पढ़े-पढ़े कमलाने मन-ही-मन हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा क जैसे भी हो, कल ही मैं अपना परिचय टे दूँगी। उसके बाद जो कुछ हो सो होता रहेगा।

दूसरे दिन तड़के ही उठके वह नहाने चली गई। प्रतिदिन गङ्गासे लौटने वाल वह गङ्गाजलसे नलिनाक्षका उपासना-घर धो-पौँछकर तब-कहीं दूसरे काम हाय लगाती थी। आज भी वह अपना पद्मला कर्तव्य पूरा करनेके लिए उपास घरमें पहुंची। देखा कि नलिनाक्ष आज सवेरे ही बहाँ जाकर बैठ गया है ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कमला अपने मनमें असमाप्त कर्तव्यका भार ले हुए धीरे-धीरे वापस आने लगी। थोड़ी दूर चलकर सहसा वह ठिठकके खड़ हो गई, कुछ सोचा, और फिर धीरे-धीरे उपासना-घरके द्वारके पास जाकर वे

गईं। उसे किस वेष्टनने घेर रखा था सो वही जाने। सारा संसार उसे छाया-सा दिखाई देने लगा। कितना समय बोत गया, उसे कुछ भी नहीं मालूम। सहसा उसने देखा कि नलिनाक्ष उपासन-घरसे निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। कमला क्षणमें उठ खड़ी हुई और उसी क्षण उसने घुटने टेकके एकदम नलिनाक्षके पाँवोंपर सिर रखके प्रणाम किया। उसके सद्वस्नानसे-भीगे बाल नलिनके पाँवोंको घेरे हुए जमीनपर फैल गये। कमला प्रणाम करके उठी, और पत्थरकी मूर्तिकी तरह स्थिर खड़ी रही। उसे कुछ होशा ही न रहा कि उसके भाईका पल्ला कहाँ जा पढ़ा है। मानो उसे दिखाई ही नहीं दिया कि नलिनाक्ष अनिमेष स्थिर दृष्टिसे उसके मँहकी ओर देख रहा है। उसका वाय्यज्ञान लुप्त हो गया, उसने अपने अन्तरकी चैतन्य-आभासे अपूर्वरूपसे दीप होकर अविचलित कण्ठसे कहा—“मैं कमला हूँ।”

इस एक बातके कहते ही, उसके अपने ही कण्ठस्वरसे मानो उसका ध्यान भङ्ग हो गया; और उसकी एकाग्र चेतना बाहर व्याप्त हो गई। तब उसका सारा शरीर काँपने लगा, सिर झुक गया, बहाँसे हिलनेकी उसमें शक्ति न रही। और खड़ा रहना भी उसके लिए असाध्य हो उठा। मानो उसने धपना सारा बल, सारा प्रण “मैं कमला हूँ” के साथ नलिनाक्षके चरणोंमें उँड़ेल दिया हो, और अब उसके पास अपनी लज्जा रखनेका भी कोई उपाय न रह गया हो। अब सब-कुछ नलिनाक्षकी द्यापर ही निर्भर है।

नलिनाक्षने धीरेसे उसका हाथ अपने हाथमें लेते हुए कहा—“मैं जानता हूँ, तुम मेरी कमला हो। आओ, भीतर आओ।”

और, उपासना-घरमें उसे ले जाकर उसीकी गूथी हुई माला उसके गलेमें पहनाते हुए नलिनाक्षने कहा—“आओ, हम उन्हें प्रणाम करें।” दोनोंने एक साथ मिलकर परमात्माको प्रणाम किया। और खिड़कीमेंसे प्रभातको किरणें आकर दोनोंपर आशीर्वाद बरसाती रहीं। इसके बाद फिर एक बार नलिनाक्षके पाँव छूकर कमला जब खड़ी हुई, तो उसकी दुस्सह लज्जाने उसका पीड़न नहीं किया। हर्षके उल्लासने नहीं बल्कि एक विशाल मूर्तिकी अच्चल शान्तिने उसके अस्तित्वको प्रभातके अकुणित उदार-निर्मल आलोकके साथ व्याप्त कर दिया। एक गहरी

भक्ति उसके हृदयमें परिपूर्ण हो उठो, उसके अन्त-करणकी पूजाने समस्त विश्वको धूपकी पुण्य-गन्धसे वेष्टित कर लिया । टेखते-टेखते कब अज्ञातमें उसकी आँखें आँसुओंसे भर आईं, और कब बड़ी-बड़ी वूँदें उसके कपोलोंसे ढलकने लगीं, वह कुछ जान ही न सकी । आँसुओंकी वारा रुकना ही नहीं चाहती, मानो उसके अनाय-जीवनके समस्त दुःखके मेघ आज आनन्दके आँसू बनकर भर जाना चाहते हैं । नलिनाक्षने उससे कोई बात न कहकर एक बार सिर्फ अपने दाहने हाथसे उसके ललाटपर पढ़े हुए भीगे बालोंको हटा दिया, और बाहर चला गया ।

कमला अपनी पूजा अभी तक समाप्त न कर सकी, अपने परिपूर्ण हृदयकी धारा अब भी वह ढालना चाहती है, इसलिए उसने नलिनाक्षके कामरेमें जाकर अपनी माला उन खड़ाउँधोंपर चढ़ा दी और उन्हे सिरसे लगाकर बड़े प्रेमसे यथास्थान रख दिया । इसके बाद, दिन-भर घरका सारा काम-काज<sup>१</sup> उसे देव-सेवाके समान मालूम होने लगा । प्रत्येक काममें मानो वह आकॉशमें आनन्दकी तरङ्गके समान उठती और पड़ती रही । क्षेमङ्करोने उससे कहा—“वेदी, तुम कर क्या रही हो ? एक ही दिनमें क्या सारा घर-द्वार धो-पौँछकर बिलकुल नया बना दोगी ?”

तीसरे पहर, फुरसतके बक्स, आज सिलाइंका काम न करके कमला अपने कमरेमें जमीनपर चुपचाप स्थिर होकर बैठी थी । इतनेमें नलिनाक्ष एक टोकरोंमें कुछ स्थलपद्म लिये-हुए कमरेके अनंदर आया, और बोला—“कमला, इन फूलोंको तुम पानीके छोटे टेकर ताजा बनाये रखो, आज शामके बाद हम-तुम दोनों मिलकर माको प्रणाम करने चलेंगे ।”

कमलाने सिर मुकाये हुए कहा—“मेरी सब बात तो तुमने सुनी ही नहीं !”

नलिनाक्षने कहा—“तुम्हें कुछ कहनेकी जहरत नहीं, मैं सब जानता हूँ ।”

कमलाने हथेलियोंसे सुँह टककर कहा—“मा क्या—” इसके आगे वह और-कुछ कह ही न सकी । नलिनाक्षने उसके सुँहपरसे हाय हटाते हुए कहा—“मा अपने जीवनमें बहुतोंके बहुत अपराव माफ करती आई हैं, और जो अपराध ही नहीं, उसे वे जहर क्षमा कर सकेंगी ।”

# अकारादिक्रमिक सूची

[भाग १ से १० तक]

भाग-पृष्ठ	कहानी	भाग-पृष्ठ
५ - ११६	ल्याग	३ - २८
८ - ४९	दालिया	३ - १२
६ - १३४	दीवार (मव्यवर्तीनी)	४ - ११४
८ - २५	दुराशा	३ - ११८
७ - ७०	दुलहिन	२ - १५०
७ - ८९	देन-लेन	३ - १४२
ओ अन्दर) पेका)	दग्धि-दान	२ - ३६
नी कहानी नी	निशीथमे	३ - ३९
	नील (आपद)	६ - ८५
	पोस्ट-मास्टर	५ - ८०
	प्यासा पत्थर (क्षुधित पाषाण)	२ - ११
	प्राण-मन (लिपिका)	२ - १
	फरक (व्यववान)	५ - १०८
	वदला (प्रतिहिंसा)	७ - ९
(ण)	वडलीका दिन (लिपिका)	१ - १४०
	वाकायदा उपन्यास	४ - १०७
	बेटा (पुत्रयज्ञ)	७ - ८१
। लौटना)	भाई-भाई (दान-प्रतिदान)	६ - ३०
	मणि-हीन	३ - ६९
	महामाया	६ - १०३
	मुक्तिका उपाय	२ - १३५
	रामलालकी बैवकूफी	५ - ८९
	रासमणिका लड़का	७ - २७
	शुभदग्धि	६ - १

संस्कार	५ - ५६	जनगण-मन-अधिनायक	
सजा	५ - ३९	दु समय	
सड़ककी घात	३ - ५	निर्झरका स्वप्न-भंग	
समाधान	७ - १००	सूरदासकी प्रार्थना	
समाप्ति	५ - ५	होली	
सम्पत्ति-समर्पण	४ - ९३	निवन्ध	
सम्पादक	३ - १०४	जन्म-दिन (गाधीजी)	
सुभा	३ - ९२	ठक्कन (आवरण)	
सौगत (लिपिका)	१ - ९	तपोवन	
स्वर्णमृग	१ - १२४	दो वहनके विषयमें (भूमिका)	
उपन्यास		पापके खिलाफ (गाधीजी)	
उलझन ('नौकाछबी')	९१९० - १	'मा मा हिंसीः'	
दो वहन	१ - ११	राष्ट्रकी पहली पूजी	
फुलवाढ़ी (मालब्ब)	४ - ७	त्रत-उद्यापन (गाधीजी)	
कथिता		गिक्षाका विकीरण	
अभिसार (वासवदत्ता)	८ - १३	हिन्दू-मुसलमान	
अहृप-रत्न	८ - २४		

---

च : भाग ६१०

उत्तर-भवनामादः

दुर्वल

निरंतर न्द्र मग

सुरदम्भा प्रदेश

हैर्व

निवाय

लग्नेश्वर (गार्वाली)

दृष्ट (कावय)

नाशन

दो दृष्टके विषयम् (भूमि)

दृष्टके निलाक (गार्वाली)

'मा ना हिसी'

गद्दारी पहली पूर्णी

इत्त-उपापन (गार्वाली)

शिखान विकारण

हिन्दु-सुसलभान